



मध्यप्रदेश
राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान

2011-12 - 2019-20

**ESTIMATES OF STATE DOMESTIC PRODUCT
MADHYA PRADESH**

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
Directorate of Economics and Statistics, Madhya Pradesh

2020



राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान
ESTIMATES OF STATE DOMESTIC PRODUCT
2011-12 – 2019-20

2020

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश
विन्ध्याचल भवन, भोपाल 462004

DIRECTORATE OF ECONOMICS & STATISTICS, MADHYA PRADESH
VINDHYACHAL BHAWAN, BHOPAL462004

Website: <http://www.des.mp.gov.in>
email : des@mp.nic.in



© आयुक्त,
आर्थिक एवं सांख्यिकी
संचालनालय,
मध्यप्रदेश,
विन्ध्याचल भवन,
भोपाल 462004
द्वारा प्रतिलिप्याधिकार आरक्षित

© Copy right reserved by
Commissioner,
Directorate of
Economics & Statistics,
Madhya Pradesh,
Vindhyachal Bhawan,
Bhopal 462004

समस्त अधिकार आरक्षित । इस प्रकाशन का कोई भी भाग आयुक्त, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश से पूर्व लिखित अनुमति बिना छापा, प्रतिलिप्यांकन, अभिलेखन या सूचना भंडारण तथा पुनः स्थापना पद्धति सहित इलेक्ट्रॉनिक अथवा यंत्रकीय विधि द्वारा किसी भी रूप या प्रकार में विक्रयार्थ पुनः प्रकाशित नहीं किया जा सकता है ।

All rights reserved. No part of this publication can be reproduced for sale in any form or by any means, electronic or mechanical including photo copying, recording or by any information storage and retrieval system, without prior permission in writing from the Commissioner, Directorate of Economics & Statistics, Madhya Pradesh.

प्राक्कथन

आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा प्रति वर्ष राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते हैं । इस प्रकाशन में नवीन आधार वर्ष 2011-12 पर वर्ष 2011-12 से 2019-20 तक वृहत् उद्योग समूहवार राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रचलित एवं स्थिर भावों पर प्रस्तुत किये गये हैं । प्रकाशन के भाग-एक में राज्य की अर्थ-व्यवस्था का संक्षिप्त विश्लेषण तथा भाग-दो में राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित तालिकाएँ दर्शायी गयी है ।

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, नई दिल्ली के राष्ट्रीय लेखा प्रभाग द्वारा दिये गये बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं सतत् सहयोग के लिये मैं विशेष रूप से आभारी हूँ । अनुमानों की गणना के लिये आँकड़े उपलब्ध कराने में दिये गये सहयोग एवं त्वरित कार्यवाही के लिये केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय एवं राज्य सरकार के विभाग भी धन्यवाद के पात्र हैं ।

संचालनालय के राज्यीय आय संभाग द्वारा यह प्रकाशन तैयार किया गया है । राज्यीय आय संभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के निष्ठापूर्ण प्रयासों एवं कर्मठता की सराहना करना चाहूँगा ।

प्रकाशन को अधिक उपयोगी बनाने हेतु आपके सुझावों का स्वागत है ।

आर्थिक एवं सांख्यिकी
मध्यप्रदेश, भोपाल
जून, 2020

आर० एस० राठौर,
आयुक्त

मध्यप्रदेश राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान
को प्रस्तुत करने से संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी

| | |
|-------------------------|---|
| संयुक्त संचालक | डॉ० एस० महाले श्री विश्वजीत रायकवार |
| सहायक संचालक | श्री संजय बातव |
| सहायक सांख्यिकी अधिकारी | श्री आर०डी० ठाकरे श्रीमती अमृता चन्दवासकर श्रीमती प्रभा सेन श्री रवि शंकर शर्मा श्रीमती साधना सक्सेना |
| सहायक प्रोग्रामर | श्री मुकेश कुमार कौशले |
| अन्वेषक | श्री भवन कुमार चौहान |

•••••

PREFACE

The Directorate of Economics & Statistics, Madhya Pradesh prepares estimates of State Domestic Product every year. The publication contains estimates of State Domestic Product by broad industry groups from 2011-12 to 2019-20 both at current and constant prices with new base year 2011-12. Overview of the State's economy is given in **part-one** and the tabular information of State Domestic Product in **part-two** of this publication.

I am especially grateful to National Accounts Division of Central Statistical Office, New Delhi for providing valuable guidance and contineous support. I also thank to various Central Ministries and Departments of the State Government for their co-operation and timely response in providing the voluminous information for compiling the estimates.

The publication is prepared by State Income Division of the Directorate. I place on record my appreciation of the sincere efforts and labour put in by the officers and staff of the State Income Division.

Suggestions for improving the contents of the publication are welcome.

Economics & Statistics
Madhya Pradesh, Bhopal
June, 2020

R. S. Rathore,
COMMISSIONER

**OFFICERS & STAFF WITH THE PREPARATION OF ESTIMATES
OF STATE DOMESTIC PRODUCT MADHYA PRADESH 2020**

| | |
|--------------------------------------|--|
| Joint Director | Dr. S. Mahale Shri Vishwajeet Raikwar |
| Assistant Director | Shri Sanjay Batav |
| Assistant Statistical Officer | Shri R.D. Thakre Smt. Amruta Chandwaskar Smt. Prabha Sen Shri Ravi Shanker Sharma Smt. Sadhna Saxena |
| Assistant Programmer | Shri Mukesh Kumar Koushle |
| Investigator | Shri Bhawan Kumar Chouhan |

•••••

विषय सूची CONTENTS

| | | |
|----------------------------|---|----|
| | प्राक्कथन Preface | 1 |
| | रेखाचित्र Graphs | 9 |
| भाग 1 Part 1 | संक्षिप्त विवरण Overview | 19 |
| भाग 2 Part 2 | तालिकाएं Tables | |
| विवरण 2.1 Statement 2.1 | राज्य घरेलू उत्पाद – एक दृष्टि में (प्रचलित भावों पर) State Domestic Product - At a glance (at current prices) | 42 |
| विवरण 2.2 Statement 2.2 | राज्य घरेलू उत्पाद – एक दृष्टि में (स्थिर 2011–12 भावों पर) State Domestic Product - At a glance (at constant 2011-12 prices) | 43 |
| विवरण 2.3 Statement 2.3 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर) Gross State Value Added by economic activity (at current prices) | 44 |
| विवरण 2.4 Statement 2.4 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर प्रतिशत वृद्धि) Gross State Value Added by economic activity (Percentage Growth at current prices) | 46 |
| विवरण 2.5 Statement 2.5 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर प्रतिशत वितरण) Gross State Value Added by economic activity (Percentage Distribution at current prices) | 48 |
| विवरण 2.6 Statement 2.6 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थिर 2011–12 भावों पर) Gross State Value Added by economic activity (at constant 2011-12 prices) | 50 |

विषय सूची CONTENTS

| | | |
|----------------|--|----|
| विवरण 2.7 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थिर 2011-12 भावों पर प्रतिशत वृद्धि) | 52 |
| Statement 2.7 | Gross State Value Added by economic activity (Percentage Growth at constant 2011-12 prices) | |
| विवरण 2.8 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल राज्य मूल्य वर्धन (स्थिर 2011-12 भावों पर प्रतिशत वितरण) | 54 |
| Statement 2.8 | Gross State Value Added by economic activity (Percentage Distribution at constant 2011-12 prices) | |
| विवरण 2.9 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर) | 56 |
| Statement 2.9 | Net State Value Added by economic activity (at current prices) | |
| विवरण 2.10 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर प्रतिशत वृद्धि) | 58 |
| Statement 2.10 | Net State Value Added by economic activity (Percentage Growth at current prices) | |
| विवरण 2.11 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल राज्य मूल्य वर्धन (प्रचलित भावों पर प्रतिशत वितरण) | 60 |
| Statement 2.11 | Net State Value Added by economic activity (Percentage Distribution at current prices) | |
| विवरण 2.12 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल राज्य मूल्य वर्धन (स्थिर 2011-12 भावों पर) | 62 |
| Statement 2.12 | Net State Value Added by economic activity (at constant 2011-12 prices) | |
| विवरण 2.13 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल राज्य मूल्य वर्धन (स्थिर 2011-12 भावों पर प्रतिशत वृद्धि) | 64 |
| Statement 2.13 | Net State Value Added by economic activity (Percentage Growth at constant 2011-12 prices) | |
| विवरण 2.14 | आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल राज्य मूल्य वर्धन (स्थिर 2011-12 भावों पर प्रतिशत वितरण) | 66 |
| Statement 2.14 | Net State Value Added by economic activity (Percentage Distribution at constant 2011-12 prices) | |

विषय सूची CONTENTS

| | | |
|---|--|----|
| भारतीय संघ एवं राज्यों के अनुमान | | |
| Estimates of States and Indian Union | | |
| विवरण 3.1 | भारतीय संघ एवं राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर | 70 |
| Statement 3.1 | Gross Domestic Product of States and Indian Union at current prices | |
| विवरण 3.2 | भारतीय संघ एवं राज्यों का सकल घरेलू उत्पाद स्थिर (2011-12) भावों पर | 72 |
| Statement 3.2 | Gross Domestic Product of States and Indian Union at constant (2011-12) prices | |
| विवरण 3.3 | भारतीय संघ एवं राज्यों का निवल घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर | 74 |
| Statement 3.3 | Net Domestic Product of States and Indian Union at current prices | |
| विवरण 3.4 | भारतीय संघ एवं राज्यों का निवल घरेलू उत्पाद स्थिर (2011-12) भावों पर | 76 |
| Statement 3.4 | Net Domestic Product of States and Indian Union at constant (2011-12) prices | |
| विवरण 3.5 | भारतीय संघ एवं राज्यों की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भावों पर | 78 |
| Statement 3.5 | Per Capita Net Domestic Product of States and Indian Union at current prices | |
| विवरण 3.6 | भारतीय संघ एवं राज्यों की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर (2011-12) भावों पर | 80 |
| Statement 3.6 | Per Capita Net Domestic Product of States and Indian Union at constant (2011-12) prices | |
| | कार्यपद्धति | 83 |
| | Methodology | |

.....


Blank

रेखाचित्र
Graphs


Blank

प्रतिशत वृद्धि
Percentage Growth

मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद
Gross State Domestic Product of Madhya Pradesh






मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय
Per Capita Income of Madhya Pradesh



(प्रा)—प्रावधिक, (त्त्व)—त्वरित, (अ)—अग्रिम
(P) = Provisional, (Q) = Quick, (A) = Advance

प्रतिशत वृद्धि
Percentage Growth




क्षेत्रवार मध्यप्रदेश का सकल राज्य मूल्य वर्धन
Sectorwise Gross State Value Added of Madhya Pradesh
प्रचलित भावों पर at Current Prices



(प्रा)–प्रावधिक, (त्वे)–त्वरित, (अ)–अग्रिम
(P) = Provisional, (Q) = Quick, (A) = Advance

प्रतिशत वृद्धि
Percentage Growth

क्षेत्रवार मध्यप्रदेश का सकल राज्य मूल्य वर्धन
Sectorwise Gross State Value Added of Madhya Pradesh
स्थिर (2011-12) भावों पर at constant (2011-12) prices




(प्रा)—प्रावधिक, (त्त्व)—त्वरित, (अ)—अग्रिम
(P) = Provisional, (Q) = Quick, (A) = Advance

प्रतिशत वितरण
Percentage Distribution

क्षेत्रवार मध्यप्रदेश का सकल राज्य मूल्य वर्धन
प्रचलित भावों पर

**Sectorwise Gross State Value Added of Madhya Pradesh
at current prices**




(प्रा)—प्रावधिक, (त्व)—त्वरित, (अ)—अग्रिम
(P) = Provisional, (Q) = Quick, (A) = Advance

प्रतिशत वितरण
Percentage Distribution

क्षेत्रवार मध्यप्रदेश का सकल राज्य मूल्य वर्धन
स्थिर (2011-12) भावों पर

**Sectorwise Gross State Value Added of Madhya Pradesh
at constant (2011-12) prices**





(प्रा)—प्रावधिक, (त्व)—त्वरित, (अ)—अग्रिम
(P) = Provisional, (Q) = Quick, (A) = Advance

प्रतिशत वितरण
Percentage Distribution

क्षेत्रवार मध्यप्रदेश का सकल राज्य मूल्य वर्धन
Sectorwise Gross State Value Added of Madhya Pradesh

(प्रचलित भावों पर at Current Prices)



- 1 फसलें
Crops
- 2 पशुधन
Livestock
- 3 वानिकी और लट्टा बनाना
Forestry and logging
- 4 मत्स्यन एवं जलीय कृषि
Fishing and aquaculture
- 5 खनन और उत्खनन
Mining and quarrying
- 6 विनिर्माण
Manufacturing
- 7 बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं
Electricity, gas, water supply & other utility services
- 8 निर्माण
Construction
- 9 व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह
Trade, repair, hotels and restaurants
- 10 परिवहन एवं भंडारण
Transport by other means and Storage
- 11 रेलवे
Railways
- 12 संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं
Communication & services related to broadcasting
- 13 वित्तीय सेवाएं
Financial services
- 14 स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं
Real estate, ownership of dwelling & professional services
- 15 लोक प्रशासन
Public administration
- 16 अन्य सेवाएं
Other services



प्रतिशत वितरण
Percentage Distribution

क्षेत्रवार मध्यप्रदेश का सकल राज्य मूल्य वर्धन
Sectorwise Gross State Value Added of Madhya Pradesh
(स्थिर (2011-12) भावों पर at constant (2011-12) prices)

- 1 फसलें
Crops
- 2 पशुधन
Livestock
- 3 वानिकी और लट्ठा बनाना
Forestry and logging
- 4 मत्स्यन एवं जलीय कृषि
Fishing and aquaculture
- 5 खनन और उत्खनन
Mining and quarrying
- 6 विनिर्माण
Manufacturing
- 7 बिजली, गैस, जलापूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं
Electricity, gas, water supply & other utility services
- 8 निर्माण
Construction
- 9 व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह
Trade, repair, hotels and restaurants
- 10 परिवहन एवं भंडारण
Transport by other means and Storage
- 11 रेलवे
Railways
- 12 संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं
Communication & services related to broadcasting
- 13 वित्तीय सेवाएं
Financial services
- 14 स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं
Real estate, ownership of dwelling & professional services
- 15 लोक प्रशासन
Public administration
- 16 अन्य सेवाएं
Other services



Blank

भाग 1 संक्षिप्त विश्लेषण
Part 1 Overview

संक्षिप्त विश्लेषण

प्रस्तावना

राज्य की अर्थव्यवस्था के उद्योग-समूहवार विश्लेषण में क्षेत्रीय लेखा सांख्यिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है । राज्य के समाजार्थिक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था एवं विकास के स्तर के मूल्यांकन के लिए राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान ही एक महत्वपूर्ण संकेतक है, साथ ही यह सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के नियंत्रण एवं विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ठोस आधार है । राज्य की अर्थव्यवस्था का पूर्ण एवं सापेक्ष निष्पादन प्रति व्यक्ति आय के आधार पर किया जाता है ।

संयुक्त राष्ट्र संगठन के सांख्यिकी कार्यालय द्वारा विकासशील देशों के लिये प्रस्तावित **राष्ट्रीय लेखा पद्धति** के अनुरूप केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय, भारत सरकार द्वारा अपनाये जा रहे राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के सिद्धांतों एवं कार्यपद्धति के अनुरूप राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान तैयार किये जाते हैं । इस प्रकार ये अनुमान राज्य शासन, राष्ट्रीय योजना आयोग, वित्त आयोग एवं अन्य संगठनों को तुलनात्मक अध्ययन, आर्थिक कार्यकलापों के मध्य संतुलित वित्त प्रवाह एवं समुचित विकास के उद्देश्य से भावी योजनाओं के लिये उपलब्ध होते हैं ।

संचालनालय द्वारा प्रति वर्ष पूर्व वर्ष के मार्च माह में समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिये राज्य घरेलू उत्पाद के त्वरित अनुमान कृषि उत्पाद, औद्योगिक उत्पादन सरकारी व्यय एवं अन्य नवीनतम/आंशिक आँकड़ों के आधार पर तैयार किये जाते हैं । पूर्व वित्तीय वर्ष के त्वरित अनुमानों के साथ ही विभिन्न स्त्रोंतो/अभिकरणों से उपलब्ध विस्तृत और अद्यतन आंकड़ों को प्रयुक्त करते हुए कुछ पूर्व वित्तीय वर्षों के अनुमानों को पुनरीक्षित भी किया जाता है ।

पूर्व वित्तीय वर्ष के लिये त्वरित अनुमानों के अलावा चालू वित्तीय वर्ष के लिये घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान भी तैयार किये जाते हैं जो कृषि फसलों के पूर्वानुमान, कुछ क्षेत्रों के लिये निर्धारित वार्षिक लक्ष्य, राज्य शासन के बजट अनुमानों के विश्लेषण एवं प्रमुख क्षेत्रों के व्यय एवं निष्पादन के आँकड़ों पर आधारित होते हैं ।

राज्य विधान सभा में बजट प्रस्ताव के साथ प्रस्तुत प्रकाशन **“मध्यप्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण”** में भी राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान सारांश में दिये जाते हैं ।

इस अंक में वर्ष 2011-12 से वर्ष 2019-20 तक के लिए राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान प्रचलित एवं स्थिर (2011-12) भावों पर प्रस्तुत किये गये हैं । वर्ष 2017-18 के लिये प्रावधिक, वर्ष 2018-19 के त्वरित तथा वर्ष 2019-20 के अग्रिम अनुमान तैयार किये गये हैं ।

OVERVIEW

INTRODUCTION

Regional Accounts Statistics play an important role in industry-group wise analysis of the State's economy. The estimates of State Domestic Product are important and reliable indicator to measure overall growth of the economy as well as the level of development in various socio-economic sectors. These estimates provide a solid base for formulation of development programmes and to pursue a sound economic policy. The Per Capita Income is use to determine both absolute and relative performance of the economy of the State.

The Estimates of State Domestic Product are prepared according to methodology and principles adopted by the Central Statistical Organisation, Government of India under the "National Accounts Statistics", which in turn is based on the **System of National Accounts**, suggested by the Statistical Office of the United Nations for Developing Countries. In this way these estimates are available to State Government, Planning Commission, Finance Commission and other Organisations for comparative study, to regulate the fund flow among the economic activities and for better developmental planning.

The Directorate prepares every year Quick estimates of State Domestic Product for the financial year ending March of the preceding year. These estimates are based on the latest available data on agricultural production, industrial production, government expenditure and other current/partial data available. The estimates for a few earlier financial years are also revised using the detailed and more comprehensive data available from various sources/agencies.

Beside the Quick estimates for the preceding financial year, the Advance estimates of State Domestic Product for current financial year are also compiled on the basis of forecast level of agricultural crops, targets fixed for certain sectors, analysis of budget estimates of State government and expenditure and performance of key sectors.

Estimates of State Domestic Product are also given in brief in the publication "**Economic Survey of Madhya Pradesh**" presented along with the Budget proposals before the State Legislative Assembly.

This publication presents the estimates of State Domestic Product both at current and constant (2011-12) prices from the year 2011-12 to 2019-20. For the year 2017-18 Provisional, year 2018-19 quick and advance estimates are prepared for the year 2019-20.

1. राज्य की अर्थव्यवस्था


मध्यप्रदेश एवं अखिल भारत के सकल घरेलू उत्पाद, निवल घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय के तुलनात्मक आंकड़े क्रमशः सारणी 1(अ), 1(ब) एवं 1(स) में दिये गये हैं ।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद

मध्यप्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5.77 प्रतिशत की वृद्धि आंकलित करते हुए स्थिर (2011-12) भावों पर वर्ष 2017-18 के रूपये 493516 करोड़ की अपेक्षा वर्ष 2018-19 में रूपये 522009 करोड़ अनुमानित किया गया है, जबकि अग्रिम अनुमानों के आधार पर 7.62 प्रतिशत की वृद्धि के साथ वर्ष 2019-20 में सकल घरेलू उत्पाद 561801 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है। प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11.71 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2017-18 के रूपये 724729 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 में रूपये 809592 करोड़ अनुमानित किया गया है । वर्ष 2019-20 हेतु आंकलित अग्रिम अनुमानों के अनुसार 11.99 प्रतिशत की वृद्धि के साथ यह 906672 करोड़ रूपये रहने का अनुमान है । अखिल भारत के सकल देशीय उत्पाद की वृद्धि दर वर्ष 2019-20 में स्थिर भावों (2011-12) पर 5.02 तथा प्रचलित भावों पर 7.45 प्रतिशत रहने का अनुमान है ।

सारणी 1 (अ)
अखिल भारत एवं मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद

| वर्ष | तुलनात्मक आंकड़े (₹ करोड़) | | | | पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि | | | |
|----------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | अखिल भारत | | मध्यप्रदेश | | अखिल भारत | | मध्यप्रदेश | |
| | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर |
| 2011-12 | 8736329 | 8736329 | 315562 | 315562 | - | - | | |
| 2012-13 | 9944013 | 9213017 | 380925 | 351683 | 13.82 | 5.46 | 20.71 | 11.45 |
| 2013-14 | 11233522 | 9801370 | 439483 | 365134 | 12.97 | 6.39 | 15.37 | 3.82 |
| 2014-15 | 12467959 | 10527674 | 479939 | 383944 | 10.99 | 7.41 | 9.21 | 5.15 |
| 2015-16 | 13771874 | 11369493 | 541068 | 418736 | 10.46 | 8.00 | 12.74 | 9.06 |
| 2016-17 | 15391669 | 12308193 | 649823 | 470669 | 11.76 | 8.26 | 20.10 | 12.40 |
| 2017-18 (प्रा) | 17098304 | 13175160 | 724729 | 493516 | 11.09 | 7.04 | 11.53 | 4.85 |
| 2018-19 (त्व) | 18971237 | 13981426 | 809592 | 522009 | 10.95 | 6.12 | 11.71 | 5.77 |
| 2019-20 (अ) | 20384759 | 14683835 | 906672 | 561801 | 7.45 | 5.02 | 11.99 | 7.62 |



(प्रा)—प्रावधिक, (त्व)—त्वरित, (अ)—अग्रिम

1. THE STATE'S ECONOMY


Comparative figures of Gross Domestic Product, Net Domestic Product and Per Capita Income for Madhya Pradesh and All India are given in **Statement 1(A)**, **1(B)** and **1(C)**.

Gross State Domestic Product

With an increase of 5.77 percent, gross state domestic product of Madhya Pradesh at constant (2011-12) prices has been estimated at Rs. 522009 crore in 2018-19, as against Rs. 493516 crore in 2017-18, while according to advance estimates for 2019-20 the Gross Domestic Product is likely to attain a level of Rs. 561801 crore with an increase of 7.62 percent. At current prices with an increase of 11.71 percent it has been estimated at Rs. 809592 crore in 2018-19, as against Rs. 724729 crore in 2017-18. For the year 2019-20, showing an increase of 11.99 percent, Gross Domestic Product is estimated at Rs. 906672 crore. At the national level, gross domestic product for all-India during 2019-20 is likely to register a growth of 5.02 percent at constant prices and 7.45 percent at current prices.

Statement 1 (A)
Gross Domestic Product of All India and Madhya Pradesh

| Year | Comparative Figures (₹ Crore) | | | | Percentage Increase Over Previous Year | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | All India | | Madhya Pradesh | | All India | | Madhya Pradesh | |
| | At current prices | At constant prices | At current prices | At constant prices | At current prices | At constant prices | At current prices | At constant prices |
| 2011-12 | 8736329 | 8736329 | 315562 | 315562 | - | - | | |
| 2012-13 | 9944013 | 9213017 | 380925 | 351683 | 13.82 | 5.46 | 20.71 | 11.45 |
| 2013-14 | 11233522 | 9801370 | 439483 | 365134 | 12.97 | 6.39 | 15.37 | 3.82 |
| 2014-15 | 12467959 | 10527674 | 479939 | 383944 | 10.99 | 7.41 | 9.21 | 5.15 |
| 2015-16 | 13771874 | 11369493 | 541068 | 418736 | 10.46 | 8.00 | 12.74 | 9.06 |
| 2016-17 | 15391669 | 12308193 | 649823 | 470669 | 11.76 | 8.26 | 20.10 | 12.40 |
| 2017-18 (P) | 17098304 | 13175160 | 724729 | 493516 | 11.09 | 7.04 | 11.53 | 4.85 |
| 2018-19 (Q) | 18971237 | 13981426 | 809592 | 522009 | 10.95 | 6.12 | 11.71 | 5.77 |
| 2019-20 (A) | 20384759 | 14683835 | 906672 | 561801 | 7.45 | 5.02 | 11.99 | 7.62 |




(P) – Provisional, (Q) - Quick, (A) - Advance

निवल राज्य घरेलू उत्पाद

मध्यप्रदेश में स्थिर (2011-12) भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद 5.59 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2017-18 के रूपये 437442 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 में रूपये 461903 करोड़ आंकलित किया गया है। वर्ष 2019-20 में 7.55 प्रतिशत वृद्धि के साथ रूपये 496798 करोड़ रहने का अनुमान है। प्रचलित भावों पर निवल राज्य घरेलू उत्पाद 12.01 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2017-18 के रूपये 658145 करोड़ की तुलना में वर्ष 2018-19 में रूपये 737156 करोड़ एवं 12.19 प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हुए वर्ष 2019-20 के अग्रिम अनुमान में रूपये 827019 करोड़ आंकलित किया गया है। अखिल भारत के निवल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर स्थिर (2011-11) भावों पर वर्ष 2019-20 में 5.04 प्रतिशत तथा प्रचलित भावों पर 7.40 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सारणी 1 (ब)
अखिल भारत एवं मध्यप्रदेश का निवल घरेलू उत्पाद

| वर्ष | तुलनात्मक आंकड़े (₹ करोड़) | | | | पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि | | | |
|----------------|----------------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | अखिल भारत | | मध्यप्रदेश | | अखिल भारत | | मध्यप्रदेश | |
| | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर |
| 2011-12 | 7819154 | 7819154 | 282371 | 282371 | - | - | | |
| 2012-13 | 8883108 | 8202356 | 333937 | 306853 | 13.61 | 4.90 | 18.26 | 8.67 |
| 2013-14 | 10037547 | 8700760 | 393115 | 322598 | 13.00 | 6.08 | 17.72 | 5.13 |
| 2014-15 | 11125668 | 9349029 | 429027 | 339247 | 10.84 | 7.45 | 9.14 | 5.16 |
| 2015-16 | 12322177 | 10098603 | 486034 | 370716 | 10.75 | 8.02 | 13.29 | 9.28 |
| 2016-17 | 13800337 | 10926667 | 590669 | 419465 | 12.00 | 8.20 | 21.53 | 13.15 |
| 2017-18 (प्रा) | 15334357 | 11686409 | 658145 | 437442 | 11.12 | 6.95 | 11.42 | 4.29 |
| 2018-19 (त्व) | 16991613 | 12372051 | 737156 | 461903 | 10.81 | 5.87 | 12.01 | 5.59 |
| 2019-20 (अ) | 18248783 | 12995082 | 827019 | 496798 | 7.40 | 5.04 | 12.19 | 7.55 |




प्रा)-प्रावधिक, (त्व)-त्वरित, (अ)-अग्रिम

Net State Domestic Product

Net state domestic product of Madhya Pradesh at constant (2011-12) prices has been estimated at Rs 461903 crore in 2018-19 as against Rs 437442 crore in 2017-18 showing an increase of 5.59 percent. It is estimated at Rs. 496798 crore for the year 2019-20 with an increase of 7.55 percent. At current prices, with an increase of 12.01 percent, it has been estimated at Rs. 737156 crore in 2018-19 as against Rs 658145 crore in 2017-18 and in the year 2019-20 advance estimate it is likely to be Rs. 827019 crore with a growth of 12.19 percent. Net domestic product for All-India during 2019-20 is likely to register a growth 5.04 percent at constant prices and 7.40 percent at current prices respectively.

Statement 1 (B)
Net Domestic Product of All India and Madhya Pradesh

| Year | Comparative Figures (₹ Crore) | | | | Percentage Increase Over Previous Year | | | |
|-------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | All India | | Madhya Pradesh | | All India | | Madhya Pradesh | |
| | At current prices | At constant prices | At current prices | At constant prices | At current prices | At constant prices | At current prices | At constant prices |
| 2011-12 | 7819154 | 7819154 | 282371 | 282371 | - | - | | |
| 2012-13 | 8883108 | 8202356 | 333937 | 306853 | 13.61 | 4.90 | 18.26 | 8.67 |
| 2013-14 | 10037547 | 8700760 | 393115 | 322598 | 13.00 | 6.08 | 17.72 | 5.13 |
| 2014-15 | 11125668 | 9349029 | 429027 | 339247 | 10.84 | 7.45 | 9.14 | 5.16 |
| 2015-16 | 12322177 | 10098603 | 486034 | 370716 | 10.75 | 8.02 | 13.29 | 9.28 |
| 2016-17 | 13800337 | 10926667 | 590669 | 419465 | 12.00 | 8.20 | 21.53 | 13.15 |
| 2017-18 (P) | 15334357 | 11686409 | 658145 | 437442 | 11.12 | 6.95 | 11.42 | 4.29 |
| 2018-19 (Q) | 16991613 | 12372051 | 737156 | 461903 | 10.81 | 5.87 | 12.01 | 5.59 |
| 2019-20 (A) | 18248783 | 12995082 | 827019 | 496798 | 7.40 | 5.04 | 12.19 | 7.55 |




(P) – Provisional, (Q) – Quick, (A) – Advance

प्रति व्यक्ति आय

वर्ष 2018-19 के लिए मध्यप्रदेश में प्रति व्यक्ति आय (अर्थात प्रति व्यक्ति निवल घरेलू उत्पाद) स्थिर (2011-12) भावों पर रुपये 56498 आंकलित की गयी है जो गत वर्ष 2017-18 के रुपये 54264 की तुलना में 4.12 प्रतिशत अधिक है। प्रचलित भावों पर प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2017-18 के रुपये 81642 से बढ़कर वर्ष 2018-19 में रुपये 90165 अनुमानित की गयी है, जो कि 10.44 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। अग्रिम अनुमानों के आधार पर वर्ष 2019-20 के लिये प्रति व्यक्ति आय स्थिर/प्रचलित भावों पर क्रमशः रुपये 59929 एवं रुपये 99763 आंकलित की गई है।

सारणी 1 (स)
अखिल भारत एवं मध्यप्रदेश की प्रति व्यक्ति आय

| वर्ष | तुलनात्मक आंकड़े (₹) | | | | पिछले वर्ष से प्रतिशत वृद्धि | | | |
|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|------------------------------|----------------|------------------|----------------|
| | अखिल भारत | | मध्यप्रदेश | | अखिल भारत | | मध्यप्रदेश | |
| | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर | प्रचलित भावों पर | स्थिर भावों पर |
| 2011-12 | 63462 | 63462 | 38497 | 38497 | - | - | | |
| 2012-13 | 70983 | 65538 | 44773 | 41142 | 11.85 | 3.27 | 16.30 | 6.87 |
| 2013-14 | 79118 | 68572 | 51849 | 42548 | 11.46 | 4.63 | 15.80 | 3.42 |
| 2014-15 | 86647 | 72805 | 55678 | 44027 | 9.52 | 6.17 | 7.38 | 3.47 |
| 2015-16 | 94797 | 77659 | 62080 | 47351 | 9.41 | 6.67 | 11.50 | 7.55 |
| 2016-17 | 104880 | 83003 | 74324 | 52782 | 10.64 | 6.88 | 19.72 | 11.47 |
| 2017-18 (प्रा) | 115293 | 87828 | 81642 | 54264 | 9.93 | 5.81 | 9.85 | 2.81 |
| 2018-19 (त्व) | 126521 | 92085 | 90165 | 56498 | 9.74 | 4.85 | 10.44 | 4.12 |
| 2019-20 (अ) | 134432 | 95706 | 99763 | 59929 | 6.25 | 3.93 | 10.64 | 6.07 |




प्रा)-प्रावधिक ,(त्व)-त्वरित, (अ)-अग्रिम

Per Capita Income

With a growth of 4.12 percent in per capita income (i.e. per capita net state domestic product) of Madhya Pradesh at constant (2011-12) prices has been estimated to Rupees 56498 in 2018-19 as against Rupees 54264 of 2017-18. During the year 2018-19 at current prices the per capita is estimated to Rupees 90165 as compared to Rupees 81642 of 2017-18 with a growth of 10.44 percent. According to advance estimates for the year 2019-20 per capita income at constant/current prices would be Rs. 59929 and Rs. 99763 respectively.

Statement 1 (C)
Per Capita Income of All India and Madhya Pradesh

| Year | Comparative Figures (₹) | | | | Percentage Increase Over Previous Year | | | |
|-------------|-------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--|--------------------|-------------------|--------------------|
| | All India | | Madhya Pradesh | | All India | | Madhya Pradesh | |
| | At current prices | At constant prices | At current prices | At constant prices | At current prices | At constant prices | At current prices | At constant prices |
| 2011-12 | 63462 | 63462 | 38497 | 38497 | - | - | | |
| 2012-13 | 70983 | 65538 | 44773 | 41142 | 11.85 | 3.27 | 16.30 | 6.87 |
| 2013-14 | 79118 | 68572 | 51849 | 42548 | 11.46 | 4.63 | 15.80 | 3.42 |
| 2014-15 | 86647 | 72805 | 55678 | 44027 | 9.52 | 6.17 | 7.38 | 3.47 |
| 2015-16 | 94797 | 77659 | 62080 | 47351 | 9.41 | 6.67 | 11.50 | 7.55 |
| 2016-17 | 104880 | 83003 | 74324 | 52782 | 10.64 | 6.88 | 19.72 | 11.47 |
| 2017-18 (P) | 115293 | 87828 | 81642 | 54264 | 9.93 | 5.81 | 9.85 | 2.81 |
| 2018-19 (Q) | 126521 | 92085 | 90165 | 56498 | 9.74 | 4.85 | 10.44 | 4.12 |
| 2019-20 (A) | 134432 | 95706 | 99763 | 59929 | 6.25 | 3.93 | 10.64 | 6.07 |



(P) – Provisional, (Q) - Quick, (A) - Advance

2. राज्यीय आय के अग्रिम अनुमान वर्ष 2019-20

परिचय : राज्यीय आय के अग्रिम अनुमानों का आंकलन साधारणतया बेंचमार्क सूचकांक पद्धति पर आधारित है। वर्ष 2019-20 के अग्रिम अनुमान कृषि एवं औद्योगिक उत्पाद एवं राज्य सरकार के बजट अनुमानों को प्रयुक्त कर एवं मुख्य आर्थिक कार्यकलापों के निष्पादन के आधार पर स्थिर भावों के अनुमान तैयार किये गये हैं। इन अनुमानों को अंतर्निहित मूल्य सूचकांक का उपयोग कर प्रचलित भावों के अनुमान तैयार किये गये हैं।

वर्ष 2019-20 के राज्यीय आय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्थिर (2011-12) भावों पर 7.62 प्रतिशत की वृद्धि के साथ मध्यप्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद रु 561801 करोड़ आंकलित किया गया है। प्रचलित भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद 11.99 प्रतिशत वृद्धि के साथ रूपये 906672 करोड़ अनुमानित है।

वर्ष 2019-20 के दौरान प्रति व्यक्ति आय स्थिर एवं प्रचलित भावों पर (2011-12) क्रमशः रूपये 59929 एवं रूपये 99763 आंकलित की गयी। प्रति व्यक्ति आय में स्थिर एवं प्रचलित भावों पर क्रमशः 6.07 एवं 10.64 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है।

सारणी 2 (अ)

वर्ष 2019-20 के लिये राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान

| मद | प्रचलित भावों पर | | | स्थिर (2011-12) भावों पर | | |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------|
| | 2017-18 (प्रा) | 2018-19 (त्व) | 2019-20 (अ) | 2017-18 (प्रा) | 2018-19 (त्व) | 2019-20 (अ) |
| (अ) सकल घरेलू उत्पाद (रु करोड़) | 724729 (11.53) | 809592 (11.71) | 906672 (11.99) | 493516 (4.85) | 522009 (5.77) | 561801 (7.62) |
| (ब) निवल घरेलू उत्पाद (रु करोड़) | 658145 (11.42) | 737156 (12.01) | 827019 (12.19) | 437442 (4.29) | 461903 (5.59) | 496798 (7.55) |
| (स) प्रति व्यक्ति आय (रु) | 81642 (9.85) | 90165 (10.44) | 99763 (10.64) | 54264 (2.81) | 56498 (4.12) | 59929 (6.07) |

नोट : कोष्टक में दिये गये आंकड़े गत वर्ष से प्रतिशत वृद्धि दर्शाते हैं।

सारणी 2 (ब)

विभिन्न उद्योगों से उत्पन्न बुनियादी मूल्यों पर सकल मूल्य वर्धन के अग्रिम अनुमान 2019-20

| उद्योग समूह | प्रचलित भावों पर (रु करोड़) | | | स्थिर (2011-12) भावों पर (रु करोड़) | | |
|--|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|------------------|----------------|
| | 2017-18 (प्रा) | 2018-19 (त्व) | 2019-20 (अ) | 2017-18 (प्रा) | 2018-19 (त्व) | 2019-20 (अ) |
| 1. फसलें, पशुधन, वानिकी और लट्ठा बनाना, मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 272006 | 300120 | 350324 | 151484 | 151697 | 164504 |
| 2. खनन और उत्खनन | 20721 | 22227 | 23034 | 14680 | 15757 | 15915 |
| 3. विनिर्माण | 62240 | 66899 | 69776 | 55967 | 58060 | 60271 |
| 4. बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 24778 | 25599 | 26668 | 17498 | 18703 | 19622 |
| 5. निर्माण | 54847 | 59711 | 63932 | 40421 | 42255 | 44557 |
| 6. व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह, परिवहन एवं भंडारण, रेलवे, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 111290 | 123636 | 135566 | 81723 | 87860 | 94741 |
| 7. वित्तीय सेवाएं तथा स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 60681 | 67876 | 73080 | 46179 | 48233 | 51027 |
| 8. लोक प्रशासन व अन्य सेवाएं | 73994 | 89999 | 101753 | 51916 | 60038 | 66247 |
| सकल मूल्य वर्धन | 680557 | 756067 | 844134 | 459868 | 482604 | 516885 |

(प्रा)-प्रावधिक, (त्व)-त्वरित, (अ)-अग्रिम

2. ADVANCE ESTIMATES OF STATE INCOME 2019-20

Introduction: The approach for compiling the advance estimates of State Income is broadly based on the bench mark indicators method. The advance estimates at constant prices for the year 2019-20 are based on anticipated level of agricultural and industrial production, analysis of Budget estimates of State Government, expenditure and performance of key sectors of the economy. Estimates at current prices are prepared with the help of Implicit Price Index.

According to advance estimates of State Income the GDP at constant (2011-12) prices is likely to attain a level of Rs. 561801 Crore with a growth of 7.62 percent during the year 2019-20 and at current prices it would rise up to Rs. 906672 Crore. The increase over previous year is 11.99 percent.

The per capita income during 2019-20 is estimated to be Rs. 59929 at constant (2011-12) prices with a growth of 6.07 percent over previous year and Rs. 99763 at current prices showing an increase of 10.64 percent.

Statement 2 (A)
Advance Estimates of State Income for the year 2019-20

| Item | At Current prices | | | At Constant (2011-12) prices | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| | 2017-18 (P) | 2018-19 (Q) | 2019-20 (A) | 2017-18 (P) | 2018-19 (Q) | 2019-20 (A) |
| (A) Gross domestic Product (₹ Crore) | 724729 (11.53) | 809592 (11.71) | 906672 (11.99) | 493516 (4.85) | 522009 (5.77) | 561801 (7.62) |
| (B) Net domestic product (₹Crore) | 658145 (11.42) | 737156 (12.01) | 827019 (12.19) | 437442 (4.29) | 461903 (5.59) | 496798 (7.55) |
| (C) Per capita income (₹) | 81642 (9.85) | 90165 (10.44) | 99763 (10.64) | 54264 (2.81) | 56498 (4.12) | 59929 (6.07) |

Note: The figures in parenthesis show the percentage growth over previous year

Statement 2 (B)
Advance Estimates of GVA for the year 2019-20 at basic prices by Economic Activity

| Industry group | At Current prices (₹ Crore) | | | At Constant(2011-12) prices (₹Crore) | | |
|--|-----------------------------|----------------|----------------|--------------------------------------|----------------|----------------|
| | 2017-18 (P) | 2018-19 (Q) | 2019-20 (A) | 2017-18 (P) | 2018-19 (Q) | 2019-20 (A) |
| 1. Crops, Livestock, Forestry and logging, Fishing and aquaculture | 272006 | 300120 | 350324 | 151484 | 151697 | 164504 |
| 2. Mining and quarrying | 20721 | 22227 | 23034 | 14680 | 15757 | 15915 |
| 3. Manufacturing | 62240 | 66899 | 69776 | 55967 | 58060 | 60271 |
| 4. Electricity, gas, water supply & other utility services | 24778 | 25599 | 26668 | 17498 | 18703 | 19622 |
| 5. Construction | 54847 | 59711 | 63932 | 40421 | 42255 | 44557 |
| 6. Trade, repair, hotels and restaurants, Transport by other means and Storage, Railways, Communication & services related to broadcasting | 111290 | 123636 | 135566 | 81723 | 87860 | 94741 |
| 7. Financial services and Real estate, ownership of dwelling & professional services | 60681 | 67876 | 73080 | 46179 | 48233 | 51027 |
| 8. Public administration and Other services | 73994 | 89999 | 101753 | 51916 | 60038 | 66247 |
| Gross Value Added | 680557 | 756067 | 844134 | 459868 | 482604 | 516885 |

(P) – Provisional, (Q) - Quick, (A) - Advance

3. औसत वार्षिक वृद्धि दर

शुद्ध/सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में गत वर्ष की तुलना में प्रति वर्ष हुई वृद्धि/कमी तथा ऐसी वृद्धि/कमी के विभिन्न अवधियों के औसत सारणी 3(अ) से सारणी 3(द) में दर्शाये गये हैं। शुद्ध/सकल राज्य घरेलू उत्पाद में स्थिर भावों पर हुई वृद्धि अथवा कमी अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन को दर्शाती है।

वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 के दौरान स्थिर (2011-12) भावों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में क्रमशः 5.77 एवं 7.62 प्रतिशत की वृद्धि तथा निवल राज्य घरेलू उत्पाद में क्रमशः 5.59 एवं 7.55 प्रतिशत की वृद्धि अंकित हुई।

स्थिर (2011-12) भावों पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद में वर्ष 2018-19 के दौरान 4.12 प्रतिशत एवं वर्ष 2019-20 में 6.07 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है।

सारणी 3(अ) सकल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर *[स्थिर (2011-12) भावों पर]
Statement 3(A) Average Annual Growth Rates* in G.S.D.P [At Constant (2011-12) Prices]

| अंतिम वर्ष Terminal Year | प्रारंभिक वर्ष Initial Year | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) |
| 2012-13 | 11.45 | | | | | | | |
| 2013-14 | 7.64 | 3.82 | | | | | | |
| 2014-15 | 6.81 | 4.49 | 5.15 | | | | | |
| 2015-16 | 7.37 | 6.01 | 7.11 | 9.06 | | | | |
| 2016-17 | 8.38 | 7.61 | 8.87 | 10.73 | 12.40 | | | |
| 2017-18 (प्रा P) | 7.79 | 7.06 | 7.87 | 8.77 | 8.63 | 4.85 | | |
| 2018-19 (त्व Q) | 7.50 | 6.84 | 7.45 | 8.02 | 7.68 | 5.31 | 5.77 | |
| 2019-20 (अ A) | 7.52 | 6.96 | 7.48 | 7.94 | 7.66 | 6.08 | 6.70 | 7.62 |

सारणी 3(ब) निवल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर *[स्थिर (2011-12) भावों पर]
Statement 3(B) Average Annual Growth Rates* in N.S.D.P [At Constant (2011-12) Prices]

| अंतिम वर्ष Terminal Year | प्रारंभिक वर्ष Initial Year | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) |
| 2012-13 | 8.67 | | | | | | | |
| 2013-14 | 6.90 | 5.13 | | | | | | |
| 2014-15 | 6.32 | 5.15 | 5.16 | | | | | |
| 2015-16 | 7.06 | 6.52 | 7.22 | 9.28 | | | | |
| 2016-17 | 8.28 | 8.18 | 9.20 | 11.21 | 13.15 | | | |
| 2017-18 (प्रा P) | 7.61 | 7.40 | 7.97 | 8.90 | 8.72 | 4.29 | | |
| 2018-19 (त्व Q) | 7.32 | 7.10 | 7.49 | 8.08 | 7.68 | 4.94 | 5.59 | |
| 2019-20 (अ A) | 7.35 | 7.16 | 7.50 | 7.97 | 7.65 | 5.81 | 6.57 | 7.55 |

*वार्षिक वृद्धि दर का सामान्य औसत *Simple average of annual growth rates
(प्रा)—प्रावधिक, (त्व)—त्वरित, (अ)—अग्रिम (P) – Provisional, (Q) - Quick, (A) - Advance

3. AVERAGE ANNUAL GROWTH RATE

Increase/decrease in GSDP/NSDP and Per Capita during each year and simple average of such change for different periods are shown in the **Statement 3(A)** to **Statement 3(D)**. Increase or decrease in gross/net state domestic product at constant prices indicates the change in economy.

The growth of 5.77 and 7.62 percent in gross state domestic product has been recorded in the year 2018-19 and 2019-20 respectively at constant (2011-12) prices. During the same period net state domestic product at constant prices would grow by 5.59 and 7.55 percent.

At constant (2011-12) prices the growth of 4.12 percent has been recorded in per capita net state domestic product during the year 2018-19 and it would grow by 6.07 percent during 2019-20.

सारणी 3(स) प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर * [स्थिर (2011-12) भावों पर]
Statement 3(C) Average Annual Growth Rates* in Per Capita N.S.D.P [At Constant (2011-12) Prices]

| अंतिम वर्ष Terminal Year | प्रारंभिक वर्ष Initial Year | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) |
| 2012-13 | 6.87 | | | | | | | |
| 2013-14 | 5.14 | 3.42 | | | | | | |
| 2014-15 | 4.59 | 3.45 | 3.47 | | | | | |
| 2015-16 | 5.33 | 4.81 | 5.51 | 7.55 | | | | |
| 2016-17 | 6.56 | 6.48 | 7.50 | 9.51 | 11.47 | | | |
| 2017-18 (प्रा P) | 5.93 | 5.74 | 6.33 | 7.28 | 7.14 | 2.81 | | |
| 2018-19 (त्व Q) | 5.67 | 5.47 | 5.88 | 6.49 | 6.13 | 3.46 | 4.12 | |
| 2019-20 (अ A) | 5.72 | 5.56 | 5.92 | 6.40 | 6.12 | 4.33 | 5.09 | 6.07 |

सारणी 3(द) प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद की औसत वार्षिक वृद्धि दर * [प्रचलित भावों पर]
Statement 3(D) Average Annual Growth Rates* in Per Capita N.S.D.P [At Current Prices]

| अंतिम वर्ष Terminal Year | प्रारंभिक वर्ष Initial Year | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------------------|--------------------|
| | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) |
| 2012-13 | 16.30 | | | | | | | |
| 2013-14 | 16.05 | 15.80 | | | | | | |
| 2014-15 | 13.16 | 11.59 | 7.38 | | | | | |
| 2015-16 | 12.75 | 11.56 | 9.44 | 11.50 | | | | |
| 2016-17 | 14.14 | 13.60 | 12.87 | 15.61 | 19.72 | | | |
| 2017-18 (प्रा P) | 13.43 | 12.85 | 12.11 | 13.69 | 14.78 | 9.85 | | |
| 2018-19 (त्व Q) | 13.00 | 12.45 | 11.78 | 12.88 | 13.34 | 10.14 | 10.44 | |
| 2019-20 (अ A) | 12.71 | 12.19 | 11.59 | 12.43 | 12.66 | 10.31 | 10.54 | 10.64 |

*वार्षिक वृद्धि दर का सामान्य औसत *Simple average of annual growth rates
(प्रा)—प्रावधिक, (त्व)—त्वरित, (अ)—अग्रिम (P) – Provisional, (Q) - Quick, (A) - Advance

4. सकल राज्य मूल्य वर्धन— वृहत् क्षेत्रवार निष्पादन

सकल राज्य मूल्य वर्धन का वृहत् क्षेत्रवार निष्पादन सारणी 4 में दर्शाया गया है। सकल मूल्य वर्धन में प्राथमिक क्षेत्र एवं तृतीयक क्षेत्र का अंश आधार वर्ष में क्रमशः 33.85 एवं 39.06 प्रतिशत था जो बढ़कर स्थिर (2011-12) भावों पर वर्ष 2019-20 में 34.90 एवं 41.03 प्रतिशत अनुमानित है, जबकि द्वितीयक क्षेत्र का अंश आधार वर्ष में 27.09 प्रतिशत था जो घटकर वर्ष 2019-20 में 24.07 प्रतिशत होने का अनुमान है।

स्थिर (2011-12) भावों पर वर्ष 2018-19 के त्वरित अनुमान की तुलना में वर्ष 2019-20 में प्राथमिक क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में 7.74 प्रतिशत की वृद्धि एवं द्वितीयक क्षेत्र तथा तृतीयक क्षेत्रों में क्रमशः 4.56 प्रतिशत एवं 8.10 प्रतिशत की वृद्धि होने की संभावना है।


सकल मूल्य वर्धन में आधार वर्ष की तुलना में वर्ष 2019-20 में प्रचलित भावों पर 177.96 प्रतिशत तथा स्थिर भावों पर 70.20 प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है जबकि गत वर्ष की तुलना में प्रचलित भावों पर 11.65 प्रतिशत एवं स्थिर भावों पर 7.10 प्रतिशत वृद्धि की संभावना है।

सारणी 4
वृहत् क्षेत्रवार सकल राज्य मूल्य वर्धन


| क्षेत्रवार निष्पादन | आधार वर्ष 2011-12 | प्रचलित भावों पर (₹करोड़) | | | स्थिर (2011-12) भावों पर (₹करोड़) | | |
|---------------------------|-------------------|---------------------------|---------------|-------------|-----------------------------------|---------------|-------------|
| | | 2017-18 (प्रा) | 2018-19 (त्व) | 2019-20 (अ) | 2017-18 (प्रा) | 2018-19 (त्व) | 2019-20 (अ) |
| प्राथमिक क्षेत्र | 102784 | 292726 | 322347 | 373358 | 166164 | 167454 | 180420 |
| प्रतिशत : अंश | 33.85 | 43.01 | 42.63 | 44.23 | 36.13 | 34.70 | 34.90 |
| : वृद्धि | | 12.09 | 10.12 | 15.83 | 1.01 | 0.78 | 7.74 |
| द्वितीयक क्षेत्र | 82272 | 141866 | 152209 | 160377 | 113886 | 119018 | 124450 |
| प्रतिशत : अंश | 27.09 | 20.85 | 20.14 | 19.00 | 24.77 | 24.66 | 24.07 |
| : वृद्धि | | 12.22 | 7.29 | 5.37 | 7.71 | 4.51 | 4.56 |
| तृतीयक क्षेत्र | 118632 | 245965 | 281511 | 310399 | 179817 | 196131 | 212015 |
| प्रतिशत : अंश | 39.06 | 36.14 | 37.23 | 36.77 | 39.10 | 40.64 | 41.03 |
| : वृद्धि | | 11.78 | 14.45 | 10.26 | 7.53 | 9.07 | 8.10 |
| स.रा.मू.व. प्रतिशत वृद्धि | 303689 | 680557 | 756067 | 844134 | 459868 | 482604 | 516885 |
| | | 12.00 | 11.10 | 11.65 | 5.12 | 4.94 | 7.10 |

(प्रा)—प्रावधिक, (त्व)—त्वरित, (अ)—अग्रिम


सकल राज्य मूल्यवर्धन का वृहत् क्षेत्रवार प्रतिशत वितरण



2011-12 (आधार वर्ष)



2019-20 (प्रचलित भावों पर)



2019-20 (स्थिर 2011-12 भावों पर)

▨▨▨▨ प्राथमिक क्षेत्र

▨▨▨▨ द्वितीयक क्षेत्र

▨▨▨▨ तृतीयक क्षेत्र

प्राथमिक क्षेत्र में फसलें, पशुधन, वानिकी और लट्टा बनाना, मत्स्यन एवं जलीय कृषि व खनन और उत्खनन क्षेत्र सम्मिलित है।
द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण, बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं व निर्माण क्षेत्र सम्मिलित है।
तृतीयक क्षेत्र में व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह, परिवहन एवं भंडारण, रेलवे, संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं, वित्तीय सेवाएं, स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं, लोक प्रशासन व अन्य सेवाएं सम्मिलित है।

4. GROSS STATE VALUE ADDED - BROAD SECTOR WISE PERFORMANCE

Broad sector wise performance of Gross state value added is shown in the **Statement 4**. In Base year the share of primary and tertiary sector in GVA were 33.85 and 39.06 percent, which would increase at constant (2011-12) prices up to 34.90 and 41.03 percent in 2019-20, whereas the share of secondary sector are likely to reduce from 27.09 percent of base year to 24.07 percent respectively in the year 2019 -20.

In comparison to Quick Estimates of 2018-19 at constant (2011-12) prices GVA of primary sector would grow by 7.74 percent and secondary and tertiary sector are to grown by 4.56 and 8.10 percent during the year 2019-20.


In the year 2019-20 gross domestic product would increase by 177.96 percent at current prices and at constant (2011-12) prices it would rise up to 70.20 percent in comparison to base year, whereas in comparison to previous year the gross value added is to grown by 11.65 percent at current prices and 7.10 percent at constant prices.

Statement 4
Broad Sector-wise Gross State Value Added

| Sector Wise Performance | Base Year 2011-12 | At current Prices (₹ Crore) | | | At constant (2011-12) Prices (₹ Crore) | | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------------|-------------|-------------|--|-------------|-------------|
| | | 2017-18 (P) | 2018-19 (Q) | 2019-20 (A) | 2017-18 (P) | 2018-19 (Q) | 2019-20 (A) |
| Primary Sector | 102784 | 292726 | 322347 | 373358 | 166164 | 167454 | 180420 |
| Percentage: Share | 33.85 | 43.01 | 42.63 | 44.23 | 36.13 | 34.70 | 34.90 |
| : Growth | | 12.09 | 10.12 | 15.83 | 1.01 | 0.78 | 7.74 |
| Secondary Sector | 82272 | 141866 | 152209 | 160377 | 113886 | 119018 | 124450 |
| Percentage: Share | 27.09 | 20.85 | 20.14 | 19.00 | 24.77 | 24.66 | 24.07 |
| : Growth | | 12.22 | 7.29 | 5.37 | 7.71 | 4.51 | 4.56 |
| Tertiary Sector | 118632 | 245965 | 281511 | 310399 | 179817 | 196131 | 212015 |
| Percentage: Share | 39.06 | 36.14 | 37.23 | 36.77 | 39.10 | 40.64 | 41.03 |
| : Growth | | 11.78 | 14.45 | 10.26 | 7.53 | 9.07 | 8.10 |
| G.S.V.A. | 303689 | 680557 | 756067 | 844134 | 459868 | 482604 | 516885 |
| Percentage: Growth | | 12.00 | 11.10 | 11.65 | 5.12 | 4.94 | 7.10 |

(P) – Provisional, (Q) - Quick, (A) – Advance

Broad Sector-wise Percentage Distribution of G.S.V.A.



Primary Sector includes Crops, Livestock, Forestry and logging, Fishing and aquaculture and Mining & quarrying. **Secondary Sector** includes Manufacturing, Electricity, gas, water supply & other utility services and Construction. **Tertiary Sector** includes Trade, repair, hotels and restaurants, Transport by other means and Storage, Railways, Communication & services related to broadcasting, Financial services, Real estate, ownership of dwelling & professional services, Public administration and Other services.


5. फसल क्षेत्र का निष्पादन

फसल क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य एवं प्रमुख फसलों का उत्पादन निम्नांकित सारणी 5 में दिया जा रहा है। फसल क्षेत्र के निष्पादन में वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की तुलना में स्थिर (2011-12) भावों पर फसल उत्पाद के मूल्य में (-)0.80 प्रतिशत की कमी हुई है।

प्रमुख फसलों के अन्तर्गत वर्ष 2018-19 के दौरान धान, गेहूँ, मूंगफली, सरसों एवं सोयाबीन के उत्पादन में क्रमशः 7.85, 26.25, 18.05, 6.66 एवं 9.17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जबकि ज्वार, बाजरा, मक्का, चना, तुअर, उड़द एवं मसूर के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में क्रमशः 75.04, 16.82, 14.13, 25.78, 78.55, 33.80 एवं 51.55 प्रतिशत की कमी दर्ज हुई है।

सारणी 5
फसल क्षेत्र का निष्पादन स्थिर (2011-12) भावों पर

| मद | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| फसलों का उत्पादन मूल्य (करोड़ रुपये में) | 92204 | 115028 | 113896 | 119165 | 117331 | 149574 | 147754 | 146569 |
| प्रमुख फसलों का उत्पादन (लाख टन में) | | | | | | | | |
| धान | 34.20 | 45.33 | 53.61 | 54.38 | 53.20 | 82.01 | 73.49 | 79.26 |
| गेहूँ | 145.44 | 165.18 | 174.78 | 184.80 | 184.10 | 219.18 | 200.20 | 252.76 |
| ज्वार | 5.47 | 6.01 | 3.71 | 3.77 | 4.00 | 4.40 | 6.53 | 1.63 |
| बाजरा | 3.91 | 3.91 | 3.80 | 4.45 | 6.18 | 7.77 | 7.55 | 6.28 |
| मक्का | 13.25 | 23.89 | 20.24 | 25.31 | 31.40 | 43.76 | 48.13 | 41.33 |
| चना | 28.45 | 33.21 | 26.72 | 29.64 | 33.64 | 45.46 | 53.85 | 39.97 |
| तुअर | 3.38 | 3.19 | 4.64 | 5.11 | 6.40 | 8.73 | 8.39 | 1.80 |
| उड़द | 1.63 | 2.56 | 2.19 | 4.28 | 5.19 | 11.09 | 17.93 | 11.87 |
| मसूर | 2.16 | 2.97 | 3.38 | 3.77 | 6.15 | 6.53 | 6.79 | 3.29 |
| मूंगफली | 3.74 | 3.58 | 3.12 | 3.70 | 2.66 | 3.78 | 3.49 | 4.12 |
| राई/सरसों | 7.90 | 9.62 | 10.55 | 6.70 | 6.66 | 9.20 | 9.76 | 10.41 |
| सोयाबीन | 64.97 | 84.16 | 55.17 | 63.53 | 44.48 | 66.49 | 53.21 | 58.09 |



(प्रा)—प्रावधिक, (त्व)—त्वरित


5. PERFORMANCE OF CROP SECTOR

Value of crops output and production of major crops are given in the following **Statement 5**. In the year 2018-19 the value of crops product at constant (2011-12) prices have decrease by (-)0.80 percent respectively in comparasion to previous year.

Under the major crops mainly production of Paddy, Wheat, Groundnut, Rape & musterd and Soyabeen show an increased of 7.85, 26.25, 18.05, 6.66 and 9.17 percent respectively. While production of Jowar, Bajara, Maize, Gram, Arher, Urad and Masur are reduced by 75.04, 16.82, 14.13, 25.78, 78.55, 33.80 and 51.55 percent during the year 2018-19.

Statement 5
Performance of Crops Sector At Constant (2011-12) Prices

| Items | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Value of Crops output (Rs in Crore) | 92204 | 115028 | 113896 | 119165 | 117331 | 149574 | 147754 | 146569 |
| Production of major crops (In Lakh Tonnes) | | | | | | | | |
| Paddy | 34.20 | 45.33 | 53.61 | 54.38 | 53.20 | 82.01 | 73.49 | 79.26 |
| Wheat | 145.44 | 165.18 | 174.78 | 184.80 | 184.10 | 219.18 | 200.20 | 252.76 |
| Jowar | 5.47 | 6.01 | 3.71 | 3.77 | 4.00 | 4.40 | 6.53 | 1.63 |
| Bajara | 3.91 | 3.91 | 3.80 | 4.45 | 6.18 | 7.77 | 7.55 | 6.28 |
| Maize | 13.25 | 23.89 | 20.24 | 25.31 | 31.40 | 43.76 | 48.13 | 41.33 |
| Gram | 28.45 | 33.21 | 26.72 | 29.64 | 33.64 | 45.46 | 53.85 | 39.97 |
| Arher | 3.38 | 3.19 | 4.64 | 5.11 | 6.40 | 8.73 | 8.39 | 1.80 |
| Urad | 1.63 | 2.56 | 2.19 | 4.28 | 5.19 | 11.09 | 17.93 | 11.87 |
| Masur | 2.16 | 2.97 | 3.38 | 3.77 | 6.15 | 6.53 | 6.79 | 3.29 |
| Groundnut | 3.74 | 3.58 | 3.12 | 3.70 | 2.66 | 3.78 | 3.49 | 4.12 |
| Rape /musterd seeds | 7.90 | 9.62 | 10.55 | 6.70 | 6.66 | 9.20 | 9.76 | 10.41 |
| Soyabeen | 64.97 | 84.16 | 55.17 | 63.53 | 44.48 | 66.49 | 53.21 | 58.09 |



(P) – Provisional, (Q) - Quick

6. प्रमुख खनिजों का उत्पादन

प्रमुख खनिजों के उत्पादन के आंकड़े निम्नांकित सारणी 6 में दिये जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 में गत वर्ष की तुलना में कोयला, मैंगनिज अयस्क, बॉक्साइट, लौह अयस्क, ताम्र अयस्क तथा चूना पत्थर के उत्पादन में क्रमशः 5.83, 12.78, 21.92, 1.79, 8.68 तथा 15.56 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, जबकि हीरा के उत्पादन में 3.18 प्रतिशत की कमी हुई है।

सारणी 6
प्रमुख खनिजों का उत्पादन

| प्रमुख खनिज | इकाई | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| कोयला | '000 मे.टन | 71123 | 75948 | 75590 | 87600 | 107714 | 105013 | 112127 | 118661 |
| मैंगनिज अयस्क | '000 मे.टन | 608 | 715 | 796 | 878 | 767 | 650 | 837 | 944 |
| बॉक्साइट | '000 मे.टन | 813 | 1017 | 776 | 832 | 684 | 676 | 593 | 723 |
| लौह अयस्क | '000 मे.टन | 1237 | 1225 | 2090 | 4193 | 2447 | 1772 | 2743 | 2792 |
| ताम्र अयस्क | '000 मे.टन | 2083 | 2254 | 2376 | 2379 | 2537 | 2415 | 2339 | 2542 |
| चूना पत्थर | '000 मे.टन | 34072 | 35536 | 37832 | 39530 | 39430 | 36164 | 43060 | 49762 |
| हीरा | कैरेट | 18490 | 31988 | 37517 | 36107 | 36044 | 36491 | 39699 | 38437 |

स्रोत: महा नियन्त्रक, भारतीय खान ब्यूरो।

7. मूल्य सूचकांक

निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्निहित मूल्य सूचकांक, अखिल भारत के थोक भाव सूचकांक एवं मध्यप्रदेश के लिये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सारणी 7 में दिये जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्निहित मूल्य सूचकांक में 6.08 प्रतिशत की वृद्धि हुई है एवं अखिल भारत थोक भाव सूचकांक में 4.26 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सारणी 7
मूल्य सूचकांक (2011-12=100)

| वर्ष | निवल राज्य घरेलू उत्पाद के अंतर्निहित मूल्य सूचकांक | अखिल भारत थोक भाव सूचकांक | उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सामान्य सूचकांक (सभी समूह) |
|----------------|---|---------------------------|---|
| 2011-12 | 100.00 | 100.0 | 100.00 |
| 2012-13 | 108.83 | 106.9 | 109.84 |
| 2013-14 | 121.86 | 112.5 | 120.53 |
| 2014-15 | 126.46 | 113.9 | 127.04 |
| 2015-16 | 131.11 | 109.7 | 132.58 |
| 2016-17 | 140.81 | 111.6 | 137.27 |
| 2017-18 (प्रा) | 150.45 | 114.9 | 141.02 |
| 2018-19 (त्व) | 159.59 | 119.8 | 145.96 |

(प्रा)—प्रावधिक, (त्व)—त्वरित

6. PRODUCTION OF MAJOR MINERALS

Statement 6 Below gives production of major minerals. In comparison to previous year the growth of 5.83%, 12.78%, 21.92%, 1.79%, 8.68% and 15.56% is observed in the year 2018-19 respectively in Coal, Manganese Ore, Bauxite, Iron Ore, Copper Ore and Limestone while production of Diamond has reduced by 3.18% respectively.

Statement 6
Production of Major Minerals

| Major Minrals | Unit | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 |
|---------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Coal | '000 M.T. | 71123 | 75948 | 75590 | 87600 | 107714 | 105013 | 112127 | 118661 |
| Manganese Ore | '000 M.T. | 608 | 715 | 796 | 878 | 767 | 650 | 837 | 944 |
| Bauxite | '000 M.T. | 813 | 1017 | 776 | 832 | 684 | 676 | 593 | 723 |
| Iron Ore | '000 M.T. | 1237 | 1225 | 2090 | 4193 | 2447 | 1772 | 2743 | 2792 |
| Copper Ore | '000 M. T. | 2083 | 2254 | 2376 | 2379 | 2537 | 2415 | 2339 | 2542 |
| Limestone | '000 M. T. | 34072 | 35536 | 37832 | 39530 | 39430 | 36164 | 43060 | 49762 |
| Diamond | Carat | 18490 | 31988 | 37517 | 36107 | 36044 | 36491 | 39699 | 38437 |

Source: Controller General, Indian Bureau of Mines.

7. PRICE INDICES

Implicit price index of net state domestic product, all India wholesale price index and state-level consumer price index are given in the following **Statement 7**. During the year 2018-19, the growth has increased by 6.08 percent in implicit price index of Net State Domestic Product and increased by 4.26 percent in All India Wholesale price index.

Statement 7
Price Indices (2011-12=100)

| Year | Implicit Price Index Net State Domestic Product | Wholesale Price Index All India | Consumer Prices Index General Index (All Groups) |
|-------------|---|---------------------------------------|--|
| 2011-12 | 100.00 | 100.0 | 100.00 |
| 2012-13 | 108.83 | 106.9 | 109.84 |
| 2013-14 | 121.86 | 112.5 | 120.53 |
| 2014-15 | 126.46 | 113.9 | 127.04 |
| 2015-16 | 131.11 | 109.7 | 132.58 |
| 2016-17 | 140.81 | 111.6 | 137.27 |
| 2017-18 (P) | 150.45 | 114.9 | 141.02 |
| 2018-19 (Q) | 159.59 | 119.8 | 145.96 |

(P) – Provisional, (Q) - Quick

8. वृद्धि दर

स्थिर भावों पर राज्य घरेलू उत्पाद एवं प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर अर्थव्यवस्था के वास्तविक विकास को दर्शाती है । नीतिगत परिवर्तनों का राज्य की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को दर्शाने के लिये श्रृंखला (आधार वर्ष 2011-12) में उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर वृद्धि दरों को निम्नांकित सारणी 8 में दिया गया है । स्थिर (2011-12) भावों पर वर्ष 2019-20 की अवधि के दौरान राज्य के सकल घरेलू उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय में 7.62 व 6.07 प्रतिशत की वृद्धि रही ।

सारणी 8 वृद्धि दरें

(मध्यप्रदेश)

| मद | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 (प्रा) | 18-19 (त्व) | 19-20 (अ) |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-----------------|----------------|--------------|
| 1. सकल राज्य घरेलू उत्पाद | | | | | | | | |
| 1.1 प्रचलित भावों पर | 20.71 | 15.37 | 9.21 | 12.74 | 20.10 | 11.53 | 11.71 | 11.99 |
| 1.2 स्थिर (2011-12) भावों पर | 11.45 | 3.82 | 5.15 | 9.06 | 12.40 | 4.85 | 5.77 | 7.62 |
| 2. निवल राज्य घरेलू उत्पाद | | | | | | | | |
| 2.1 प्रचलित भावों पर | 18.26 | 17.72 | 9.14 | 13.29 | 21.53 | 11.42 | 12.01 | 12.19 |
| 2.2 स्थिर (2011-12) भावों पर | 8.67 | 5.13 | 5.16 | 9.28 | 13.15 | 4.29 | 5.59 | 7.55 |
| 3. प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद | | | | | | | | |
| 3.1 प्रचलित भावों पर | 16.30 | 15.80 | 7.38 | 11.50 | 19.72 | 9.85 | 10.44 | 10.64 |
| 3.2 स्थिर (2011-12) भावों पर | 6.87 | 3.42 | 3.47 | 7.55 | 11.47 | 2.81 | 4.12 | 6.07 |

(प्रा)—प्रावधिक, (त्व)—त्वरित, (अ)—अग्रिम

8. GROWTH RATE

The growth rates of state domestic product and per capita income at constant prices reflects development of economy in real terms. On the basis of available data in the series (base year 2011-12) the impact of change in policies on the State's economy as seen in growth rates is given in **Statement 8**. During the period 2019-20, the growth of 7.62 % and 6.07 % is observed respectively in Gross Domestic Product and Per Capita Income in the State at constant (2011-12) prices.

Statement 8
Growth Rates

(Madhya Pradesh)

| Item | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 (P) | 18-19 (Q) | 19-20 (A) |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|--------------|--------------|
| 1. Gross State Domestic Product | | | | | | | | |
| 1.1 At current prices | 20.71 | 15.37 | 9.21 | 12.74 | 20.10 | 11.53 | 11.71 | 11.99 |
| 1.2 At constant (2011-12) prices | 11.45 | 3.82 | 5.15 | 9.06 | 12.40 | 4.85 | 5.77 | 7.62 |
| 2. Net State Domestic Product | | | | | | | | |
| 2.1 At current prices | 18.26 | 17.72 | 9.14 | 13.29 | 21.53 | 11.42 | 12.01 | 12.19 |
| 2.2 At constant (2011-12) prices | 8.67 | 5.13 | 5.16 | 9.28 | 13.15 | 4.29 | 5.59 | 7.55 |
| 3. Per Capita Net State Domestic Product | | | | | | | | |
| 3.1 At current prices | 16.30 | 15.80 | 7.38 | 11.50 | 19.72 | 9.85 | 10.44 | 10.64 |
| 3.2 At constant (2011-12) prices | 6.87 | 3.42 | 3.47 | 7.55 | 11.47 | 2.81 | 4.12 | 6.07 |

(P) – Provisional, (Q) - Quick, (A) - Advance

Blank

भाग 2 तालिकाएँ
Part 2 Tables

विवरण 2.1

Statement 2.1

मध्यप्रदेश राज्य घरेलू उत्पाद – एक दृष्टि में
MADHYA PRADESH STATE DOMESTIC PRODUCT - AT A GLANCE

प्रचलित भावों पर

AT CURRENT PRICES

| वर्ष Year | सकल राज्य घरेलू उत्पाद G.S.D.P. | | निवल राज्य घरेलू उत्पाद N.S.D.P. | | प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद PER CAPITA N.S.D.P. | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | राशि (₹ करोड़) Amount (₹ Crore) | सूचकांक Index (2011-12 =100) | राशि (₹ करोड़) Amount (₹ Crore) | सूचकांक Index (2011-12 =100) | राशि (₹) Amount (₹) | सूचकांक Index (2011-12 =100) |
| 2011-12 | 315562 | 100.00 | 282371 | 100.00 | 38497 | 100.00 |
| 2012-13 | 380925 | 120.71 | 333937 | 118.26 | 44773 | 116.30 |
| 2013-14 | 439483 | 139.27 | 393115 | 139.22 | 51849 | 134.68 |
| 2014-15 | 479939 | 152.09 | 429027 | 151.94 | 55678 | 144.63 |
| 2015-16 | 541068 | 171.46 | 486034 | 172.13 | 62080 | 161.26 |
| 2016-17 | 649823 | 205.93 | 590669 | 209.18 | 74324 | 193.06 |
| 2017-18 (प्राP) | 724729 | 229.66 | 658145 | 233.08 | 81642 | 212.07 |
| 2018-19 (त्वQ) | 809592 | 256.56 | 737156 | 261.06 | 90165 | 234.21 |
| 2019-20 (अA) | 906672 | 287.32 | 827019 | 292.88 | 99763 | 259.14 |

(प्रा) = प्रावधिक, (त्व) = त्वरित, (अ) = अग्रिम

(P) = Provisional, (Q) = Quick, (A) = Advance

विवरण 2.2

Statement 2.2

मध्यप्रदेश राज्य घरेलू उत्पाद – एक दृष्टि में
MADHYA PRADESH STATE DOMESTIC PRODUCT - AT A GLANCE

स्थिर(2011-12) भावों पर

AT CONSTANT(2011-12) PRICES

| वर्ष Year | सकल राज्य घरेलू उत्पाद G.S.D.P. | | निवल राज्य घरेलू उत्पाद N.S.D.P. | | प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद PER CAPITA N.S.D.P. | |
|-----------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---|---------------------------------------|
| | राशि (₹ करोड़) Amount (₹ Crore) | सूचकांक Index (2011-12 =100) | राशि (₹ करोड़) Amount (₹ Crore) | सूचकांक Index (2011-12 =100) | राशि (₹) Amount (₹) | सूचकांक Index (2011-12 =100) |
| 2011-12 | 315562 | 100.00 | 282371 | 100.00 | 38497 | 100.00 |
| 2012-13 | 351683 | 111.45 | 306853 | 108.67 | 41142 | 106.87 |
| 2013-14 | 365134 | 115.71 | 322598 | 114.25 | 42548 | 110.52 |
| 2014-15 | 383944 | 121.67 | 339247 | 120.14 | 44027 | 114.36 |
| 2015-16 | 418736 | 132.70 | 370716 | 131.29 | 47351 | 123.00 |
| 2016-17 | 470669 | 149.15 | 419465 | 148.55 | 52782 | 137.10 |
| 2017-18 (प्राP) | 493516 | 156.39 | 437442 | 154.92 | 54264 | 140.95 |
| 2018-19 (त्वQ) | 522009 | 165.42 | 461903 | 163.58 | 56498 | 146.76 |
| 2019-20 (अA) | 561801 | 178.03 | 496798 | 175.94 | 59929 | 155.67 |

(प्रा) = प्रावधिक, (त्व) = त्वरित, (अ) = अग्रिम

(P) = Provisional, (Q) = Quick, (A) = Advance

विवरण 2.3

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन
(प्रचलित भावों पर)

(₹ लाखें)

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | फसलें | 7333369 | 10540450 | 12457846 | 13094566 | 13477296 |
| 2 | पशुधन | 897640 | 1129978 | 1363179 | 1936439 | 2734888 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 811315 | 892627 | 939534 | 1354519 | 1446152 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 64907 | 77207 | 95396 | 121277 | 139136 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 1171195 | 1260187 | 1548066 | 1438932 | 1614060 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 10278426 | 13900449 | 16404021 | 17945733 | 19411532 |
| 6 | विनिर्माण | 3828625 | 4171724 | 4018450 | 4233489 | 5191200 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 903127 | 1011624 | 1234439 | 1569957 | 2152703 |
| 8 | निर्माण | 3495447 | 3499404 | 4080463 | 4217923 | 4372493 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | 8227199 | 8682752 | 9333352 | 10021369 | 11716396 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 3378935 | 4128368 | 4714291 | 5195677 | 5728413 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 997887 | 1156712 | 1274883 | 1438713 | 1538493 |
| 11 | रेलवे | 318980 | 436666 | 457243 | 498747 | 594377 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 514233 | 606352 | 772898 | 919548 | 1100347 |
| 13 | वित्तिय सेवाएं | 1593654 | 1732129 | 1920614 | 1997284 | 2334264 |
| 14 | स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 1639308 | 1945857 | 2279709 | 2609400 | 2875364 |
| 15 | लोक प्रशासन | 1629141 | 1907083 | 2164636 | 2309187 | 2509825 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 1791096 | 2145512 | 2359317 | 2684370 | 3008495 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 11863234 | 14058679 | 15943591 | 17652926 | 19689578 |
| | बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन | 30368859 | 36641880 | 41680964 | 45620028 | 50817506 |
| | सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 31556159 | 38092480 | 43948344 | 47993904 | 54106751 |
| | जनसंख्या ('00) | 733480 | 745840 | 758190 | 770550 | 782910 |
| | प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (₹) | 43023 | 51073 | 57965 | 62285 | 69110 |

निरंतर.....

Statement 2.3

Madhya Pradesh Gross Value Added by economic activity (at current prices)

(₹ lakhs)

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Crops | 18913732 | 20443122 | 22108606 | 25908512 |
| 2 | Livestock | 3702364 | 4985375 | 5987892 | 7142373 |
| 3 | Forestry and logging | 1516701 | 1574081 | 1659217 | 1683975 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 181715 | 197994 | 256252 | 297557 |
| 5 | Mining and quarrying | 1801901 | 2072062 | 2222723 | 2303415 |
| | Primary Sector | 26116413 | 29272634 | 32234690 | 37335832 |
| 6 | Manufacturing | 5732405 | 6224009 | 6689910 | 6977625 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | 2014851 | 2477819 | 2559935 | 2666844 |
| 8 | Construction | 4894443 | 5484728 | 5971073 | 6393215 |
| | Secondary Sector | 12641699 | 14186556 | 15220918 | 16037684 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 6689079 | 7551707 | 8548953 | 9520220 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 1709851 | 1844821 | 1990303 | 2133087 |
| 11 | Railways | 662857 | 720334 | 762959 | 804820 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | 1036529 | 1012153 | 1061396 | 1098505 |
| 13 | Financial services | 2234695 | 2424337 | 2646251 | 2770090 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 3220022 | 3643744 | 4141304 | 4537869 |
| 15 | Public administration | 2942089 | 3336200 | 4196414 | 4694201 |
| 16 | Other services | 3508424 | 4063171 | 4803487 | 5481130 |
| | Tertiary Sector | 22003546 | 24596467 | 28151067 | 31039922 |
| | GSVA at basic prices | 60761658 | 68055657 | 75606675 | 84413438 |
| | Gross State Domestic Product | 64982281 | 72472886 | 80959172 | 90667179 |
| | Population ('00) | 794720 | 806140 | 817560 | 828980 |
| | Per Capita G.S.D.P. (₹) | 81768 | 89901 | 99025 | 109372 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन
(प्रचलित भावों पर)
प्रतिशत वृद्धि

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | फसलें | 43.73 | 18.19 | 5.11 | 2.92 |
| 2 | पशुधन | 25.88 | 20.64 | 42.05 | 41.23 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 10.02 | 5.25 | 44.17 | 6.76 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 18.95 | 23.56 | 27.13 | 14.73 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 7.60 | 22.84 | -7.05 | 12.17 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 35.24 | 18.01 | 9.40 | 8.17 |
| 6 | विनिर्माण | 8.96 | -3.67 | 5.35 | 22.62 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 12.01 | 22.03 | 27.18 | 37.12 |
| 8 | निर्माण | 0.11 | 16.60 | 3.37 | 3.66 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | 5.54 | 7.49 | 7.37 | 16.91 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 22.18 | 14.19 | 10.21 | 10.25 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 15.92 | 10.22 | 12.85 | 6.94 |
| 11 | रेलवे | 36.89 | 4.71 | 9.08 | 19.17 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 17.91 | 27.47 | 18.97 | 19.66 |
| 13 | वित्तीय सेवाएं | 8.69 | 10.88 | 3.99 | 16.87 |
| 14 | स्थायर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 18.70 | 17.16 | 14.46 | 10.19 |
| 15 | लोक प्रशासन | 17.06 | 13.51 | 6.68 | 8.69 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 19.79 | 9.97 | 13.78 | 12.07 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 18.51 | 13.41 | 10.72 | 11.54 |
| | बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन | 20.66 | 13.75 | 9.45 | 11.39 |
| | सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 20.71 | 15.37 | 9.21 | 12.74 |
| | प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. | 18.71 | 13.49 | 7.45 | 10.96 |

निरंतर.....

Statement 2.4

Madhya Pradesh Gross Value Added by economic activity (at current prices) Percentage Growth

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Crops | 40.34 | 8.09 | 8.15 | 17.19 |
| 2 | Livestock | 35.38 | 34.65 | 20.11 | 19.28 |
| 3 | Forestry and logging | 4.88 | 3.78 | 5.41 | 1.49 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 30.60 | 8.96 | 29.42 | 16.12 |
| 5 | Mining and quarrying | 11.64 | 14.99 | 7.27 | 3.63 |
| | Primary Sector | 34.54 | 12.09 | 10.12 | 15.83 |
| 6 | Manufacturing | 10.43 | 8.58 | 7.49 | 4.30 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | -6.40 | 22.98 | 3.31 | 4.18 |
| 8 | Construction | 11.94 | 12.06 | 8.87 | 7.07 |
| | Secondary Sector | 7.90 | 12.22 | 7.29 | 5.37 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 16.77 | 12.90 | 13.21 | 11.36 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 11.14 | 7.89 | 7.89 | 7.17 |
| 11 | Railways | 11.52 | 8.67 | 5.92 | 5.49 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | -5.80 | -2.35 | 4.87 | 3.50 |
| 13 | Financial services | -4.27 | 8.49 | 9.15 | 4.68 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 11.99 | 13.16 | 13.66 | 9.58 |
| 15 | Public administration | 17.22 | 13.40 | 25.78 | 11.86 |
| 16 | Other services | 16.62 | 15.81 | 18.22 | 14.11 |
| | Tertiary Sector | 11.75 | 11.78 | 14.45 | 10.26 |
| | GVA at basic prices | 19.57 | 12.00 | 11.10 | 11.65 |
| | Gross State Domestic Product | 20.10 | 11.53 | 11.71 | 11.99 |
| | Per Capita G.S.D.P. | 18.32 | 9.95 | 10.15 | 10.45 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन
(प्रचलित भावों पर)
प्रतिशत वितरण

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | फसलें | 24.15 | 28.77 | 29.89 | 28.70 | 26.52 |
| 2 | पशुधन | 2.96 | 3.08 | 3.27 | 4.25 | 5.38 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 2.67 | 2.44 | 2.26 | 2.97 | 2.85 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.27 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 3.86 | 3.44 | 3.71 | 3.15 | 3.18 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 33.85 | 37.94 | 39.36 | 39.34 | 38.20 |
| 6 | विनिर्माण | 12.61 | 11.38 | 9.64 | 9.28 | 10.22 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 2.97 | 2.76 | 2.96 | 3.44 | 4.24 |
| 8 | निर्माण | 11.51 | 9.55 | 9.79 | 9.25 | 8.60 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | 27.09 | 23.69 | 22.39 | 21.97 | 23.06 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 11.13 | 11.27 | 11.31 | 11.39 | 11.27 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 3.28 | 3.16 | 3.06 | 3.15 | 3.03 |
| 11 | रेलवे | 1.05 | 1.19 | 1.10 | 1.09 | 1.17 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 1.69 | 1.65 | 1.85 | 2.02 | 2.16 |
| 13 | वित्तीय सेवाएं | 5.25 | 4.73 | 4.61 | 4.38 | 4.59 |
| 14 | स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 5.40 | 5.31 | 5.47 | 5.72 | 5.66 |
| 15 | लोक प्रशासन | 5.36 | 5.20 | 5.19 | 5.06 | 4.94 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 5.90 | 5.86 | 5.66 | 5.88 | 5.92 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 39.06 | 38.37 | 38.25 | 38.69 | 38.74 |
| | बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

निरंतर.....

Statement 2.5

Madhya Pradesh
Gross Value Added by economic activity
(at current prices)
Percentage Distribution

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|---------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Crops | 31.13 | 30.04 | 29.24 | 30.69 |
| 2 | Livestock | 6.09 | 7.33 | 7.92 | 8.46 |
| 3 | Forestry and logging | 2.50 | 2.31 | 2.19 | 2.00 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 0.30 | 0.29 | 0.34 | 0.35 |
| 5 | Mining and quarrying | 2.96 | 3.04 | 2.94 | 2.73 |
| | Primary Sector | 42.98 | 43.01 | 42.63 | 44.23 |
| 6 | Manufacturing | 9.43 | 9.15 | 8.85 | 8.27 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | 3.32 | 3.64 | 3.39 | 3.16 |
| 8 | Construction | 8.06 | 8.06 | 7.90 | 7.57 |
| | Secondary Sector | 20.81 | 20.85 | 20.14 | 19.00 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 11.01 | 11.10 | 11.31 | 11.28 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 2.81 | 2.71 | 2.63 | 2.53 |
| 11 | Railways | 1.09 | 1.06 | 1.01 | 0.95 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | 1.71 | 1.49 | 1.40 | 1.30 |
| 13 | Financial services | 3.68 | 3.56 | 3.50 | 3.28 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 5.30 | 5.35 | 5.48 | 5.38 |
| 15 | Public administration | 4.84 | 4.90 | 5.55 | 5.56 |
| 16 | Other services | 5.77 | 5.97 | 6.35 | 6.49 |
| | Tertiary Sector | 36.21 | 36.14 | 37.23 | 36.77 |
| | GSVA at basic prices | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन
(स्थिर (2011-12) भावों पर)

(₹ लाखें)

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | फसलें | 7333369 | 9395310 | 9213657 | 9332505 | 8949745 |
| 2 | पशुधन | 897640 | 1048901 | 1225832 | 1504669 | 1819357 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 811315 | 821431 | 798487 | 1094607 | 1107856 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 64907 | 73375 | 82868 | 93933 | 98971 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 1171195 | 1350042 | 1215170 | 1164893 | 1235016 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 10278426 | 12689059 | 12536014 | 13190607 | 13210945 |
| 6 | विनिर्माण | 3828625 | 3950229 | 3665391 | 3758955 | 4823080 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 903127 | 920388 | 1129246 | 1420586 | 1781130 |
| 8 | निर्माण | 3495447 | 3249077 | 3519458 | 3573333 | 3603975 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | 8227199 | 8119694 | 8314095 | 8752874 | 10208185 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 3378935 | 3747267 | 3890257 | 4062768 | 4287194 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 997887 | 1092856 | 1119496 | 1227091 | 1310694 |
| 11 | रेलवे | 318980 | 417736 | 427975 | 435426 | 505625 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 514233 | 572829 | 680090 | 786557 | 940165 |
| 13 | वित्तिय सेवाएं | 1593654 | 1709455 | 1851951 | 1894142 | 2162322 |
| 14 | स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 1639308 | 1766586 | 1913561 | 2055614 | 2172544 |
| 15 | लोक प्रशासन | 1629141 | 1757503 | 1844482 | 1873778 | 1969121 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 1791096 | 1946777 | 1954802 | 2085150 | 2223056 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 11863234 | 13011009 | 13682614 | 14420526 | 15570721 |
| | बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन | 30368859 | 33819762 | 34532723 | 36364007 | 38989851 |
| | सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 31556159 | 35168262 | 36513394 | 38394448 | 41873574 |
| | जनसंख्या ('00) | 733480 | 745840 | 758190 | 770550 | 782910 |
| | प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. (₹) | 43023 | 47153 | 48159 | 49827 | 53485 |

निरंतर.....

Statement 2.6

Madhya Pradesh Gross Value Added by economic activity (at constant (2011-12) prices)

(₹ lakhs)

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Crops | 11775864 | 11511864 | 11209708 | 12004558 |
| 2 | Livestock | 2124432 | 2426637 | 2703661 | 3172829 |
| 3 | Forestry and logging | 1090146 | 1086383 | 1107242 | 1109665 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 119382 | 123467 | 149087 | 163369 |
| 5 | Mining and quarrying | 1340901 | 1468049 | 1575710 | 1591546 |
| | Primary Sector | 16450725 | 16616400 | 16745408 | 18041967 |
| 6 | Manufacturing | 5320558 | 5596747 | 5805977 | 6027127 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | 1511856 | 1749767 | 1870322 | 1962210 |
| 8 | Construction | 3741354 | 4042093 | 4225543 | 4455657 |
| | Secondary Sector | 10573768 | 11388607 | 11901842 | 12444994 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 4830781 | 5315855 | 5827760 | 6391222 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 1410997 | 1491577 | 1560721 | 1647326 |
| 11 | Railways | 510005 | 544573 | 566442 | 588458 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | 858174 | 820253 | 831052 | 847062 |
| 13 | Financial services | 2073191 | 2094959 | 2121812 | 2187419 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 2343085 | 2522970 | 2701496 | 2915288 |
| 15 | Public administration | 2239249 | 2471425 | 3004219 | 3253867 |
| 16 | Other services | 2457711 | 2720135 | 2999622 | 3370873 |
| | Tertiary Sector | 16723193 | 17981747 | 19613124 | 21201515 |
| | GSVA at basic prices | 43747686 | 45986754 | 48260374 | 51688476 |
| | Gross State Domestic Product | 47066916 | 49351645 | 52200932 | 56180149 |
| | Population ('00) | 794720 | 806140 | 817560 | 828980 |
| | Per Capita G.S.D.P. (₹) | 59225 | 61220 | 63850 | 67770 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन
(स्थिर (2011-12) भावों पर)
प्रतिशत वृद्धि

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | फसलें | 28.12 | -1.93 | 1.29 | -4.10 |
| 2 | पशुधन | 16.85 | 16.87 | 22.75 | 20.91 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 1.25 | -2.79 | 37.09 | 1.21 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 13.05 | 12.94 | 13.35 | 5.36 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 15.27 | -9.99 | -4.14 | 6.02 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 23.45 | -1.21 | 5.22 | 0.15 |
| 6 | विनिर्माण | 3.18 | -7.21 | 2.55 | 28.31 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 1.91 | 22.69 | 25.80 | 25.38 |
| 8 | निर्माण | -7.05 | 8.32 | 1.53 | 0.86 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | -1.31 | 2.39 | 5.28 | 16.63 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 10.90 | 3.82 | 4.43 | 5.52 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 9.52 | 2.44 | 9.61 | 6.81 |
| 11 | रेलवे | 30.96 | 2.45 | 1.74 | 16.12 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 11.39 | 18.72 | 15.65 | 19.53 |
| 13 | वित्तिय सेवाएं | 7.27 | 8.34 | 2.28 | 14.16 |
| 14 | स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 7.76 | 8.32 | 7.42 | 5.69 |
| 15 | लोक प्रशासन | 7.88 | 4.95 | 1.59 | 5.09 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 8.69 | 0.41 | 6.67 | 6.61 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 9.68 | 5.16 | 5.39 | 7.98 |
| | बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन | 11.36 | 2.11 | 5.30 | 7.22 |
| | सकल राज्य घरेलू उत्पाद | 11.45 | 3.82 | 5.15 | 9.06 |
| | प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. | 9.60 | 2.13 | 3.46 | 7.34 |

निरंतर.....

Statement 2.7

Madhya Pradesh Gross Value Added by economic activity (at constant (2011-12) prices) Percentage Growth

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Crops | 31.58 | -2.24 | -2.62 | 7.09 |
| 2 | Livestock | 16.77 | 14.23 | 11.42 | 17.35 |
| 3 | Forestry and logging | -1.60 | -0.35 | 1.92 | 0.22 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 20.62 | 3.42 | 20.75 | 9.58 |
| 5 | Mining and quarrying | 8.57 | 9.48 | 7.33 | 1.01 |
| | Primary Sector | 24.52 | 1.01 | 0.78 | 7.74 |
| 6 | Manufacturing | 10.31 | 5.19 | 3.74 | 3.81 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | -15.12 | 15.74 | 6.89 | 4.91 |
| 8 | Construction | 3.81 | 8.04 | 4.54 | 5.45 |
| | Secondary Sector | 3.58 | 7.71 | 4.51 | 4.56 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 12.68 | 10.04 | 9.63 | 9.67 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 7.65 | 5.71 | 4.64 | 5.55 |
| 11 | Railways | 0.87 | 6.78 | 4.02 | 3.89 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | -8.72 | -4.42 | 1.32 | 1.93 |
| 13 | Financial services | -4.12 | 1.05 | 1.28 | 3.09 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 7.85 | 7.68 | 7.08 | 7.91 |
| 15 | Public administration | 13.72 | 10.37 | 21.56 | 8.31 |
| 16 | Other services | 10.56 | 10.68 | 10.27 | 12.38 |
| | Tertiary Sector | 7.40 | 7.53 | 9.07 | 8.10 |
| | GVA at basic prices | 12.20 | 5.12 | 4.94 | 7.10 |
| | Gross State Domestic Product | 12.40 | 4.85 | 5.77 | 7.62 |
| | Per Capita G.S.D.P. | 10.73 | 3.37 | 4.30 | 6.14 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार सकल मूल्य वर्धन
(स्थिर (2011-12) भावों पर)
प्रतिशत वितरण

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | फसलें | 24.15 | 27.78 | 26.68 | 25.66 | 22.95 |
| 2 | पशुधन | 2.96 | 3.10 | 3.55 | 4.14 | 4.67 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 2.67 | 2.43 | 2.31 | 3.01 | 2.84 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 0.21 | 0.22 | 0.24 | 0.26 | 0.25 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 3.86 | 3.99 | 3.52 | 3.20 | 3.17 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 33.85 | 37.52 | 36.30 | 36.27 | 33.88 |
| 6 | विनिर्माण | 12.61 | 11.68 | 10.62 | 10.34 | 12.37 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 2.97 | 2.72 | 3.27 | 3.91 | 4.57 |
| 8 | निर्माण | 11.51 | 9.61 | 10.19 | 9.83 | 9.24 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | 27.09 | 24.01 | 24.08 | 24.08 | 26.18 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 11.13 | 11.08 | 11.27 | 11.17 | 11.00 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 3.28 | 3.23 | 3.24 | 3.37 | 3.36 |
| 11 | रेलवे | 1.05 | 1.24 | 1.24 | 1.20 | 1.30 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 1.69 | 1.69 | 1.97 | 2.16 | 2.41 |
| 13 | वित्तीय सेवाएं | 5.25 | 5.05 | 5.36 | 5.21 | 5.55 |
| 14 | स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 5.40 | 5.22 | 5.54 | 5.65 | 5.57 |
| 15 | लोक प्रशासन | 5.36 | 5.20 | 5.34 | 5.15 | 5.05 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 5.90 | 5.76 | 5.66 | 5.74 | 5.70 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 39.06 | 38.47 | 39.62 | 39.65 | 39.94 |
| | बुनियादी मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

निरंतर.....

Statement 2.8

Madhya Pradesh Gross Value Added by economic activity at constant (2011-12) prices) Percentage Distribution

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|---------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Crops | 26.92 | 25.03 | 23.23 | 23.22 |
| 2 | Livestock | 4.86 | 5.28 | 5.60 | 6.14 |
| 3 | Forestry and logging | 2.49 | 2.36 | 2.29 | 2.15 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 0.27 | 0.27 | 0.31 | 0.31 |
| 5 | Mining and quarrying | 3.06 | 3.19 | 3.27 | 3.08 |
| | Primary Sector | 37.60 | 36.13 | 34.70 | 34.90 |
| 6 | Manufacturing | 12.16 | 12.17 | 12.03 | 11.66 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | 3.46 | 3.81 | 3.87 | 3.79 |
| 8 | Construction | 8.55 | 8.79 | 8.76 | 8.62 |
| | Secondary Sector | 24.17 | 24.77 | 24.66 | 24.07 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 11.04 | 11.56 | 12.08 | 12.37 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 3.22 | 3.24 | 3.23 | 3.19 |
| 11 | Railways | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 1.14 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | 1.96 | 1.78 | 1.72 | 1.64 |
| 13 | Financial services | 4.74 | 4.56 | 4.40 | 4.23 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 5.36 | 5.49 | 5.60 | 5.64 |
| 15 | Public administration | 5.12 | 5.37 | 6.22 | 6.30 |
| 16 | Other services | 5.62 | 5.92 | 6.22 | 6.52 |
| | Tertiary Sector | 38.23 | 39.10 | 40.64 | 41.03 |
| | GSVA at basic prices | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

विवरण 2.9

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल मूल्य वर्धन
(प्रचलित भावों पर)

(₹ लाखें)

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | फसलें | 6889445 | 10022635 | 11840900 | 12399725 | 12714305 |
| 2 | पशुधन | 874851 | 1102552 | 1331058 | 1898159 | 2692718 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 801021 | 881020 | 927108 | 1341149 | 1432597 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 57277 | 68542 | 85315 | 109858 | 126677 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 1028075 | 1099074 | 1359900 | 1221905 | 1350460 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 9650669 | 13173823 | 15544281 | 16970796 | 18316757 |
| 6 | विनिर्माण | 2967896 | 2313456 | 2852777 | 2988587 | 3942866 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 601909 | 664195 | 760880 | 1021951 | 1454700 |
| 8 | निर्माण | 3333178 | 3318465 | 3833493 | 3969868 | 4113405 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | 6902983 | 6296116 | 7447150 | 7980406 | 9510971 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 3170303 | 3871557 | 4409155 | 4847465 | 5379756 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 896923 | 1042151 | 1133619 | 1289658 | 1385416 |
| 11 | रेलवे | 274398 | 385122 | 394508 | 421695 | 502796 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 419422 | 504644 | 584489 | 707766 | 856912 |
| 13 | वित्तिय सेवाएं | 1568489 | 1701445 | 1888732 | 1960598 | 2286276 |
| 14 | स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 1243638 | 1480665 | 1742312 | 2015574 | 2245124 |
| 15 | लोक प्रशासन | 1256945 | 1482897 | 1697956 | 1825311 | 2010944 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 1666034 | 2004704 | 2201946 | 2509555 | 2819224 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 10496152 | 12473185 | 14052717 | 15577622 | 17486448 |
| | बुनियादी मूल्यों पर निवल राज्य मूल्य वर्धन | 27049804 | 31943124 | 37044148 | 40528824 | 45314176 |
| | निवल राज्य घरेलू उत्पाद | 28237104 | 33393724 | 39311528 | 42902700 | 48603421 |
| | जनसंख्या ('00) | 733480 | 745840 | 758190 | 770550 | 782910 |
| | प्रति व्यक्ति नि.रा.घ.उ. (₹) | 38497 | 44773 | 51849 | 55678 | 62080 |

निरंतर.....

Statement 2.9

Madhya Pradesh Net Value Added by economic activity (at current prices)

(₹ lakhs)

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Crops | 18070927 | 19544220 | 21129029 | 24843739 |
| 2 | Livestock | 3652837 | 4925923 | 5918998 | 7061223 |
| 3 | Forestry and logging | 1504871 | 1560786 | 1645292 | 1669847 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 166904 | 183573 | 240611 | 280628 |
| 5 | Mining and quarrying | 1513100 | 1751897 | 1869867 | 1914532 |
| | Primary Sector | 24908639 | 27966399 | 30803797 | 35769969 |
| 6 | Manufacturing | 4453970 | 4829375 | 5240532 | 5453721 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | 1348386 | 1712821 | 1755669 | 1821294 |
| 8 | Construction | 4596482 | 5137932 | 5582844 | 5948899 |
| | Secondary Sector | 10398838 | 11680128 | 12579045 | 13223914 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 6284044 | 7076651 | 8016798 | 8906565 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 1520684 | 1614628 | 1724598 | 1815204 |
| 11 | Railways | 560590 | 600535 | 624126 | 645300 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | 778202 | 720921 | 737351 | 741924 |
| 13 | Financial services | 2184352 | 2369782 | 2583680 | 2701686 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 2536709 | 2882581 | 3314310 | 3632412 |
| 15 | Public administration | 2380512 | 2677467 | 3465289 | 3863502 |
| 16 | Other services | 3293687 | 3808168 | 4514079 | 5147637 |
| | Tertiary Sector | 19538780 | 21750733 | 24980231 | 27454230 |
| | NSVA at basic prices | 54846257 | 61397260 | 68363073 | 76448113 |
| | Net State Domestic Product | 59066880 | 65814489 | 73715570 | 82701854 |
| | Population ('00) | 794720 | 806140 | 817560 | 828980 |
| | Per Capita N.S.D.P. (₹) | 74324 | 81642 | 90165 | 99763 |

प्रा—प्रावधिक, त्व—त्वरित, अ—अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल मूल्य वर्धन
(प्रचलित भावों पर)
प्रतिशत वृद्धि

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | फसलें | 45.48 | 18.14 | 4.72 | 2.54 |
| 2 | पशुधन | 26.03 | 20.73 | 42.61 | 41.86 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 9.99 | 5.23 | 44.66 | 6.82 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 19.67 | 24.47 | 28.77 | 15.31 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 6.91 | 23.73 | -10.15 | 10.52 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 36.51 | 17.99 | 9.18 | 7.93 |
| 6 | विनिर्माण | -22.05 | 23.31 | 4.76 | 31.93 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 10.35 | 14.56 | 34.31 | 42.35 |
| 8 | निर्माण | -0.44 | 15.52 | 3.56 | 3.62 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | -8.79 | 18.28 | 7.16 | 19.18 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 22.12 | 13.89 | 9.94 | 10.98 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 16.19 | 8.78 | 13.76 | 7.43 |
| 11 | रेलवे | 40.35 | 2.44 | 6.89 | 19.23 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 20.32 | 15.82 | 21.09 | 21.07 |
| 13 | वित्तीय सेवाएं | 8.48 | 11.01 | 3.80 | 16.61 |
| 14 | स्थायर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 19.06 | 17.67 | 15.68 | 11.39 |
| 15 | लोक प्रशासन | 17.98 | 14.50 | 7.50 | 10.17 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 20.33 | 9.84 | 13.97 | 12.34 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 18.84 | 12.66 | 10.85 | 12.25 |
| | बुनियादी मूल्यों पर निवल राज्य मूल्य वर्धन | 18.09 | 15.97 | 9.41 | 11.81 |
| | निवल राज्य घरेलू उत्पाद | 18.26 | 17.72 | 9.14 | 13.29 |
| | प्रति व्यक्ति नि.रा.घ.उ. | 16.30 | 15.80 | 7.38 | 11.50 |

निरंतर.....

Statement 2.10

**Madhya Pradesh
Net Value Added by economic activity
(at current prices)
Percentage Growth**

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Crops | 42.13 | 8.15 | 8.11 | 17.58 |
| 2 | Livestock | 35.66 | 34.85 | 20.16 | 19.30 |
| 3 | Forestry and logging | 5.04 | 3.72 | 5.41 | 1.49 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 31.76 | 9.99 | 31.07 | 16.63 |
| 5 | Mining and quarrying | 12.04 | 15.78 | 6.73 | 2.39 |
| | Primary Sector | 35.99 | 12.28 | 10.15 | 16.12 |
| 6 | Manufacturing | 12.96 | 8.43 | 8.51 | 4.07 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | -7.31 | 27.03 | 2.50 | 3.74 |
| 8 | Construction | 11.74 | 11.78 | 8.66 | 6.56 |
| | Secondary Sector | 9.34 | 12.32 | 7.70 | 5.13 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 16.81 | 12.61 | 13.29 | 11.10 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 9.76 | 6.18 | 6.81 | 5.25 |
| 11 | Railways | 11.49 | 7.13 | 3.93 | 3.39 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | -9.19 | -7.36 | 2.28 | 0.62 |
| 13 | Financial services | -4.46 | 8.49 | 9.03 | 4.57 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 12.99 | 13.63 | 14.98 | 9.60 |
| 15 | Public administration | 18.38 | 12.47 | 29.42 | 11.49 |
| 16 | Other services | 16.83 | 15.62 | 18.54 | 14.04 |
| | Tertiary Sector | 11.74 | 11.32 | 14.85 | 9.90 |
| | NSVA at basic prices | 21.04 | 11.94 | 11.35 | 11.83 |
| | Net State Domestic Product | 21.53 | 11.42 | 12.01 | 12.19 |
| | Per Capita N.S.D.P. | 19.72 | 9.85 | 10.44 | 10.64 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल मूल्यवर्धन
(प्रचलित भावों पर)
प्रतिशत वितरण

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | फसलें | 25.47 | 31.38 | 31.97 | 30.59 | 28.06 |
| 2 | पशुधन | 3.23 | 3.45 | 3.59 | 4.68 | 5.94 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 2.96 | 2.76 | 2.50 | 3.31 | 3.16 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.27 | 0.28 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 3.80 | 3.44 | 3.67 | 3.02 | 2.98 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 35.67 | 41.24 | 41.96 | 41.87 | 40.42 |
| 6 | विनिर्माण | 10.97 | 7.24 | 7.70 | 7.37 | 8.70 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 2.23 | 2.08 | 2.05 | 2.52 | 3.21 |
| 8 | निर्माण | 12.32 | 10.39 | 10.35 | 9.80 | 9.08 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | 25.52 | 19.71 | 20.10 | 19.69 | 20.99 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 11.72 | 12.12 | 11.90 | 11.96 | 11.87 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 3.32 | 3.26 | 3.06 | 3.18 | 3.06 |
| 11 | रेलवे | 1.01 | 1.21 | 1.07 | 1.04 | 1.11 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 1.55 | 1.58 | 1.58 | 1.75 | 1.89 |
| 13 | वित्तीय सेवाएं | 5.80 | 5.33 | 5.10 | 4.84 | 5.05 |
| 14 | स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 4.60 | 4.63 | 4.70 | 4.97 | 4.95 |
| 15 | लोक प्रशासन | 4.65 | 4.64 | 4.58 | 4.51 | 4.44 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 6.16 | 6.28 | 5.95 | 6.19 | 6.22 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 38.81 | 39.05 | 37.94 | 38.44 | 38.59 |
| | बुनियादी मूल्यों पर निवल राज्य मूल्य वर्धन | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

निरंतर.....

Statement 2.11

Madhya Pradesh Net Value Added by economic activity (at current prices) Percentage Distribution

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|---------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Crops | 32.95 | 31.83 | 30.91 | 32.50 |
| 2 | Livestock | 6.66 | 8.02 | 8.66 | 9.24 |
| 3 | Forestry and logging | 2.74 | 2.54 | 2.41 | 2.18 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.37 |
| 5 | Mining and quarrying | 2.76 | 2.85 | 2.73 | 2.50 |
| | Primary Sector | 45.41 | 45.54 | 45.06 | 46.79 |
| 6 | Manufacturing | 8.12 | 7.87 | 7.66 | 7.14 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | 2.46 | 2.79 | 2.57 | 2.38 |
| 8 | Construction | 8.38 | 8.37 | 8.17 | 7.78 |
| | Secondary Sector | 18.96 | 19.03 | 18.40 | 17.30 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 11.46 | 11.53 | 11.73 | 11.65 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 2.77 | 2.63 | 2.52 | 2.38 |
| 11 | Railways | 1.02 | 0.98 | 0.91 | 0.85 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | 1.42 | 1.17 | 1.08 | 0.97 |
| 13 | Financial services | 3.98 | 3.86 | 3.78 | 3.53 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 4.63 | 4.70 | 4.85 | 4.75 |
| 15 | Public administration | 4.34 | 4.36 | 5.07 | 5.05 |
| 16 | Other services | 6.01 | 6.20 | 6.60 | 6.73 |
| | Tertiary Sector | 35.63 | 35.43 | 36.54 | 35.91 |
| | NSVA at basic prices | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

विवरण 2.12

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल मूल्य वर्धन
(स्थिर (2011-12) भावों पर)

(₹ लाखें)

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 | फसलें | 6889445 | 8916071 | 8687182 | 8768349 | 8357378 |
| 2 | पशुधन | 874851 | 1023496 | 1197362 | 1471714 | 1781574 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 801021 | 810659 | 787482 | 1083123 | 1095880 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 57277 | 65202 | 74023 | 83843 | 88086 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 1028075 | 1196650 | 1042842 | 977995 | 1014412 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 9650669 | 12012078 | 11788891 | 12385024 | 12337330 |
| 6 | विनिर्माण | 2967896 | 2159834 | 2575161 | 2640189 | 3705230 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 601909 | 585528 | 685060 | 930720 | 1155872 |
| 8 | निर्माण | 3333178 | 3076454 | 3287065 | 3343275 | 3362383 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | 6902983 | 5821816 | 6547286 | 6914184 | 8223485 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 3170303 | 3505248 | 3612409 | 3757057 | 3975310 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 896923 | 983226 | 988753 | 1088819 | 1168411 |
| 11 | रेलवे | 274398 | 369399 | 370717 | 368408 | 425930 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 419422 | 468614 | 496046 | 602263 | 733911 |
| 13 | वित्तिय सेवाएं | 1568489 | 1679708 | 1821617 | 1861623 | 2120654 |
| 14 | स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 1243638 | 1334209 | 1434938 | 1549140 | 1631995 |
| 15 | लोक प्रशासन | 1256945 | 1349881 | 1409212 | 1436141 | 1514862 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 1666034 | 1812655 | 1809220 | 1931590 | 2055956 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 10496152 | 11502940 | 11942912 | 12595041 | 13627029 |
| | बुनियादी मूल्यों पर निवल राज्य मूल्य वर्धन | 27049804 | 29336834 | 30279089 | 31894249 | 34187844 |
| | निवल राज्य घरेलू उत्पाद | 28237104 | 30685334 | 32259760 | 33924690 | 37071567 |
| | जनसंख्या ('00) | 733480 | 745840 | 758190 | 770550 | 782910 |
| | प्रति व्यक्ति नि.रा.घ.उ. (₹) | 38497 | 41142 | 42548 | 44027 | 47351 |

निरंतर.....

Statement 2.12

Madhya Pradesh Net Value Added by economic activity (at constant (2011-12) prices)

(₹ lakhs)

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|-----------------|---------------------|----------------------|------------------|
| 1 | Crops | 11145635 | 10856161 | 10520270 | 11279319 |
| 2 | Livestock | 2081011 | 2377621 | 2647709 | 3109051 |
| 3 | Forestry and logging | 1079937 | 1075535 | 1096268 | 1098283 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 106194 | 110604 | 135084 | 148080 |
| 5 | Mining and quarrying | 1103130 | 1211465 | 1298991 | 1293114 |
| | Primary Sector | 15515907 | 15631386 | 15698322 | 16927847 |
| 6 | Manufacturing | 4174515 | 4375589 | 4548206 | 4718732 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | 914702 | 1080228 | 1175252 | 1240634 |
| 8 | Construction | 3457073 | 3714910 | 3857162 | 4031586 |
| | Secondary Sector | 8546290 | 9170727 | 9580620 | 9990952 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 4471950 | 4913023 | 5382685 | 5889355 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 1238159 | 1286699 | 1327601 | 1373707 |
| 11 | Railways | 422235 | 445086 | 452894 | 460673 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | 637616 | 575646 | 562184 | 553317 |
| 13 | Financial services | 2029146 | 2048434 | 2069167 | 2130477 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 1767927 | 1913575 | 2053338 | 2226694 |
| 15 | Public administration | 1729089 | 1890447 | 2365171 | 2537744 |
| 16 | Other services | 2268976 | 2504295 | 2757790 | 3097320 |
| | Tertiary Sector | 14565098 | 15577205 | 16970830 | 18269287 |
| | NSVA at basic prices | 38627295 | 40379318 | 42249772 | 45188086 |
| | Net State Domestic Product | 41946525 | 43744209 | 46190330 | 49679759 |
| | Population ('00) | 794720 | 806140 | 817560 | 828980 |
| | Per Capita N.S.D.P. (₹) | 52782 | 54264 | 56498 | 59929 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल मूल्य वर्धन
(स्थिर (2011-12) भावों पर)
प्रतिशत वृद्धि

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 1 | फसलें | 29.42 | -2.57 | 0.93 | -4.69 |
| 2 | पशुधन | 16.99 | 16.99 | 22.91 | 21.05 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 1.20 | -2.86 | 37.54 | 1.18 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 13.84 | 13.53 | 13.27 | 5.06 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 16.40 | -12.85 | -6.22 | 3.72 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 24.47 | -1.86 | 5.06 | -0.39 |
| 6 | विनिर्माण | -27.23 | 19.23 | 2.53 | 40.34 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | -2.72 | 17.00 | 35.86 | 24.19 |
| 8 | निर्माण | -7.70 | 6.85 | 1.71 | 0.57 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | -15.66 | 12.46 | 5.60 | 18.94 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 10.57 | 3.06 | 4.00 | 5.81 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 9.62 | 0.56 | 10.12 | 7.31 |
| 11 | रेलवे | 34.62 | 0.36 | -0.62 | 15.61 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 11.73 | 5.85 | 21.41 | 21.86 |
| 13 | वित्तीय सेवाएं | 7.09 | 8.45 | 2.20 | 13.91 |
| 14 | स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 7.28 | 7.55 | 7.96 | 5.35 |
| 15 | लोक प्रशासन | 7.39 | 4.40 | 1.91 | 5.48 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 8.80 | -0.19 | 6.76 | 6.44 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 9.59 | 3.82 | 5.46 | 8.19 |
| | बुनियादी मूल्यों पर निवल राज्य मूल्य वर्धन | 8.45 | 3.21 | 5.33 | 7.19 |
| | निवल राज्य घरेलू उत्पाद | 8.67 | 5.13 | 5.16 | 9.28 |
| | प्रति व्यक्ति नि.रा.घ.उ. | 6.87 | 3.42 | 3.47 | 7.55 |

निरंतर.....

Statement 2.13

Madhya Pradesh Net Value Added by economic activity (at constant (2011-12) prices) Percentage Growth

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|--------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Crops | 33.36 | -2.60 | -3.09 | 7.22 |
| 2 | Livestock | 16.81 | 14.25 | 11.36 | 17.42 |
| 3 | Forestry and logging | -1.45 | -0.41 | 1.93 | 0.18 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 20.56 | 4.15 | 22.13 | 9.62 |
| 5 | Mining and quarrying | 8.75 | 9.82 | 7.22 | -0.45 |
| | Primary Sector | 25.76 | 0.74 | 0.43 | 7.83 |
| 6 | Manufacturing | 12.67 | 4.82 | 3.95 | 3.75 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | -20.86 | 18.10 | 8.80 | 5.56 |
| 8 | Construction | 2.82 | 7.46 | 3.83 | 4.52 |
| | Secondary Sector | 3.93 | 7.31 | 4.47 | 4.28 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 12.49 | 9.86 | 9.56 | 9.41 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 5.97 | 3.92 | 3.18 | 3.47 |
| 11 | Railways | -0.87 | 5.41 | 1.75 | 1.72 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | -13.12 | -9.72 | -2.34 | -1.58 |
| 13 | Financial services | -4.32 | 0.95 | 1.01 | 2.96 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 8.33 | 8.24 | 7.30 | 8.44 |
| 15 | Public administration | 14.14 | 9.33 | 25.11 | 7.30 |
| 16 | Other services | 10.36 | 10.37 | 10.12 | 12.31 |
| | Tertiary Sector | 6.88 | 6.95 | 8.95 | 7.65 |
| | NSVA at basic prices | 12.99 | 4.54 | 4.63 | 6.95 |
| | Net State Domestic Product | 13.15 | 4.29 | 5.59 | 7.55 |
| | Per Capita N.S.D.P. | 11.47 | 2.81 | 4.12 | 6.07 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

मध्यप्रदेश
आर्थिक क्रियाकलापों के अनुसार निवल मूल्य वर्धन
(स्थिर (2011-12) भावों पर)
प्रतिशत वितरण

| क्र. सं. | आर्थिक क्रियाकलाप | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | फसलें | 25.47 | 30.39 | 28.69 | 27.49 | 24.45 |
| 2 | पशुधन | 3.23 | 3.49 | 3.95 | 4.61 | 5.21 |
| 3 | वानिकी और लट्ठा बनाना | 2.96 | 2.76 | 2.60 | 3.40 | 3.20 |
| 4 | मत्स्यन एवं जलीय कृषि | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| 5 | खनन और उत्खनन | 3.80 | 4.08 | 3.44 | 3.07 | 2.97 |
| | प्राथमिक क्षेत्र | 35.67 | 40.94 | 38.93 | 38.83 | 36.09 |
| 6 | विनिर्माण | 10.97 | 7.36 | 8.50 | 8.28 | 10.84 |
| 7 | बिजली, गैस, जलापूर्ती और अन्य उपयोगी सेवाएं | 2.23 | 2.00 | 2.26 | 2.92 | 3.38 |
| 8 | निर्माण | 12.32 | 10.49 | 10.86 | 10.48 | 9.83 |
| | द्वितीयक क्षेत्र | 25.52 | 19.85 | 21.62 | 21.68 | 24.05 |
| 9 | व्यापार, मरम्मत, होटल और जलपान गृह | 11.72 | 11.95 | 11.93 | 11.78 | 11.63 |
| 10 | परिवहन एवं भंडारण | 3.32 | 3.35 | 3.27 | 3.41 | 3.42 |
| 11 | रेलवे | 1.01 | 1.26 | 1.22 | 1.15 | 1.25 |
| 12 | संचार एवं प्रसारण से संबंधित सेवाएं | 1.55 | 1.60 | 1.64 | 1.89 | 2.15 |
| 13 | वित्तीय सेवाएं | 5.80 | 5.73 | 6.02 | 5.84 | 6.20 |
| 14 | स्थावर संपदा, आवास का स्वामित्व और व्यावसायिक सेवाएं | 4.60 | 4.54 | 4.74 | 4.86 | 4.77 |
| 15 | लोक प्रशासन | 4.65 | 4.60 | 4.65 | 4.50 | 4.43 |
| 16 | अन्य सेवाएं | 6.16 | 6.18 | 5.98 | 6.06 | 6.01 |
| | तृतीयक क्षेत्र | 38.81 | 39.21 | 39.45 | 39.49 | 39.86 |
| | बुनियादी मूल्यों पर निवल राज्य मूल्य वर्धन | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

निरंतर.....

Statement 2.14

Madhya Pradesh
Net Value Added by economic activity
at constant (2011-12) prices)
Percentage Distribution

| S. No. | Economic Activity | 2016-17 | 2017-18 (प्रा P) | 2018-19 (त्व Q) | 2019-20 (अ A) |
|--------|--|---------------|---------------------|--------------------|------------------|
| 1 | Crops | 28.85 | 26.89 | 24.90 | 24.96 |
| 2 | Livestock | 5.39 | 5.89 | 6.27 | 6.88 |
| 3 | Forestry and logging | 2.80 | 2.66 | 2.59 | 2.43 |
| 4 | Fishing and aquaculture | 0.27 | 0.27 | 0.32 | 0.33 |
| 5 | Mining and quarrying | 2.86 | 3.00 | 3.07 | 2.86 |
| | Primary Sector | 40.17 | 38.71 | 37.15 | 37.46 |
| 6 | Manufacturing | 10.81 | 10.84 | 10.77 | 10.44 |
| 7 | Electricity, gas, water supply & other utility services | 2.37 | 2.67 | 2.78 | 2.75 |
| 8 | Construction | 8.95 | 9.20 | 9.13 | 8.92 |
| | Secondary Sector | 22.13 | 22.71 | 22.68 | 22.11 |
| 9 | Trade, repair, hotels and restaurants | 11.58 | 12.17 | 12.74 | 13.03 |
| 10 | Transport by other means and Storage | 3.20 | 3.19 | 3.14 | 3.04 |
| 11 | Railways | 1.09 | 1.10 | 1.07 | 1.02 |
| 12 | Communication & services related to broadcasting | 1.65 | 1.43 | 1.33 | 1.22 |
| 13 | Financial services | 5.25 | 5.07 | 4.90 | 4.72 |
| 14 | Real estate, ownership of dwelling & professional services | 4.58 | 4.74 | 4.86 | 4.93 |
| 15 | Public administration | 4.48 | 4.68 | 5.60 | 5.62 |
| 16 | Other services | 5.87 | 6.20 | 6.53 | 6.85 |
| | Tertiary Sector | 37.70 | 38.58 | 40.17 | 40.43 |
| | NSVA at basic prices | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |

प्रा-प्रावधिक, त्व-त्वरित, अ-अग्रिम

P- Provisional, Q-Quick, A-Advance

Blank

भारतीय संघ एवं राज्यों के अनुमान
Estimates of Indian Union and States

विवरण 3.1

भारतीय संघ एवं राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद
(प्रचलित भावों पर)

(₹ करोड़)

| सं.क्रं. | भारतीय संघ/राज्य | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 379402 | 411404 | 464272 | 524976 | 604229 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 11063 | 12547 | 14581 | 17959 | 18509 |
| 3 | आसाम | 143175 | 156864 | 177745 | 195723 | 227959 |
| 4 | बिहार | 247144 | 282368 | 317101 | 342951 | 371602 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 158074 | 177511 | 206833 | 221118 | 227383 |
| 6 | गोवा | 42367 | 38120 | 35921 | 47814 | 55054 |
| 7 | गुजरात | 615606 | 724495 | 807623 | 921773 | 1029010 |
| 8 | हरियाणा | 297539 | 347032 | 399268 | 437145 | 495504 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 72720 | 82820 | 94764 | 103772 | 114239 |
| 10 | जम्मू व कश्मीर | 78256 | 87138 | 95619 | 98367 | 117168 |
| 11 | झारखण्ड | 150918 | 174724 | 188567 | 218525 | 206613 |
| 12 | कर्नाटक | 606010 | 695413 | 816666 | 913923 | 1045168 |
| 13 | केरल | 364048 | 412313 | 465041 | 512564 | 561994 |
| 14 | मध्यप्रदेश | 315562 | 380925 | 439483 | 479939 | 541068 |
| 15 | महाराष्ट्र | 1280369 | 1459629 | 1649647 | 1779138 | 1966147 |
| 16 | मणीपुर | 12915 | 13743 | 16182 | 18129 | 19531 |
| 17 | मेघालय | 19918 | 21872 | 22938 | 23235 | 25117 |
| 18 | मिजोरम | 7259 | 8362 | 10293 | 13509 | 15139 |
| 19 | नागालैण्ड | 12177 | 14121 | 16612 | 18401 | 19524 |
| 20 | उड़ीसा | 230987 | 261700 | 296475 | 314250 | 328550 |
| 21 | पंजाब | 266628 | 297734 | 332147 | 355102 | 390087 |
| 22 | राजस्थान | 434837 | 493551 | 551031 | 615642 | 681482 |
| 23 | सिक्किम | 11165 | 12338 | 13862 | 15407 | 18034 |
| 24 | तमिलनाडू | 751486 | 854825 | 968530 | 1072678 | 1176500 |
| 25 | तेलंगाना | 359434 | 401594 | 451580 | 505849 | 577902 |
| 26 | त्रिपुरा | 19208 | 21663 | 25593 | 29533 | 35938 |
| 27 | उत्तरप्रदेश | 724050 | 822393 | 940356 | 1011790 | 1137808 |
| 28 | उत्तराखण्ड | 115328 | 131613 | 149074 | 161439 | 177163 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 520485 | 591464 | 676848 | 718082 | 797300 |
| 30 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3978 | 4421 | 5023 | 5477 | 6032 |
| 31 | चण्डीगढ़ | 18768 | 21609 | 24822 | 26549 | 29275 |
| 32 | दिल्ली | 343798 | 391388 | 443960 | 494803 | 550804 |
| 33 | पांडुचेरी | 16818 | 18875 | 21870 | 22574 | 26617 |

निरंतर.....

Statement 3.1

**Gross Domestic Product of States and Indian Union
(at current prices)**

(₹ crore)

| S No. | State\ Indian Union | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Andhra Pradesh | 684416 | 793186 | 862957 | NA |
| 2 | Arunachal Pradesh | 19845 | 22432 | 24603 | NA |
| 3 | Assam | 254382 | 288691 | 324038 | NA |
| 4 | Bihar | 422316 | 484740 | 557490 | NA |
| 5 | Chhattisgarh | 254722 | 284194 | 311660 | NA |
| 6 | Goa | 63460 | 70494 | 77126 | NA |
| 7 | Gujarat | 1167156 | 1328068 | 1501944 | NA |
| 8 | Haryana | 561610 | 649592 | 734163 | 831610 |
| 9 | Himachal Pradesh | 125634 | 138351 | 153845 | 165472 |
| 10 | Jammu & Kashmir | 125379 | 137427 | 154380 | NA |
| 11 | Jharkhand | 236250 | 276243 | 307581 | NA |
| 12 | Karnataka | 1209136 | 1357579 | 1544399 | 1699115 |
| 13 | Kerala | 634886 | 701577 | 781653 | NA |
| 14 | Madhya Pradesh | 649823 | 724729 | 809592 | 906672 |
| 15 | Maharashtra | 2188532 | 2411600 | NA | NA |
| 16 | Manipur | 21294 | 23835 | 26249 | NA |
| 17 | Meghalaya | 27439 | 30790 | 34389 | 38542 |
| 18 | Mizoram | 17192 | 18737 | 19428 | 22630 |
| 19 | Nagaland | 21722 | 24492 | 27283 | NA |
| 20 | Odisha | 393562 | 434769 | 495840 | 533822 |
| 21 | Punjab | 426988 | 478636 | 527120 | NA |
| 22 | Rajasthan | 760750 | 835170 | 942586 | 1020989 |
| 23 | Sikkim | 20687 | 23495 | 26786 | NA |
| 24 | Tamil Nadu | 1302639 | 1461841 | 1664159 | 1854952 |
| 25 | Telangana | 658325 | 753127 | 861031 | 969604 |
| 26 | Tripura | 39479 | 44219 | 50398 | NA |
| 27 | Uttar Pradesh | 1290289 | 1460443 | 1668229 | 1794508 |
| 28 | Uttarakhand | 195125 | 222836 | 245895 | NA |
| 29 | West Bengal | 872527 | 999585 | 1177586 | NA |
| 30 | Andaman & Nicobar Islands | 6836 | 7871 | NA | NA |
| 31 | Chandigarh | 32734 | 38760 | 43227 | NA |
| 32 | Delhi | 616085 | 686824 | 774870 | 856112 |
| 33 | Puducherry | 29573 | 32962 | 36656 | 40802 |

N.A.=Not Available

विवरण 3.2

भारतीय संघ एवं राज्यों के सकल घरेलू उत्पाद
(स्थिर (2011-12) भावों पर)

(₹ करोड़)

| सं.क्रं. | भारतीय संघ/राज्य | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 379402 | 380629 | 407115 | 444564 | 498606 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 11063 | 11299 | 12338 | 14383 | 14240 |
| 3 | आसाम | 143175 | 147342 | 154525 | 165212 | 191109 |
| 4 | बिहार | 247144 | 256851 | 269650 | 279482 | 296488 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 158074 | 165977 | 182579 | 185813 | 191020 |
| 6 | गोवा | 42367 | 35850 | 31568 | 40116 | 46091 |
| 7 | गुजरात | 615606 | 682650 | 734284 | 811428 | 894465 |
| 8 | हरियाणा | 297539 | 320912 | 347507 | 370535 | 413405 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 72720 | 77384 | 82847 | 89060 | 96274 |
| 10 | जम्मू व कश्मीर | 78256 | 80767 | 85115 | 82372 | 97001 |
| 11 | झारखण्ड | 150918 | 163250 | 165816 | 186534 | 174881 |
| 12 | कर्नाटक | 606010 | 643033 | 704466 | 748429 | 831330 |
| 13 | केरल | 364048 | 387693 | 402781 | 419956 | 451210 |
| 14 | मध्यप्रदेश | 315562 | 351683 | 365134 | 383944 | 418736 |
| 15 | महाराष्ट्र | 1280369 | 1357942 | 1451615 | 1543165 | 1654209 |
| 16 | मणीपुर | 12915 | 12993 | 14115 | 15245 | 16424 |
| 17 | मेघालय | 19918 | 20354 | 20726 | 20140 | 20638 |
| 18 | मिजोरम | 7259 | 7778 | 9038 | 11261 | 12324 |
| 19 | नागालैण्ड | 12177 | 12868 | 13793 | 14399 | 14660 |
| 20 | उड़ीसा | 230987 | 243363 | 265892 | 270665 | 292229 |
| 21 | पंजाब | 266628 | 280823 | 299450 | 312125 | 330052 |
| 22 | राजस्थान | 434837 | 454564 | 486230 | 521509 | 563340 |
| 23 | सिक्किम | 11165 | 11421 | 12114 | 13071 | 14370 |
| 24 | तमिलनाडू | 751486 | 791824 | 851976 | 893915 | 967562 |
| 25 | तेलंगाना | 359434 | 370113 | 389957 | 416332 | 464542 |
| 26 | त्रिपुरा | 19208 | 20873 | 22819 | 26965 | 26787 |
| 27 | उत्तरप्रदेश | 724050 | 758205 | 802070 | 834432 | 908241 |
| 28 | उत्तराखण्ड | 115328 | 123710 | 134182 | 141278 | 152699 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 520485 | 542191 | 558497 | 574364 | 609545 |
| 30 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3978 | 4156 | 4488 | 4742 | 5092 |
| 31 | चण्डीगढ़ | 18768 | 20285 | 22105 | 22870 | 24932 |
| 32 | दिल्ली | 343798 | 366628 | 392908 | 428355 | 475623 |
| 33 | पांडुचेरी | 16818 | 17310 | 19170 | 18207 | 19060 |

निरंतर.....

Statement 3.2

**Gross Domestic Product of States and Indian Union
(at constant (2011-12) prices)**

(₹ crore)

| S No. | State\ Indian Union | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|-----------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Andhra Pradesh | 540212 | 594841 | 621301 | NA |
| 2 | Arunachal Pradesh | 14746 | 15944 | 16676 | NA |
| 3 | Assam | 202081 | 228714 | 246938 | NA |
| 4 | Bihar | 323004 | 356768 | 394350 | NA |
| 5 | Chhattisgarh | 207326 | 218539 | 231820 | NA |
| 6 | Goa | 51482 | 56742 | 66611 | NA |
| 7 | Gujarat | 981342 | 1089811 | 1190121 | NA |
| 8 | Haryana | 456659 | 494068 | 531085 | 572240 |
| 9 | Himachal Pradesh | 103055 | 110034 | 117851 | 124403 |
| 10 | Jammu & Kashmir | 100730 | 106506 | 112885 | NA |
| 11 | Jharkhand | 193174 | 217618 | 232821 | NA |
| 12 | Karnataka | 942221 | 1043533 | 1124423 | 1201031 |
| 13 | Kerala | 485302 | 520579 | 559412 | NA |
| 14 | Madhya Pradesh | 470669 | 493516 | 522009 | 561801 |
| 15 | Maharashtra | 1806581 | 1942769 | NA | NA |
| 16 | Manipur | 17082 | 17744 | 18888 | NA |
| 17 | Meghalaya | 21730 | 23742 | 25890 | 28344 |
| 18 | Mizoram | 13595 | 14248 | 14433 | 16113 |
| 19 | Nagaland | 15650 | 16485 | 17647 | NA |
| 20 | Odisha | 337696 | 359050 | 387403 | 411265 |
| 21 | Punjab | 352721 | 375238 | 397669 | NA |
| 22 | Rajasthan | 597267 | 633278 | 677428 | 711627 |
| 23 | Sikkim | 15397 | 16467 | 17629 | NA |
| 24 | Tamil Nadu | 1036762 | 1116334 | 1207526 | 1295292 |
| 25 | Telangana | 507946 | 559492 | 612828 | 663258 |
| 26 | Tripura | 30538 | 33645 | 37295 | NA |
| 27 | Uttar Pradesh | 1007010 | 1079879 | 1137469 | 1187277 |
| 28 | Uttarakhand | 167703 | 180844 | 193273 | NA |
| 29 | West Bengal | 653416 | 711408 | 800913 | NA |
| 30 | Andaman & Nicobar Islands | 5752 | 6482 | NA | NA |
| 31 | Chandigarh | 27214 | 30402 | 32398 | NA |
| 32 | Delhi | 511765 | 548304 | 590569 | 634408 |
| 33 | Puducherry | 20478 | 22489 | 24442 | 26526 |

N.A.=Not Available

विवरण 3.3

भारतीय संघ एवं राज्यों के निवल घरेलू उत्पाद
(प्रचलित भावों पर)

(₹ करोड़)

| सं.क्रं. | भारतीय संघ/राज्य | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 339996 | 370196 | 413164 | 470934 | 544827 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 10229 | 11617 | 13377 | 16495 | 16986 |
| 3 | आसाम | 129354 | 142039 | 160442 | 172849 | 201309 |
| 4 | बिहार | 228497 | 261327 | 292143 | 315732 | 340119 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 142273 | 159431 | 186050 | 197314 | 202299 |
| 6 | गोवा | 38009 | 34567 | 32043 | 43233 | 50354 |
| 7 | गुजरात | 532809 | 634572 | 707456 | 804764 | 893997 |
| 8 | हरियाणा | 271152 | 314353 | 362196 | 392950 | 446059 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 60536 | 69432 | 80129 | 87345 | 96851 |
| 10 | जम्मू व कश्मीर | 67274 | 72996 | 79692 | 81037 | 98409 |
| 11 | झारखण्ड | 137383 | 160304 | 172030 | 200357 | 187479 |
| 12 | कर्नाटक | 554952 | 635924 | 746569 | 825782 | 950866 |
| 13 | केरल | 328021 | 371384 | 417265 | 460614 | 505910 |
| 14 | मध्यप्रदेश | 282371 | 333937 | 393115 | 429027 | 486034 |
| 15 | महाराष्ट्र | 1126595 | 1282180 | 1448720 | 1553217 | 1735230 |
| 16 | मणीपुर | 11501 | 12188 | 14440 | 16275 | 17493 |
| 17 | मेघालय | 18028 | 19653 | 20415 | 20697 | 22516 |
| 18 | मिजोरम | 6404 | 7375 | 8989 | 12067 | 13595 |
| 19 | नागालैण्ड | 10554 | 12318 | 14545 | 16104 | 17128 |
| 20 | उड़ीसा | 204226 | 233312 | 260977 | 274923 | 283979 |
| 21 | पंजाब | 239227 | 267116 | 297908 | 316745 | 350011 |
| 22 | राजस्थान | 395331 | 446382 | 494236 | 551517 | 610713 |
| 23 | सिक्किम | 9742 | 10817 | 12203 | 13556 | 15743 |
| 24 | तमिलनाडू | 674478 | 768295 | 858870 | 957350 | 1057084 |
| 25 | तेलंगाना | 325139 | 364030 | 408282 | 456280 | 522994 |
| 26 | त्रिपुरा | 17419 | 19631 | 23329 | 26643 | 32476 |
| 27 | उत्तरप्रदेश | 645132 | 732995 | 833825 | 891798 | 1009386 |
| 28 | उत्तराखण्ड | 101960 | 117041 | 131814 | 143789 | 158277 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 473205 | 539618 | 617470 | 651492 | 725992 |
| 30 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3404 | 3793 | 4288 | 4915 | 5359 |
| 31 | चण्डीगढ़ | 16930 | 19507 | 22308 | 23662 | 25991 |
| 32 | दिल्ली | 314650 | 357400 | 404841 | 448487 | 500524 |
| 33 | पांडुचेरी | 15160 | 16984 | 19778 | 20143 | 24303 |

निरंतर.....

Statement 3.3

**Net Domestic Product of States and Indian Union
(at current prices)**

(₹ crore)

| S No. | State\ Indian Union | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|-------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Andhra Pradesh | 612349 | 712939 | 776140 | NA |
| 2 | Arunachal Pradesh | 18153 | 20558 | 22488 | NA |
| 3 | Assam | 222397 | 251520 | 281786 | NA |
| 4 | Bihar | 388144 | 445942 | 513881 | NA |
| 5 | Chhattisgarh | 228514 | 254925 | 279441 | NA |
| 6 | Goa | 57932 | 64421 | 70396 | NA |
| 7 | Gujarat | 1016683 | 1140782 | 1318627 | NA |
| 8 | Haryana | 507462 | 588274 | 666075 | 755790 |
| 9 | Himachal Pradesh | 108359 | 119362 | 133303 | 143063 |
| 10 | Jammu & Kashmir | 105106 | 114586 | 129223 | NA |
| 11 | Jharkhand | 216791 | 254285 | 283657 | NA |
| 12 | Karnataka | 1104165 | 1238412 | 1409126 | 1550297 |
| 13 | Kerala | 570591 | 632727 | 707542 | NA |
| 14 | Madhya Pradesh | 590669 | 658145 | 737156 | 827019 |
| 15 | Maharashtra | 1944953 | 2139378 | NA | NA |
| 16 | Manipur | 19132 | 21416 | 23555 | NA |
| 17 | Meghalaya | 24641 | 27679 | 31043 | 34961 |
| 18 | Mizoram | 15431 | 16733 | 17414 | 20316 |
| 19 | Nagaland | 19174 | 21742 | 24534 | NA |
| 20 | Odisha | 343090 | 379057 | 431255 | 465035 |
| 21 | Punjab | 384197 | 430623 | 474595 | NA |
| 22 | Rajasthan | 682788 | 748555 | 845247 | 916014 |
| 23 | Sikkim | 18163 | 20709 | 23604 | NA |
| 24 | Tamil Nadu | 1171973 | 1315577 | 1499331 | 1673253 |
| 25 | Telangana | 597812 | 683729 | 782370 | 881873 |
| 26 | Tripura | 35668 | 39939 | 45501 | NA |
| 27 | Uttar Pradesh | 1147209 | 1298980 | 1491311 | 1603083 |
| 28 | Uttarakhand | 175178 | 200844 | 221871 | NA |
| 29 | West Bengal | 794033 | 913266 | 1077725 | NA |
| 30 | Andaman & Nicobar Islands | 6048 | 7041 | NA | NA |
| 31 | Chandigarh | 29139 | 34475 | 38847 | NA |
| 32 | Delhi | 558546 | 620720 | 704529 | 779647 |
| 33 | Puducherry | 27073 | 30212 | 33598 | 37134 |

N.A.=Not Available

विवरण 3.4

भारतीय संघ एवं राज्यों के निवल घरेलू उत्पाद
(स्थिर (2011-12) भावों पर)

(₹ करोड़)

| सं.क्रं. | भारतीय संघ/राज्य | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 339996 | 341335 | 360239 | 397064 | 446997 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 10229 | 10399 | 11225 | 13082 | 12889 |
| 3 | आसाम | 129354 | 132518 | 138725 | 146425 | 167629 |
| 4 | बिहार | 228497 | 236933 | 246915 | 255739 | 269200 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 142273 | 148760 | 163494 | 165354 | 169076 |
| 6 | गोवा | 38009 | 32453 | 27971 | 36042 | 41929 |
| 7 | गुजरात | 532809 | 596659 | 641489 | 705629 | 774775 |
| 8 | हरियाणा | 271152 | 289756 | 314931 | 333359 | 372659 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 60536 | 64519 | 69398 | 74553 | 80563 |
| 10 | जम्मू व कश्मीर | 67274 | 67316 | 70536 | 67154 | 80602 |
| 11 | झारखण्ड | 137383 | 149526 | 150609 | 170568 | 158231 |
| 12 | कर्नाटक | 554952 | 586552 | 639940 | 671283 | 749952 |
| 13 | केरल | 328021 | 348616 | 364707 | 382134 | 411150 |
| 14 | मध्यप्रदेश | 282371 | 306853 | 322598 | 339247 | 370716 |
| 15 | महाराष्ट्र | 1126595 | 1189711 | 1267551 | 1345341 | 1452439 |
| 16 | मणीपुर | 11501 | 11515 | 12519 | 13615 | 14635 |
| 17 | मेघालय | 18028 | 18323 | 18397 | 17893 | 18330 |
| 18 | मिजोरम | 6404 | 6836 | 7831 | 9960 | 10948 |
| 19 | नागालैण्ड | 10554 | 11163 | 11923 | 12406 | 12600 |
| 20 | उड़ीसा | 204226 | 216301 | 233122 | 235931 | 253192 |
| 21 | पंजाब | 239227 | 251813 | 267515 | 278485 | 294895 |
| 22 | राजस्थान | 395331 | 409802 | 434292 | 465408 | 501922 |
| 23 | सिक्किम | 9742 | 9970 | 10590 | 11437 | 12484 |
| 24 | तमिलनाडू | 674478 | 709343 | 750416 | 791915 | 862437 |
| 25 | तेलंगाना | 325139 | 334205 | 349593 | 372897 | 416892 |
| 26 | त्रिपुरा | 17419 | 18857 | 20623 | 24407 | 23745 |
| 27 | उत्तरप्रदेश | 645132 | 673552 | 707469 | 729686 | 792049 |
| 28 | उत्तराखण्ड | 101960 | 109529 | 117777 | 125702 | 136144 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 473205 | 492901 | 503952 | 515702 | 546988 |
| 30 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 3404 | 3558 | 3811 | 4151 | 4483 |
| 31 | चण्डीगढ़ | 16930 | 18305 | 19813 | 20353 | 22058 |
| 32 | दिल्ली | 314650 | 334193 | 356528 | 387639 | 431730 |
| 33 | पांडुचेरी | 15160 | 15507 | 17239 | 16055 | 17025 |

निरंतर.....

Statement 3.4

**Net Domestic Product of States and Indian Union
(at constant (2011-12) prices)**

(₹ crore)

| S No. | State\ Indian Union | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|-------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1 | Andhra Pradesh | 477566 | 526813 | 550584 | NA |
| 2 | Arunachal Pradesh | 13249 | 14326 | 15013 | NA |
| 3 | Assam | 179632 | 193399 | 207600 | NA |
| 4 | Bihar | 293471 | 324395 | 359030 | NA |
| 5 | Chhattisgarh | 184212 | 194554 | 206015 | NA |
| 6 | Goa | 46604 | 51519 | 60970 | NA |
| 7 | Gujarat | 843930 | 938489 | 1038445 | NA |
| 8 | Haryana | 412006 | 444676 | 477834 | 514983 |
| 9 | Himachal Pradesh | 88112 | 94495 | 101534 | 107171 |
| 10 | Jammu & Kashmir | 83167 | 87313 | 93071 | NA |
| 11 | Jharkhand | 176363 | 199148 | 213274 | NA |
| 12 | Karnataka | 851841 | 943594 | 1016514 | 1085599 |
| 13 | Kerala | 443615 | 477275 | 513322 | NA |
| 14 | Madhya Pradesh | 419465 | 437442 | 461903 | 496798 |
| 15 | Maharashtra | 1595514 | 1714790 | NA | NA |
| 16 | Manipur | 15201 | 15701 | 16689 | NA |
| 17 | Meghalaya | 19295 | 21089 | 23092 | 25403 |
| 18 | Mizoram | 12029 | 12515 | 12699 | 14160 |
| 19 | Nagaland | 13488 | 14218 | 15381 | NA |
| 20 | Odisha | 293696 | 311696 | 336820 | 357606 |
| 21 | Punjab | 315783 | 334889 | 354830 | NA |
| 22 | Rajasthan | 530172 | 560787 | 600433 | 630693 |
| 23 | Sikkim | 13416 | 14352 | 15376 | NA |
| 24 | Tamil Nadu | 922084 | 991597 | 1074145 | 1153546 |
| 25 | Telangana | 455731 | 501140 | 549481 | 594806 |
| 26 | Tripura | 27204 | 29996 | 32609 | NA |
| 27 | Uttar Pradesh | 883962 | 945141 | 995999 | 1039180 |
| 28 | Uttarakhand | 150303 | 162160 | 173211 | NA |
| 29 | West Bengal | 584911 | 638303 | 720531 | NA |
| 30 | Andaman & Nicobar Islands | 5091 | 5763 | NA | NA |
| 31 | Chandigarh | 24099 | 27092 | 29001 | NA |
| 32 | Delhi | 461592 | 492395 | 529739 | 568265 |
| 33 | Puducherry | 18287 | 20147 | 21730 | 23591 |

N.A.=Not Available

विवरण 3.5

भारतीय संघ एवं राज्यों की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद
(प्रचलित भावों पर)

(₹)

| सं.क्रं. | भारतीय संघ/राज्य | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 69000 | 74687 | 82870 | 93903 | 108002 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 73068 | 81353 | 91809 | 110929 | 112046 |
| 3 | आसाम | 41142 | 44599 | 49734 | 52895 | 60817 |
| 4 | बिहार | 21750 | 24487 | 26948 | 28671 | 30404 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 55177 | 60849 | 69880 | 72936 | 73590 |
| 6 | गोवा | 259444 | 234354 | 215776 | 289185 | 334576 |
| 7 | गुजरात | 87481 | 102826 | 113139 | 127017 | 139254 |
| 8 | हरियाणा | 106085 | 121269 | 137770 | 147382 | 164963 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 87721 | 99730 | 114095 | 123299 | 135512 |
| 10 | जम्मू व कश्मीर | 53173 | 56828 | 61108 | 61211 | 73215 |
| 11 | झारखण्ड | 41254 | 47360 | 50006 | 57301 | 52754 |
| 12 | कर्नाटक | 90263 | 102319 | 118829 | 130024 | 148108 |
| 13 | केरल | 97912 | 110314 | 123388 | 135537 | 148133 |
| 14 | मध्यप्रदेश | 38497 | 44773 | 51849 | 55678 | 62080 |
| 15 | महाराष्ट्र | 99564 | 111980 | 125035 | 132476 | 146258 |
| 16 | मणीपुर | 39762 | 41230 | 47798 | 52717 | 55447 |
| 17 | मेघालय | 60013 | 64036 | 65118 | 64638 | 68836 |
| 18 | मिजोरम | 57654 | 65013 | 77584 | 103049 | 114055 |
| 19 | नागालैण्ड | 53010 | 61225 | 71510 | 78367 | 82466 |
| 20 | उड़ीसा | 48370 | 54703 | 60574 | 63169 | 64595 |
| 21 | पंजाब | 85577 | 94318 | 103831 | 108970 | 118858 |
| 22 | राजस्थान | 57192 | 63658 | 69480 | 76429 | 83426 |
| 23 | सिक्किम | 158667 | 174183 | 194624 | 214148 | 245987 |
| 24 | तमिलनाडू | 92984 | 104943 | 116236 | 128372 | 140441 |
| 25 | तेलंगाना | 91121 | 101007 | 112162 | 124104 | 140840 |
| 26 | त्रिपुरा | 47079 | 52434 | 61570 | 69474 | 83680 |
| 27 | उत्तरप्रदेश | 32002 | 35812 | 40124 | 42267 | 47118 |
| 28 | उत्तराखण्ड | 100305 | 113610 | 126247 | 135881 | 147592 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 51543 | 58195 | 65932 | 68876 | 75992 |
| 30 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 88177 | 96027 | 106401 | 119291 | 126995 |
| 31 | चण्डीगढ़ | 159116 | 180624 | 203542 | 212786 | 230417 |
| 32 | दिल्ली | 185001 | 205568 | 227900 | 247209 | 270261 |
| 33 | पांडुचेरी | 119649 | 130548 | 148147 | 146921 | 172727 |

निरंतर.....

Statement 3.5

**Per Capita Net State Domestic Product of States and Indian Union
(at current prices)**

(₹)

| S No. | State\ Indian Union | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|-------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Andhra Pradesh | 120676 | 139680 | 151173 | NA |
| 2 | Arunachal Pradesh | 117344 | 130197 | 139588 | NA |
| 3 | Assam | 66330 | 74184 | 82078 | NA |
| 4 | Bihar | 34156 | 38631 | 43822 | NA |
| 5 | Chhattisgarh | 81808 | 89813 | 96887 | NA |
| 6 | Goa | 382140 | 422155 | 458304 | NA |
| 7 | Gujarat | 156295 | 173079 | 197447 | NA |
| 8 | Haryana | 185050 | 211526 | 236147 | 264207 |
| 9 | Himachal Pradesh | 150290 | 165025 | 183108 | 195255 |
| 10 | Jammu & Kashmir | 77023 | 82710 | 91882 | NA |
| 11 | Jharkhand | 60018 | 69265 | 76019 | NA |
| 12 | Karnataka | 170133 | 188765 | 212477 | 231246 |
| 13 | Kerala | 166246 | 183435 | 204105 | NA |
| 14 | Madhya Pradesh | 74324 | 81642 | 90165 | 99763 |
| 15 | Maharashtra | 162005 | 176102 | NA | NA |
| 16 | Manipur | 59345 | 65008 | 69978 | NA |
| 17 | Meghalaya | 73753 | 81098 | 89024 | 98151 |
| 18 | Mizoram | 127107 | 135381 | 138401 | 158621 |
| 19 | Nagaland | 92315 | 104681 | 116882 | NA |
| 20 | Odisha | 77255 | 84496 | 95164 | 101587 |
| 21 | Punjab | 128780 | 142477 | 154996 | NA |
| 22 | Rajasthan | 91946 | 99366 | 110606 | 118159 |
| 23 | Sikkim | 280729 | 317134 | 357643 | NA |
| 24 | Tamil Nadu | 154272 | 171583 | 193750 | 214237 |
| 25 | Telangana | 159395 | 180494 | 204488 | 228216 |
| 26 | Tripura | 90827 | 100477 | 113102 | NA |
| 27 | Uttar Pradesh | 52744 | 58821 | 66512 | 70419 |
| 28 | Uttarakhand | 161172 | 182320 | 198738 | NA |
| 29 | West Bengal | 82291 | 93711 | 109491 | NA |
| 30 | Andaman & Nicobar Islands | 140335 | 159664 | NA | NA |
| 31 | Chandigarh | 254263 | 296434 | 329209 | NA |
| 32 | Delhi | 295558 | 322000 | 358430 | 389143 |
| 33 | Puducherry | 187357 | 203583 | 220461 | 237279 |

N.A.=Not Available

विवरण 3.6

भारतीय संघ एवं राज्यों की प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद
(स्थिर (2011-12) भावों पर)

(₹)

| सं.क्रं. | भारतीय संघ/राज्य | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|----------|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | आंध्र प्रदेश | 69000 | 68865 | 72254 | 79174 | 88609 |
| 2 | अरुणाचल प्रदेश | 73068 | 72820 | 77044 | 87973 | 85020 |
| 3 | आसाम | 41142 | 41609 | 43002 | 44809 | 50642 |
| 4 | बिहार | 21750 | 22201 | 22776 | 23223 | 24064 |
| 5 | छत्तीसगढ़ | 55177 | 56777 | 61409 | 61122 | 61504 |
| 6 | गोवा | 259444 | 220019 | 188358 | 241081 | 278601 |
| 7 | गुजरात | 87481 | 96683 | 102589 | 111370 | 120683 |
| 8 | हरियाणा | 106085 | 111780 | 119791 | 125032 | 137818 |
| 9 | हिमाचल प्रदेश | 87721 | 92672 | 98816 | 105241 | 112723 |
| 10 | जम्मू व कश्मीर | 53173 | 52406 | 54088 | 50724 | 59967 |
| 11 | झारखण्ड | 41254 | 44176 | 43779 | 48781 | 44524 |
| 12 | कर्नाटक | 90263 | 94375 | 101858 | 105697 | 116813 |
| 13 | केरल | 97912 | 103551 | 107846 | 112444 | 120387 |
| 14 | मध्यप्रदेश | 38497 | 41142 | 42548 | 44027 | 47351 |
| 15 | महाराष्ट्र | 99564 | 103904 | 109399 | 114746 | 122422 |
| 16 | मणीपुर | 39762 | 38954 | 41441 | 44101 | 46389 |
| 17 | मेघालय | 60013 | 59703 | 58681 | 55880 | 56039 |
| 18 | मिजोरम | 57654 | 60261 | 67594 | 85056 | 91845 |
| 19 | नागालैण्ड | 53010 | 55482 | 58619 | 60372 | 60663 |
| 20 | उड़ीसा | 48370 | 50714 | 54109 | 54210 | 57592 |
| 21 | पंजाब | 85577 | 88915 | 93238 | 95807 | 100141 |
| 22 | राजस्थान | 57192 | 58441 | 61053 | 64496 | 68565 |
| 23 | सिक्किम | 158667 | 160553 | 168897 | 180675 | 195066 |
| 24 | तमिलनाडू | 92984 | 96890 | 101559 | 106189 | 114581 |
| 25 | तेलंगाना | 91121 | 92732 | 96039 | 101424 | 112267 |
| 26 | त्रिपुरा | 47079 | 50366 | 54429 | 63642 | 61183 |
| 27 | उत्तरप्रदेश | 32002 | 32908 | 34044 | 34583 | 36973 |
| 28 | उत्तराखण्ड | 100305 | 106318 | 112803 | 118788 | 126952 |
| 29 | पश्चिम बंगाल | 51543 | 53157 | 53811 | 54520 | 57255 |
| 30 | अंडमान व निकोबार द्वीप समूह | 88177 | 90064 | 94570 | 100754 | 106237 |
| 31 | चण्डीगढ़ | 159116 | 169493 | 180780 | 183031 | 195551 |
| 32 | दिल्ली | 185001 | 192220 | 200702 | 213669 | 233115 |
| 33 | पांडुचेरी | 119649 | 119196 | 129127 | 117102 | 121000 |

निरंतर.....

Statement 3.6

**Per Capita Net State Domestic Product of States and Indian Union
(at constant (2011-12) prices)**

(₹)

| S No. | State\ Indian Union | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 |
|-------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Andhra Pradesh | 94115 | 103214 | 107241 | NA |
| 2 | Arunachal Pradesh | 85644 | 90727 | 93191 | NA |
| 3 | Assam | 53575 | 57042 | 60470 | NA |
| 4 | Bihar | 25825 | 28101 | 30617 | NA |
| 5 | Chhattisgarh | 65948 | 68543 | 71429 | NA |
| 6 | Goa | 307412 | 337606 | 396943 | NA |
| 7 | Gujarat | 129738 | 142387 | 155493 | NA |
| 8 | Haryana | 150241 | 159892 | 169409 | 180026 |
| 9 | Himachal Pradesh | 122208 | 130644 | 139469 | 146268 |
| 10 | Jammu & Kashmir | 60946 | 63024 | 66177 | NA |
| 11 | Jharkhand | 48826 | 54246 | 57157 | NA |
| 12 | Karnataka | 131254 | 143827 | 153276 | 161931 |
| 13 | Kerala | 129251 | 138368 | 148078 | NA |
| 14 | Madhya Pradesh | 52782 | 54264 | 56498 | 59929 |
| 15 | Maharashtra | 132899 | 141152 | NA | NA |
| 16 | Manipur | 47151 | 47661 | 49579 | NA |
| 17 | Meghalaya | 57752 | 61789 | 66223 | 71318 |
| 18 | Mizoram | 99089 | 101252 | 100934 | 110557 |
| 19 | Nagaland | 64939 | 68456 | 73276 | NA |
| 20 | Odisha | 66133 | 69480 | 74325 | 78119 |
| 21 | Punjab | 105848 | 110802 | 115882 | NA |
| 22 | Rajasthan | 71394 | 74441 | 78570 | 81355 |
| 23 | Sikkim | 207355 | 219792 | 232968 | NA |
| 24 | Tamil Nadu | 121378 | 129328 | 138805 | 147696 |
| 25 | Telangana | 121512 | 132293 | 143618 | 153927 |
| 26 | Tripura | 69273 | 75462 | 81057 | NA |
| 27 | Uttar Pradesh | 40641 | 42798 | 44421 | 45648 |
| 28 | Uttarakhand | 138286 | 147204 | 155151 | NA |
| 29 | West Bengal | 60618 | 65497 | 73202 | NA |
| 30 | Andaman & Nicobar Islands | 118112 | 130670 | NA | NA |
| 31 | Chandigarh | 210291 | 232947 | 245769 | NA |
| 32 | Delhi | 244255 | 255431 | 269505 | 283636 |
| 33 | Puducherry | 126556 | 135763 | 142583 | 150744 |

N.A.=Not Available

Blank

कार्यपद्धति
Methodology

Blank

GROSS VALUE ADDED AT BASIC PRICES

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|-------------------------------------|--|---|--|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Agriculture (Crop Sector) | | | | |
| (a) Value of output | | | | |
| (1) Major and minor crops | | | | |
| (i) Major crops | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: Directorate of Economics and Statistics, M/o Agriculture (DESAg) ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (ii) Minor Crops | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: Horticulture Statistics Division (DAC, M/o Agriculture) & State DESs ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (iii) Small Millets | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: DESAg ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | Price = 75% of weighted average price of jowar, bajra, barley, maize and ragi in the reference year |
| (iv) Other Pulses | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: DESAg and State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | Price = 85% of weighted average price of arhar, urad, moong, masur and horsegram in reference year |
| (2) Commercial Crops | | | | |
| (i) Tea | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production of processed tea: Tea Board ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production of Raw tea * current year price | Value of output = current year production of Raw tea * base year price | Production of Raw tea = processed tea / 0.225 |
| (ii) Coffee | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: Coffee Board ◆ State DESs (prices) | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|---|--|---|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (iii) Rubber | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: Rubber Board ◆ Prices : State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (iv) Cashew Nuts And Cocoa | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: Directorate of Cashewnut and Cocoa Development Board ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (v) Horticulture Crops: | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: Horticulture Statistics Division (DAC, M/o Agriculture) ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (vi) Opium | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production and Prices: Central Bureau of Narcotics | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (vii) Arecanut | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: Directorate of Arecanut and Spices Development ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (viii) Flowers (separately for cut flowers and spike) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: Horticulture Statistics Division (DAC, M/o Agriculture) ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (3) Miscellaneous Crops | | | | |
| (i) Other Cereals | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Area: LUS from DES Ag / State DESs | Value of output = area * current year value per hectare (VPH) | Value of output = area * base year value per hectare | Value per hectare = weighted average of value per hectare of the crops: jowar, bajra, barley, maize and ragi in reference year |
| (ii) Other Sugars (excluding Palmyra) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Area: LUS from DES Ag / State DESs | Value of output = area * current year value per hectare | Value of output = area * base year value per hectare | Value per hectare = 0.90* VPH of the crop sugarcane in reference year |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|---|--|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (iii) Other Oilseeds (excluding Taramira) | ♦ Area: LUS from DES Ag / State DESs | Value of output = area * current year value per hectare | Value of output = area * base year value per hectare | Value per hectare = 0.85 * weighted average of value per hectare of linseed, sesamum, castorseed, nigerseed and safflower in reference year |
| (iv) Other Fibres | ♦ Area: LUS from DES Ag / State DESs | Value of output = area * current year value per hectare | Value of output = area * base year value per hectare | Value per hectare = 0.90* weighted average of value per hectare of sanhep and mesta in reference year |
| (v) Other Drugs and Narcotics | ♦ Area: LUS from DES Ag / State DESs | Value of output = area * current year value per hectare | Value of output = area * base year value per hectare | Value per hectare = 0.90* weighted average of value per hectare of opium (Madhya Pradesh & Rajasthan) and tobacco & tobacco stem (other states) in reference year |
| (vi) Other Condiments and Spices | ♦ Area: LUS from DES Ag / State DESs | Value of output = area * current year value per hectare | Value of output = area * base year value per hectare | Value per hectare = 0.90* weighted average of value per hectare of dry chillies, dry ginger, cardamom and black pepper in reference year. |
| (vii) Other Fruits | ♦ Production: Horticulture Statistics Division (DAC, M/o Agriculture) | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | Price = weighted average price of all fruits for which separate data is available in reference year. |
| (viii) Other Vegetables | ♦ Production: Horticulture Statistics Division (DAC, | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | Price = weighted average price of all vegetable for |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|-------------------|--|---|--|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | M/o Agriculture) | | | which separate data is available in reference year. |
| (ix) Tobacco stem | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production of tobacco leaves: DES Ag / State DESs ◆ Prices of tobacco leaves: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | Production= 86.63% of production of tobacco leaves and Price=50% of the price of tobacco leaves |
| (x) Toddy | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MPCE of Toddy: NSS 68 Round CES, 2011-12 ◆ Rural and urban population: Population Census 2011 ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | Value of output= estimate at constant price * (WPI (non-food articles) current/ WPI (non-food articles) base) | Value of output= value of consumption of todody per annum per person in the base year * population in the current year | Value of consumption of todody per annum per person in the base year = Monthly Per Capita expenditure of todody in the base year (year of survey) *(365/30) |
| (xi) Fodder | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Total and irrigated area under fodder crops: DES Ag and State DESs ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | Production =irrigated area under fodder crops (in ha)* (50MT/ha) + un-irrigated area under fodder crops (in ha) *(25MT/ha) (Yield rates based on a study conducted by Socio-Economic Research Centre) |
| (xii) Grass | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Area: LUS from DES Ag / State DESs ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | Production = total area (4* area under permanent pastures +1* miscellaneous tree crops + 2* culturable waste + 2* fallow lands + 1* net area sown) * state-wise yield rates (based on NSS |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|---|--|----------|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | results) |
| (xiii) Mulberry | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production and prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (xiv) Miscellaneous food And non-food Crops | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Area: LUS from State DESs ◆ Value per hectare: State DESs | Value of output = area * Value per hectare in current year | Value of output = area * Value per hectare in the base year | |
| (4) By products | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Area: LUS from DES Ag / State DESs ◆ Value per hectare: CCS from DES Ag/State DESs (except for poppy husk and poppy seed). ◆ Value of poppy husk and poppy seed are made available by State DESs ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | Value of output = area * Value per hectare in current year In case CCS is not available for the current year, Value per hectare of current year = Value per hectare of reported year from CCS * (WPI current/WPI reported year) of respective crop. | Value of output = area * Value per hectare in base year as per CCS 2011-12 | |
| (5) Other products | | | | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--------------|---|---|---|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (i) Gur | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production and Seed Rates: DESAg ◆ Quantity of sugar cane crushed by factories: Dte. of Sugar, M/o Consumer Affairs, Food and Public Distribution ◆ Quantity of sugarcane used in manufacture of khandsari in manufacturing sector: ASI & NSS Survey of manufacturing enterprises (non-ASI) ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production of Gur * current year price | Value of output = current year production of Gur *base year price | Rates assumed - <ul style="list-style-type: none"> ◆ State-wise percentage (9-10%) of quantity of sugar cane retained for gur making ◆ State-wise percentage of sugar cane used for chewing ◆ State-wise quantity of sugar cane used for seed based on latest CCS ◆ State-wise percentage of sugarcane used for manufacture of khandsari. Quantity of sugarcane retained for gur making =total sugarcane production – sugarcane used for chewing, seed, crushed by factories and Khandsari |
| (ii) Palmyra | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production and prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|---|--|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (iii) Bagasse | <ul style="list-style-type: none"> Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | Based on a study conducted by Socio-Economic Research Centre, production of bagasse = 3.5% * sugar cane used for gur making |
| (iv) Foreyard and Backyard farming (kitchen garden i.e. Homestead land raising for crop and having area less than 0.01 H) | <ul style="list-style-type: none"> Net sown area: LUS from DES Ag / State DESs | Value of output = Area under Foreyard and Backyard farming (kitchen garden) * value of output per hectare of fruits and vegetables in current year | Value of output = Area under Foreyard and Backyard farming (kitchen garden) * value of output per hectare of fruits and vegetable, in the base year | Based on NSS Survey on Land & Livestock Holdings, Area under Foreyard and Backyard farming (kitchen garden)= 0.21% of net sown area |
| (b) Inputs (Crop Sector) | | | | |
| (1) Seed | | | | |
| (i) Wheat, Jowar, Bajra, Barley, Maize, Ragi, Small Millets, Gram, Arhar, Urad, Moong, Masoor, Linseed, Sesamum, Groundnut, Rapeseed & Mustard, Castor, Black Pepper and Turmeric | <ul style="list-style-type: none"> Seed rate, seed replacement rate, area: CCS from DESAg Area under the crop, prices: State DESs WPI: M/o Commerce and Industry | Value of Seed = Value of improved variety of Seed at current year prices + Value of harvested Grains retained for Seed at current year prices | Value of Seed inputs= Value of improved variety of Seed at base year prices + Value of harvested Grains retained for Seed at base year prices | Value of improved variety of Seed=Seed Rate*(Irrigated Area*Seed Replacement Rate)*CCS Seed Price for current/base year; WPI is used for extrapolation till CCS becomes available Value of harvested Grains retained for Seed= Seed Rate*{Irrigated Area*(100-Seed Replacement Rate) + Un-irrigated area}*Farm |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|--|---|--|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | Harvest Price of respective crop for current/base year |
| (ii) Paddy, Sugarcane and Potato | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Seed Rate, Seed Price: CCS from DESAg ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | <p>Value of Seed = Area * VPH (Seed Rate*CCS Seed Price) for current year; In case CCS is not available for the current year, Value per hectare of current year = Value per hectare of reported year from CCS * (WPI current/WPI reported year) of respective crop.</p> | Value of Seed inputs= Area * VPH (Seed Rate*CCS Seed Price) for base year. | |
| (iii) Other cereals, other condiments & spices, coconut, miscellaneous food crops | <ul style="list-style-type: none"> ◆ VPH of seed: Study conducted by Directorate of Marketing Inspection (DMI), M/o Agriculture ◆ Area: State DESs ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | Value of seed = Estimate in col. (4) * relevant WPI current/ WPI base | Value of seed = area under the crop in the current year* value of seed per hectare in the base year | |
| (iv) Misc. Non-Food Crops, Tapioca, Fodder, Guar Seed, Cotton, Dry Chillies, Other Vegetables & Dry-ginger | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Value per Hectare (VPH): Benchmark study conducted by State DESs ◆ Area: State DESs ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | Value of inputs = Estimate in col. (4) * relevant WPI current/ WPI base | Value of inputs = (area * Value per Hectare as per Bench mark study)* relevant Wholesale Price Index (WPI) for 2011-12 | Input cost per hectare has remained constant over years, with only price adjustments. |
| (2) Pesticides | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Consumption and prices: Dte. of Quarantine & Plant Protection ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | Value of input = State-wise consumption * current year price; WPI used for extrapolation till current year prices are received | Value of input = State-wise consumption * base year price | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|---|--|--|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (3) Repair & Maintenance for Crop Sector | <ul style="list-style-type: none"> Average cost of Repair and Maintenance on (i) Orchards & Plantation Resources, (ii) Wells & Irrigation, (iii) Agricultural Machinery & Implement and (iv) Transport Equipment: All India Debt and Investment Survey (AIDIS), 2013 | Benchmark/ Base year estimates (as derived from AIDIS, 2013) moved with the estimates of capital stock of farm business at current prices | Benchmark/ Base year estimates (as derived from AIDIS, 2013) moved with the estimates of capital stock of farm business at constant prices | |
| (4) Electricity | <ul style="list-style-type: none"> Consumption of electricity for agricultural purposes and prices: Central Electricity Authority | Value of electricity inputs = electricity consumption in the current year * current year price | Value of electricity inputs = electricity consumption in the current year * base year price | |
| (5) Chemical Fertilisers | <ul style="list-style-type: none"> Consumption and Prices: Fertiliser Association of India | Value of inputs = quantity consumed in the current year * current year price | Value of inputs = quantity consumed in the current year * base year price | |
| (6) Diesel oil | <ul style="list-style-type: none"> Number of tractors: Agriculture Research Data Book, ICAR Number of diesel engines: ILC, 1997 and ILC, 2003 Consumption of diesel oil per diesel engine and per tractor: CCS from DESAg | Value of inputs = no. of diesel engines/tractors in the current year* consumption in value terms per diesel engine/tractor in the current year | Value of inputs = no. of diesel engines/tractors in the current year * consumption in value terms per diesel engine/tractor in the base year | Number of diesel engines/tractors for the years beyond the survey year has been calculated using inter-survey/inter-censal growth rate. |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---------------------------------------|---|---|--|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (7) Irrigation charges | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Receipts of Government from sale of water: State Government Budget ◆ Gross irrigated area: State DESs | Total receipts in the relevant head from sale of water | Gross Irrigated Area through government canals (ha) * Per Hectare receipt from sale of water in base year | |
| (8) Market charges for crops | | Market charges = 3.22% of value of output of crops at current prices | Market charges = 3.22% of value of output of crops at base year prices | An estimated proportion of 3.22% of market charges to value of output has been derived using a survey on market margins conducted by the DESAg during 2004-05 |
| (9) Feed of livestock for Crop Sector | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Age-wise Species-wise Population: ILC, 2003, 2007 and 2012 from DADF ◆ Prices of Dry Fodder, Green Fodder and Concentrates: CCS from DESAg ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | <p>Value of Feed = Per animal annual Consumption rates of Adult Male Cattle & Adult Male Buffalo * Current Year price * population of these categories</p> <p>Current Year price = Base Year Prices of Roughages and Concentrates inflated with growth rate of WPI of Fodder and food grains respectively</p> | <p>Value of Feed = Per animal annual Consumption rates of Adult Male Cattle & Adult Male Buffalo * Base Year price * population of these categories</p> <p>Price: Average price for Dry Fodder, Green Fodder and Concentrates by CCS</p> | Per animal annual Consumption rates of Adult Male Cattle & Adult Male Buffalo have been derived using the study on "India's Livestock Feed Demand: Estimates and Projection" by Centre of Economics and Social Research, New Delhi and National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|--|--|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2. Irrigation System | | | | |
| Operation of Govt. Irrigation system | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget documents of state governments ◆ Annual Reports of NDEs | Estimates of GVA at current prices estimated using production approach. | Base year estimates are moved with the index of area irrigated through government canals | |
| 3. Livestock Products | | | | |
| (a) Value of Output | | | | |
| (i) Milk (Cattle, Buffalo and Goat), Eggs and Wool | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: DADF (Integrated Sample Survey (ISS) for MLP) ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (ii) Camel milk | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: State DESs ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (iii) Duck eggs | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: ISS from DADF, in cases where ISS covers duck eggs ◆ Prices: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | States where ISS does not cover hen eggs – Production= 3.5% of hen eggs in case of Gujarat; Production = 3% of hen eggs in case of Goa, Madhya Pradesh, Mizoram, Daman & Diu, Dadra & Nagar Haveli, Delhi |
| (iv) Meat (Registered + Unregistered) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: ISS from DADF and State DESs ◆ Prices: State DESs | Value of output = production (after adjusting the quantity produced in manufacturing sector)* current year price | Value of output = production (after adjusting the quantity produced in manufacturing sector)* base year price | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|--|--|--|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (v) Meat (Products and by-products) (includes fats, edible offals & glands, hides & skins, heads & legs of slaughtered animals) | | Animal-wise Meat (Product and by-product) estimated as % of Value of Meat at current price | Animal-wise Meat (Product and by-product) estimated as % of Value of Meat at base year price | Proportion of meat taken as meat product and by-product - Cattle (16.0%), Buffalo (14.49%), Goat (21.59%) Sheep (23.05%) and Pig (9.4%) (Based on a study by NRCM on Meat Products and Meat by-products, 2013-14) |
| (vi) Poultry Meat | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Poultry population: ILC, 2003 and ILC, 2012 from DADF ◆ Production of eggs: ISS from DADF ◆ Prices: State DESs | Value of output is estimated separately for four components (a) chicken and ducklings killed, (b) adult fowls killed, (c) adult ducks killed and (d) other poultry killed multiplied by the respective price per bird. | Same procedure as adopted for the current price estimates, but the prices used are the respective base year prices | <p>(a)chickens & ducklings killed = <i>total poultry of current year</i> (chicks survived + 50% of hens & cock population + 50 % of ducks & drakes population + population of chickens & ducklings+ 62.5 % of other poultry) - <i>total poultry of next year</i> (population of hens +cocks + ducks + drakes + chickens + other poultry), <u>where</u> chicks survived = 1/3rd of eggs kept for hatching (eggs kept for hatching = fixed ratio * total egg</p> |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|---|--|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | production) (b) adult fowls killed = 50% of population of hens & cocks (c) adult ducks killed = 50% of population of ducks & drakes (d) other poultry = 37.5 % of other poultry |
| (vii) Fats from Fallen Animals (only for cattle and buffalo) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Mortality rates: DMI reports ◆ Population: ILC, 2003, 2007 and 2012 from DADF | Value of output = Number of Fallen animal * yield rate * current year price | Value of output = Number of Fallen animal * yield rate * base year price | |
| (viii) Cattle hides, Buffalo hides, Goat skin and Sheep skin (fallen animals) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Mortality rates: DMI Reports ◆ Population: ILC, 2003, 2007 and 2012 from DADF | Value of output = Number of Fallen animal * current value of hides/ skin per animal | Value of output = Number of Fallen animal * base year value of hides/ skin per animal | |
| (ix) Camel hair/Goat hair /Pig bristles | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Population: ILC, 2003, 2007 and 2012 from DADF ◆ Yield rates for goat hair: DMI Reports ◆ Prices: State DESS | Value of output = yield rate * population of camel/goat/pig * current year price | Value of output = yield rate * population of camel/goat/pig * base year price | Yield rate of hair Camel – 800 gm. per animal per year (as available for single-humped camel) Pig Bristles: For pig bristles 155gm per pig per year. |
| (x) Dung and Droplet (a) Dung Fuel (b) Dung Manure | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Population: ILC, 2003, 2007 and 2012 from DADF ◆ Prices, evacuation rate | Production of dung = population of cattle, buffalo, sheep and goat * evacuation rate (a) dung fuel value of output = 0.4 * utilisation rate | Same procedure as adopted for the current price estimates, but the prices used are the respective base year prices | Evacuation rate for sheep and goat have been derived from a study conducted by Central |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|--|--|---|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | for dung, utilization rate for dung cake & dung manure: State DESs | for estimating dung used for making cakes * dung production * current year price (b) dung manure value of output = utilisation rate for estimating dung used for manure purpose * dung production * current year price | | Institute for Research on Goats and National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi, during 2013, on "Positive Environmental Externalities of Livestock in Mixed Farming Systems of India" |
| (xi) Other Products – Silk – Ere, Tasar, Muga, Honey and Bee Wax | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production and prices of silk: Central Silk Board ◆ Production and prices of honey: KVIC ◆ Production and prices of bee wax: State DESs | Value of output = current year production * current year price | Value of output = current year production * base year price | |
| (xii) Increment in livestock | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Population: ILC, 2003, 2007 and 2012 from DADF ◆ Prices: State DESs | Value of output = additions to livestock population during the year * current year price | Value of output = additions to livestock population during the year * base year price | |
| <i>(b) Inputs -Livestock</i> | | | | |
| (1) Repair and maintenance for livestock and operational costs | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Average cost of Repair and Maintenance on (i) Barns; (ii) Animal Sheds and (iii) other miscellaneous costs: All India Debt and Investment Survey (AIDIS), 2013 | Benchmark estimates (as derived from AIDIS, 2013) moved with the estimates of capital stock of farm business at current prices + Value of Operational Cost at current prices | Benchmark estimates (as derived from AIDIS, 2013) moved with the estimates of capital stock of farm business at constant prices + Value of Operational Cost at constant prices | Value of Operational Cost = 0.25 % of value of output at current/constant prices of (poultry meat, silk, wool, hides and increment in livestock) |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|---|---|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (2) Market charges for Live stock | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Number of slaughtered animals: ISS from DADF ◆ Municipal charges per slaughtered animal: State DESs | Market charges = rates in Rupees per animal in current year * no. of slaughtered animals | Market charges = rates in Rupees per animal in base year * no. of slaughtered animals | Assumed to be fixed till revised by state governments. |
| (3) Feed of livestock for Livestock Sector | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Age-wise Species-wise Population: ILC, 2003, 2007 and 2012 from DADF ◆ State-wise average price for Dry Fodder, Green Fodder and Concentrates: CCS from DESAg | Value of Feed = Species-wise and Category-wise per animal annual feed Consumption value for base year (except Adult Male Cattle & Adult Male Buffalo) *(relevant indicator based on WPI of Fodder and food grains)* Species-wise and Category-wise population | Value of Feed = Species-wise and Category-wise per animal annual feed Consumption value for base year (except Adult Male Cattle & Adult Male Buffalo) * Species-wise and Category-wise population | Per animal annual Consumption rates have been derived using the study on "India's Livestock Feed Demand: Estimates and Projection" by Centre of Economics and Social Research, New Delhi and National Centre for Agricultural Economics and Policy Research, New Delhi |
| 4. Forestry | | | | |
| (a) value of output | | | | |
| (1) Industrial wood from Forests | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production and Prices: State DESs | Recorded: Value of output = production * current year price Total = 1.1*Value of output of recorded production | Recorded: Value of output = production * base year price Total = 1.1*Value of output of recorded production | Value of output of unrecorded production= 0.1 * value of output of recorded production |
| (2) Industrial Wood from Trees outside forest | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Growing Stock: India State of Forest Report | Value = Estimated production (Projection using potential production from TOF in | Value = Estimated production (Projection using potential | Growth rate in price of industrial wood from TOF is |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--------------------------------|---|---|--|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | (ISFR), 2011 and 2013 from Forest Survey of India | the year of survey and Growth Rate of Growing Stock of TOF) * base year price* (Current year price of Industrial Wood from Forests/Base Year Price of Industrial Wood from Forests) | production from TOF in the year of survey and Growth Rate of Growing Stock of TOF) * base year price | the same as that of industrial wood from recorded forests |
| (3) Firewood | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Monthly Per Capita Quantity of Firewood consumed: NSS 68th Round CES, 2011-12 ◆ Population: Projections based on Population Census-2011 ◆ Firewood used for industrial purposes: ASI - 2011-12 ◆ Prices: State DESs | Value of Output: (Total Value of Firewood at Current Price – Value of agricultural by products used as firewood at Current Price)*1.0764 | Value of Output: (Total Value of Firewood at Base Year Price – Value of agricultural by products used as firewood at Base Year Price)*1.0764 | Total Value of Firewood= Monthly Per Capita quantity of firewood consumed * Population*(365/30)* Price in the reference year ii) 1.0764= Factor of adjustment for contribution of firewood for Industrial and Religious purposes |
| (4) Non Timber Forest Products | | | | |
| (i) Minor forest products | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Value of Output: State DESs ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | Value of output estimates are directly furnished by the State DESs | Value of output at current prices deflated by the relevant WPI | |
| (ii) Fodder from forest | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Percentage of Livestock dependent on forest for fodder: India State of Forest Report (ISFR), 2013 from FSI | Value of Roughages (as estimated for the input - feed of livestock in crops & livestock sectors) at current year price*Percentage of Livestock dependent on forest for fodder | Value of Roughages at base year price*Percentage of Livestock dependent on forest for fodder | |
| (b)Inputs of forestry | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget documents of state governments | 16.2% of total value of output at current price | 16.2% of total value of output at base year price | Calculated using the information available for 2010-11, 2011-12 & 2012-13 |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|---|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 5. Fishing | | | | |
| (a) value of output | | | | |
| (1) Marine fish, inland fish and prawns | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production: DADF ◆ Production, disposals and prices: State DESs | Value of output = Quantity of fish sold in raw form *current price + quantity of salted fish sold * current price + quantity of sun-dried fish * current price + quantity of fish let-in for freezing * current price | Value of output = Quantity of fish sold in raw form *Base year price + quantity of salted fish sold * Base year price + quantity of sun-dried fish * Base year price + quantity of fish let-in for freezing * Base year price | |
| (2) Subsistence fish | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Production, disposals and prices: State DESs | Value of output = Production of subsistence fish * Current price | Value of output = Production of subsistence fish * Base year price | Production of subsistence fish= 0.125*production of Inland fish, for the states where production of subsistence fish is not available |
| (b) inputs | | | | |
| (1) Marine fish and prawns | | Value of inputs = 0.225 * value of catch at current prices of marine fish and prawns | Value of inputs = 0.225 * value of catch of marine fish and prawns at base year prices | Fixed input rates |
| (2) Inland fish | | Value of inputs = 0.1 * value of catch of inland fish at current prices | Value of inputs = 0.1 * value of catch of inland fish at base year prices | Fixed input rates |
| (3) Fish salting/sun dried/subsistence | | Value of inputs = 0.01 * value of output of (Let out of salted fish and subsistence fish) at current prices | Value of inputs = 0.01 * value of output of (Let out of salted fish and subsistence fish) at base year prices | Fixed input rates |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|-------------------------------------|---|--|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 6. Mining & Quarrying | | | | |
| (1) coal | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Reports of Public Sector Companies ◆ State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States. Compensation of Employees (CE) is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in that NDE, while Operating Surplus (OS = GVA - CE) is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE. | Current year estimates are deflated using WPI | In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ State-wise production of coal in private sector: O/o Coal Controller ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States on the basis of the state-wise production of coal in private sector | | |
| (2) crude petroleum and natural gas | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Reports of Public Sector Companies ◆ State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States. CE is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in that NDE, while Operating Surplus (OS = GVA - CE) is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE. | Current year estimates are deflated using WPI | In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--------------------------------|--|---|---|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ State-wise production of crude oil in the private corporate sector: MoPNG ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States on the basis of State-wise production of crude oil in the private corporate sector | | |
| (3) other major minerals | | | | |
| Major minerals other than salt | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Reports of Public Sector Companies ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ State-wise mineral-wise data on production: IBM ◆ Prices and input of major minerals: IBM | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach allocated to the States using State-wise mineral-wise production | Constant price estimates are derived using deflators compiled from the IBM data on production, prices and input rates. | Deflators of metallic and non-metallic minerals can be derived from the IBM publication at the State level also. |
| Salt | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Output: Salt Commissioner's Office ◆ Input rates: Hindustan Salt Limited | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimate of state-wise value of output in the case of salt production is obtained from Salt Commissioner's Office. ◆ For estimating value added, input rates as observed in the case of Hindustan Salt Limited are used. | Constant price estimates are derived using deflators of non-metallic minerals compiled from the IBM data on production, prices and input rates. | Deflators of non-metallic minerals can be derived from the IBM publication at the State level also. |
| (4) minor minerals except sand | <ul style="list-style-type: none"> ◆ State Geological Departments for value of output ◆ IBM for input rates | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Value of output estimates are directly available at current year price ◆ Input rates of non-metallic minerals as available from IBM are used. | Constant price estimates are derived using deflators of non-metallic minerals compiled from the IBM data on production, prices and input rates. | Deflators of non-metallic minerals can be derived from the IBM publication at the State level also. |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|---|--|---|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (5) Sand | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Results of CBRI Study ◆ Input rates: IBM | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Value of output = 7.21% of value of material inputs in construction, adjusted for TTM ◆ Intermediate consumption and Value Added derived using the input rate obtained from IBM ◆ GVA allocated to States on the basis of value of production of sand received from the States | Constant price estimates are derived using deflators of non-metallic minerals compiled from the IBM data on production, prices and input rates. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Growth of GVA-Construction can be used as an indicator to move the previous year's estimates. 2. Deflators of non-metallic minerals can be derived from the IBM publication at the State level also. |
| 7. Manufacturing | | | | |
| <i>Public corporations: Railway Workshops & Production Units</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Railway Budget Documents ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach and allocated to the States on the basis of sanctioned strength of employees in the case of Railway Workshops & state-wise salaries in the case of production units. | Current price estimates are deflated with the relevant WPI. | |
| <i>Public corporations: Other Departmental Enterprises (DEs)</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget Documents of central & state governments ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach. ◆ GVA of central DEs are allocated to the States on the basis of the location of the DE. | Current price estimates are deflated with the relevant WPI. | GVA of State DEs are allocated to the respective States. |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|---|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Public corporations: Non-Departmental Enterprises (NDEs) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Reports of NDEs ◆ State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States in the case of multi-state NDEs. CE is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in that NDE, while OS is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE. | Current price estimates are deflated with the relevant WPI. | In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |
| Private Corporations | | | | |
| Private Companies | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ Annual Survey of Industries (ASI) ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA are compiled using production for the Private Sector Companies using MCA21 database and allocated to States (by compilation category) on the basis of state-wise value added in manufacturing (total, not institution-wise) as per last available ASI. | Current price estimates are deflated with the relevant WPI. | |
| Private Quasi-corporations | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ASI ◆ Index of Industrial Production (IIP) ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | <ul style="list-style-type: none"> ◆ State-wise estimates of GVA, by compilation category, obtained from ASI for the quasi-corporations (Factories covered under ASI but not registered under Companies Act). ◆ Till ASI becomes available, estimates of the preceding year are extrapolated using IIP and WPI. | Current price estimates are deflated with the relevant WPI. | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Private Unincorporated Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 and 68th Round EUS, 2011-12 ◆ IIP ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | <ul style="list-style-type: none"> ◆ GVA at the national level for the year 2011-12 allocated using state-wise benchmark estimates of GVA compiled using value added per effective worker from NSS 67th Round and number of effective workers from NSS 68th Round. ◆ The benchmark state-wise estimates are moved to subsequent years using the state's growth rate of GVA-manufacturing as estimated by ASI to get the state-level estimate. ◆ Compilation category-wise estimates are compiled by allocating the state's estimate using base year structure of the state's GVA by compilation category. ◆ For the year when ASI is not available, the preceding year estimates are moved using IIP and WPI. | Current price estimates are deflated with the relevant WPI. | |
| 8. Electricity, gas, water supply and other utility services | | | | |
| (1) electricity | | | | |
| Public corporations: Departmental Enterprises (DEs) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget Documents of central & state governments ◆ Quantity of electricity sold: CEA | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach ◆ GVA of central DEs are allocated to the States on the basis of the location of the DE. | Base year estimate moved with the index of quantum sales of electricity | GVA of State DEs are allocated to the respective States. For the State-level data, Generation Overview Report (a monthly report) of Central Electricity |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|--|---|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | Authority giving monthly electricity generated can be used to form the index. |
| Public corporations: Central Non- Departmental Enterprises <i>Electricity generating companies (DVC, NEEPCL, NHPC, NLC, NPCIL, NTPC)</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Reports of Public Sector electricity generating companies ◆ State-wise quantity of electricity generated and sold: CEA/concerned NDE | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach of these multi-state companies is allocated on the basis of state-wise electricity generated | Base year estimate moved with the index of quantum sales of electricity | |
| Public corporations: Central Non- Departmental Enterprises <i>Power Grid Companies</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Reports of Public Sector power grid companies ◆ State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE ◆ State-wise quantity of electricity sold: CEA | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States in the case of multi-state NDEs. CE is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in that NDE, while OS is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE. | Base year estimate moved with the index of quantum sales of electricity | In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |
| Private Corporations | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ State-wise quantity of electricity generated and sold by private companies: CEA | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach and allocated on the basis of sum of number of units of electricity generated and number of units of electricity sold by private companies | Base year estimate moved with the index of quantum sales of electricity | The sum of number of units generated and number of units sold is taken assuming that the companies either generating electricity or involved in distribution. |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|---|--|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (2) Gas | | | | |
| Public Corporations: Central Non- Departmental Enterprises (NDEs) <i>Gas generating companies (GAIL India Ltd.)</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Reports of Public Sector electricity generating companies ◆ State-wise quantity of gas sold: concerned NDE | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach ◆ NDE-wise GVA is allocated among States based on state-wise gas sold by the NDE | Base year estimate moved with the index of quantum sales of gas. | Index of quantum sales of gas is based on the information available from GAIL. In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |
| Public Corporations: Other Non-Departmental Enterprises (NDEs) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Reports of Public Sector Companies ◆ State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States. CE is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in that NDE, while OS is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE. | Base year estimate moved with the index of quantum sales of gas. | Index of quantum sales of gas is based on the information available from GAIL. In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |
| Private Corporations | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach and allocated on the basis of state-wise revenue of the Companies | Base year estimate moved with the index of quantum sales of gas. | Index of quantum sales as used for Public Sector is assumed to be relevant for Private Corporations also |
| Private Unincorporated Enterprises: gobar gas | <ul style="list-style-type: none"> ◆ State-wise Value of production: Khadi & Village Industries Commission (KVIC) ◆ No. of bio gas plants: M/o Non-Conventional Energy | <ul style="list-style-type: none"> ◆ State-wise GVA is calculated as the value of production at current prices. This is duly adjusted for share of KVIC in total biogas plants installed up to current year. | Base year estimate moved with the index of no. of bio gas plants | Value of inputs is assumed to the same as the value of by-product, i.e. manure. |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|---|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (3) water supply | | | | |
| General Government: State Administrative Departments | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget documents of state governments ◆ CPI from MOSPI | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach | Current price estimates are deflated with the CPI (General) | |
| Public corporations: Non-Departmental Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Reports of Public Sector Companies (exists only in Kerala - Kerala Water Authority) ◆ CPI from MOSPI | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach | Current price estimates are deflated with the CPI (General) | Kerala Water Authority being a single-state NDE, the entire GVA is allocated to Kerala. |
| Private Corporations | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ CPI from MOSPI | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach and allocated to the States on the basis of State-wise annual wages of workers in the industry as per NSS 68th Round. | Current price estimates are deflated with the CPI (General) | |
| Private Unincorporated Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 ◆ CPI from MOSPI | <ul style="list-style-type: none"> ◆ For the base year, the estimate of GVA is calculated as Wage per day * Number of working days and allocated to the States on the basis of State-wise annual wages in the activity as per NSS 68th Round ◆ For the subsequent years, the growth rate of GVA at current prices of Private Corporate Sector at the national level in this category is used and allocated according to the base year proportions. | Current price estimates are deflated with the CPI (General) | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|--|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (4) remediation (recycling) | | | | |
| Public & Private Corporations | <ul style="list-style-type: none"> ◆ ASI ◆ IIP ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | <ul style="list-style-type: none"> ◆ State-wise GVA are obtained from the results of ASI. ◆ For the year when ASI is not available, the previous year's estimates are moved using IIP and WPI. | Current price estimates are deflated with the relevant WPI. | |
| Private Unincorporated Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 and 68th Round EUS, 2011-12 (for the unorganised portion of recycling) ◆ IIP ◆ WPI: M/o Commerce and Industry | <ul style="list-style-type: none"> ◆ National estimates of GVA have been allocated to the States on the basis of state-wise GVA as per NSS 67th Round ◆ The estimates for unorganised recycling are moved to subsequent years using IIP and WPI and are replaced by ASI when its results become available | Current price estimates are deflated with the relevant WPI. | IIP and WPI of 'Basic Iron and Steel + Casting of iron and steel' are used for this category. |
| (5) remediation (sewerage & sanitation) | | | | |
| General Government: State Administrative Departments | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget documents of state governments ◆ CPI from MOSPI | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach | Current price estimates are deflated with the CPI (General) | |
| Private Corporations | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ CPI from MOSPI | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Estimates of GVA compiled using production approach in the case of Private Sector Companies and allocated on the basis of base GVA obtained from NSS 68th Round | Current price estimates are deflated with the CPI (General) | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|--|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Private Unincorporated Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 and 68th Round EUS, 2011-12 ◆ CPI from MOSPI | <ul style="list-style-type: none"> ◆ National estimates of GVA have been allocated to the States on the basis of state-wise GVA as per NSS 67th Round ◆ For the subsequent years, the growth rate of GVA at current prices of Private Corporate Sector at the national level in this category is used and allocated according to the base year proportions. | Current price estimates are deflated with the CPI (General) | |
| 9. Construction | | | | |
| General Government: Administrative Departments | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget documents for central & state governments ◆ Annual accounts of local bodies | <p>(i) NVA of State Government in Construction is taken from State Government budget documents</p> <p>(ii) NVA of Central Government in Construction is allocated to States based on the information in the "works annexure" of the budget documents.</p> <p>(iii) CFC of GG is allocated on the basis of NVA as derived above and GVA is calculated as sum of NVA and CFC.</p> | Deflated by General Pucca Construction Index | General Pucca Construction Index is a weighted index of prices of building materials (i.e. Cement, Iron & Steel Bricks and Timber), labour and fixtures & fittings. |
| Public Corporations: Departmental Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget documents for central & state governments | Estimates of GVA are compiled using production approach in the industry. Estimates of central DEs are allocated to the States using state-wise outlay on construction. | Deflated by General Pucca Construction Index | GVA of State DEs are allocated to the respective States. General Pucca Construction Index as in the case of General Government. |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|---|---|--|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Public Corporations: Non-Departmental Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual reports of non-departmental commercial undertakings ◆ State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE ◆ Length of highway awarded (Number of kilometres) in PPP and EPC projects: website of NHAI | <p>Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States in the case of multi-state NDEs.</p> <p>In the case of NHAI, GVA is allocated using state-wise length of highways awarded under PPP and EPC projects in the year.</p> <p>In the case of other NDEs, CE is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in that NDE, while OS is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE.</p> | Deflated by General Pucca Construction Index | In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. General Pucca Construction Index as in the case of General Government. |
| Household sector | | | | |
| Rural/Urban residential buildings (RRB) - new construction outlays plus repair & maintenance | <ul style="list-style-type: none"> ◆ AIDIS 2013 for capital expenditure in rural & urban residential buildings and Census 2011 for number of dwellings ◆ NBO/States for prices of cement, I&S, bricks & timber and wages of urban labour | The state wise estimates of new construction and repairs & maintenance in respect of rural and urban residential buildings of AIDIS are moved to later years with the help of inter-censal growth rate in the number of dwellings. Price changes are imposed with the help of Rural/Urban Cost of Construction Index (CCI). | Deflated by Cost of Construction Index for Rural/Urban Housing | Cost of Construction Index (CCI) for Rural/Urban Housing is a weighted index of prices of building materials (i.e. Cement, Iron & Steel Bricks and Timber), labour. Additionally for the urban CCI, fixtures & fittings and 'other materials' are also considered. For labour, (CPI-R) is taken in the case of rural CCI and index of wage of urban labour for |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|--|---|--|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | urban CCI. |
| Rural / Urban - non-residential buildings and other construction works (new construction plus repairs & maintenance) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ AIDIS 2013 for capital expenditure in R/U non-residential buildings and other construction works | The state wise estimates of new construction and repairs & maintenance in respect of rural and urban non-residential buildings of AIDIS are moved to later years with the help of combined index of value of output from Agriculture sector and manufacturing sector. | Deflated by General Pucca Construction Index | In the Combined Index of output of Agriculture and manufacturing, indices of output at current prices of agriculture and manufacturing are combined using their share in sum of output of agriculture and output of manufacturing. |
| Plantations in the household sector | <ul style="list-style-type: none"> ◆ State-wise area under cultivation for plantation crops: NHB and Commodity Boards | All India estimates of GVO of construction in plantations in the household sector are distributed to the States using State-wise information on increment in area under cultivation of the plantation crops. | Deflated by CPI(R) | 18 plantation crops namely, Coconut, Tea, Coffee, Rubber, Citrus fruits, pineapple, Cashew Nut, areca nut, banana, mango, grapes, papaya, apple, litchi, sapota, guava, pomegranate and cardamom considered |
| Other households | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Includes NPISH and unincorporated enterprises not covered in AIDIS | Obtained as residual through the commodity flow method of the household sector and allocated on the basis of a composite indicator using State-wise consumption of cement and iron & steel. (same as residual sector) | Deflated by General Pucca Construction Index | General Pucca Construction Index as in the case of General Government. |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|--|---|--|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Residual Sector | <ul style="list-style-type: none"> Includes data on Private Corporate Sector and other un-allocated portion of GVA construction at the national level | Estimate allocated on the basis of a composite indicator using State-wise consumption of cement (weight: 19.66%) and iron & steel (weight: 80.34%). | Same as above | Combined growth of Cement (with weight: 19.66%) and iron & steel (with weight: 80.34%) can be used to extrapolate till allocation is available. |
| 10. Trade & repair services | | | | |
| Public Corporations: Departmental Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> Budget documents of central & state governments CPI from MOSPI | Estimates of GVA compiled using production approach. GVA of central DEs are allocated to the States on the basis of the location of the DE. | Current price estimates are deflated using CPI (General) | GVA of State DEs are allocated to the respective States. |
| Public Corporations: Non-Departmental Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> Annual reports of NDEs State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE CPI from MOSPI | Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States in the case of multi-state NDEs. CE is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in that NDE, while OS (OS = GVA - CE) is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE. | Current price estimates are deflated using CPI (General) | In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |
| Private Corporations | | | | |
| Private Companies | <ul style="list-style-type: none"> MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies WPI: M/o Commerce and Industry | Estimates of GVA at current prices compiled using production approach and allocated on the basis of GVA estimated using GVAPW from NSS 67 th Round and labour input from NSS 68 th Round. | Current price estimates are deflated using CPI (General) | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|--|--|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Co-operatives | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NABARD publication, "Statistical Statements Relating to Cooperative Movement in India, 2004-05" | <p>Estimates of GVA at current prices allocated on the basis of LI in the sector from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, GVA at current prices are obtained by extrapolation using index of sales tax.</p> | Current price estimates are deflated using CPI (General) | |
| Private Unincorporated Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 and population Census 2011 ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 ◆ CPI from MOSPI | <p>Base year State-wise GVA allocated using GVAPW from NSS 67th Round and labour input from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, GVA at current prices are obtained by extrapolation using index of sales tax.</p> | Current price estimates are deflated by CPI (General) | |
| 11. Hotels and Restaurants | | | | |
| Public Corporations: Non-Departmental Enterprises (NDEs) | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual reports of NDEs ◆ State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE ◆ CPI from MOSPI | <p>Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States in the case of multi-state NDEs. CE is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in that NDE, while OS (OS = GVA - CE) is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE.</p> | Current price estimates are deflated using CPI (General) | In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |
| Private Corporations | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ CPI from MOSPI | <p>Estimates of GVA at current prices compiled using production approach and allocated on the basis of tourist arrivals (domestic + international tourists)</p> | Current price estimates are deflated using CPI (General) | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|--|---|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Private Unincorporated Enterprises | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 and population Census 2011 ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 ◆ CPI from MOSPI | <p>Base year State-wise GVA compiled using GVAPW from NSS 67th Round and labour input from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, current prices estimates are obtained by using growth in the corporate sector</p> | Current price estimates are deflated by CPI (General) | |
| 12. Railways | | | | |
| Railways | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Railway Budget ◆ Annual reports of the NDEs ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies | Estimates of GVA are allocated on the basis of indicators like section-wise passenger and freight earnings, state-wise number of employees and the capital-at-charge in each zone. | Constant price estimates at the national level are estimated using the Implicit Price Deflator at the national level. | |
| 13. Transport other than Railways and storage | | | | |
| Public Corporations (Departmental & Non-Departmental Enterprises – DEs & NDEs) | | | | |
| (i) Land Transport | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget documents of central & state governments ◆ Annual reports of the NDEs ◆ State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE ◆ Number of registered vehicles from M/o Road Transport | <p>Estimates of GVA compiled using production approach.</p> <p>GVA of central DEs are allocated to the States on the basis of the location of the DE.</p> <p>In the case of Central NDEs, except in the case of air transport, estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach and allocated to States. CE is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in</p> | Base year estimates are moved using index of registered vehicles | In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |
| (ii) Water Transport | | | Current price estimates are deflated by CPI(transport & communication) | |
| (iii) Services incidental to transport | | | Previous year's estimate extrapolated with the combined growth of GVA of water+air+land transport at constant prices | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|--|---|--|---------|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (iv) Storage & warehousing | ◆ CPI from MOSPI | that NDE, while OS (OS = GVA - CE) is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE. | Current price estimates are deflated by CPI(misc) | |
| Private Corporations | | | | |
| All categories given below | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ NSS 63rd Round ES, 2006-07 for Cooperatives (for land and water transport) | Estimates of GVA compiled using production approach and allocated on the basis of GVA estimated using GVAPW from NSS 67 th Round and labour input from NSS 68 th Round. | | |
| (i) Land Transport | ◆ Number of registered vehicles from M/o Road Transport | Constant price estimates of GVA are inflated using CPI(transport & communication) | Base year estimates are moved using index of registered vehicles | |
| (ii) Water Transport | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Cargo handled at ports from M/o Shipping ◆ CPI from MOSPI | GVA at the national level is allocated using share of cargo handled and length of navigable rivers. | Current price estimates are deflated by CPI(transport & communication) | |
| (iii) Services incidental to transport | ◆ CPI from MOSPI | Previous year's estimate extrapolated using combined growth of (water+air+land transport) at current prices | Previous year's estimate extrapolated using combined growth of (water+air+land transport) at constant prices | |
| (iv) Storage & warehousing | | GVA at the national level is allocated using base year proportions as given above | Current price estimates are deflated by CPI(Miscellaneous) | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|---|---|--|---------|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| <i>Air transport (Public and Private Corporations)</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual reports of the NDEs ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ M/o Civil Aviation for passenger traffic. ◆ CPI from MOSPI | <p>Estimates of GVA compiled using production approach.</p> <p>GVA at the national level is allocated to states on the basis of passengers handled by the airports in the state during the year.</p> | Current price estimates are deflated by CPI(transport & communication) | |
| <i>Private Unincorporated Enterprises</i> | | | | |
| (i) Land Transport | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 and Population Census 2011 ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 ◆ M/o Transport for registered vehicles ◆ CPI from MOSPI | Constant price estimates are inflated using CPI (Transport & communication). | Base year state-wise GVA estimates are compiled using GVA from NSS 67 th Round and LI from NSS 68 th Round. For subsequent years, these are moved using growth in registered vehicles. | |
| (ii) Water Transport | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 and Population Census 2011 ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11. ◆ CPI from MOSPI | Base year state-wise GVA estimates are compiled using GVA from NSS 67 th Round and LI from NSS 68 th Round. For subsequent years, GVA at national level allocated using index of navigable length plus cargo handled. | GVA at current prices deflated using CPI (transport & communication). | |
| (iii) Air Transport | No household enterprises in this industry | | | |
| (iv) Storage & warehousing | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 and Population Census 2011 ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11. ◆ CPI from MOSPI | Base year state-wise GVA estimates are compiled using GVA from NSS 67 th Round and LI from NSS 68 th Round; these are used as proportions to allocate the national level GVA at current prices. | Current price estimates are deflated using CPI(Miscellaneous). | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|---|--|---|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| (v) Services incidental to transport | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 and Population Census 2011 ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11. | <p>Base year state-wise GVA estimates are compiled using GVA from NSS 67th Round and LI from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, combined growth of (water+land transport) at current prices used to extrapolate the base year estimates.</p> | <p>Base year state-wise GVA estimates are compiled using GVA from NSS 67th Round and LI from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, combined growth of (water+land transport) at constant prices used to extrapolate the base year estimates.</p> | |
| 14. Communication & Services related to broadcasting | | | | |
| Public corporations | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget document of Department of Posts ◆ Annual reports of NDEs ◆ CPI from MOSPI | <p>Estimates of GVA compiled using production approach.</p> <p>Estimates of GVA allocated in the case of Deptt of Posts and Central NDEs of communication on the basis of indicators like receipts, rent, interest, etc. In case of broadcasting (Prasar Bharati), it has been allocated on the basis of sanctioned strength.</p> | <p>Current prices estimates are deflated using CPI (transport and communication)</p> | <p>In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT.</p> |
| Private Corporations | | | | |
| Courier activities, Cable operators, Telecommunication and Recording, publishing & Broadcasting services | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ NSS 63rd Round ES, 2006-07 for Cooperatives (for telecommunication) ◆ CPI from MOSPI | <p>Estimates of GVA compiled using production approach.</p> <p>GVA from courier activities has been allocated on the basis of GVA of Posts.</p> <p>GVA of Cable operators, Recording, publishing & Broadcasting services has been allocated on the basis of population having television in Census 2011.</p> <p>GVA of Telecommunication in the base</p> | <p>Current prices estimates are deflated using CPI (transport and communication)</p> | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|---|---|---|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | year has been allocated on the basis of average number of subscribers in the base year. This has been extrapolated using growth in subscribers and CPI(transport & communication) for the subsequent years. | | |
| Private Unincorporated Enterprises | | | | |
| Courier activities, Cable operators, Telecommunication, Recording, publishing & Broadcasting services | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 and Population Census 2011 ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 ◆ CPI from MOSPI | Base year GVA as compiled using GVA from NSS 67 th Round and LI from NSS 68 th Round has been allocated on the same criteria as used in the Private Corporate Sector. | Current prices estimates are deflated using CPI (transport and communication) | |
| 15. Real estate, Ownership of Dwellings and Professional Services | | | | |
| Public Corporations: Non-Departmental Enterprises <i>Real estate and Professional Services</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual accounts of NDEs ◆ State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE ◆ CPI from MOSPI | <p>Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach.</p> <p>In the case of multi-state NDEs, it is allocated to the States. CE is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in that NDE, while OS (OS = GVA - CE) is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE.</p> | Current year estimates are deflated using CPI(Miscellaneous) | In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|---|---|--|---------|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Private Corporations | | | | |
| <i>Real Estate and Professional Services</i> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ CPI from MOSPI | Estimates of GVA compiled using production approach has been allocated on the basis of Base year GVA as compiled using GVA from NSS 67 th Round and LI from NSS 68 th Round. | Estimates at current prices are deflated using CPI (Miscellaneous) | |
| Computer and Information related Services | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ State-wise software exports made by units registered under Software Technology Parks of India (STPI): STPI ◆ CPI from MOSPI | Estimates of GVA compiled using production approach have been allocated on the basis of information on State-wise software exports made by units registered under STPI. | Estimates at current prices are deflated using CPI (Miscellaneous) | |
| Private Unincorporated Enterprises | | | | |
| Real Estate, Professional Services and Computer and Information related Services | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 and Population Census 2011 ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 ◆ CPI from MOSPI | Base year GVA has been allocated on the basis of GVA as compiled using enterprise information from NSS 67 th Round and LI from NSS 68 th Round. For the subsequent years estimates are moved using Corporate Growth (same as in organised sector) | Estimates at current prices are deflated using CPI (Miscellaneous) | |
| Ownership of dwellings | The GVA for the ownership of dwellings is equivalent to gross rental of the residential census houses less the cost of repairs and maintenance. <i>Details for rural & urban dwellings are given below:</i> | | | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|-----------------|--|---|---|--|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Urban dwellings | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Population Census 2011 for number of residential houses ◆ CPI (R) & CPI (U) from MOSPI ◆ NSS 68th Round CES, 2011-12 for rent per household | <p>Gross rental=no. of census houses (urban) * rent per household as obtained from CES for the base year.</p> <p>For years subsequent to the base year, Rent per household as in the base year is extrapolated using the index of house rent (urban areas) and the number of dwellings is extrapolated using the inter-censal growth rate of urban dwellings.</p> | <p>Estimates of Urban GVA are obtained by moving the base year estimate with inter censal growth rate of dwellings.</p> | <p>In the absence of updated information on the number of dwellings, the inter-censal growth rate is assumed to be valid till the next Population Census.</p> |
| Rural dwellings | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Capital Stock at current and constant prices of rural residential buildings as estimated using perpetual inventory method ◆ CPI (R) from MOSPI | <p>Gross rental at the national level is estimated through user cost approach, using the capital stock of rural residential buildings. The national level estimates are allocated to States using state-wise stock of rural dwellings as estimated from AIDIS, duly extrapolated for the reference year using growth in the number of dwellings and CPI(R).</p> | <p>Estimates of Rural GVA are obtained by deflating the current price estimates using CPI(R)</p> | <p>In the user cost measure, the net operating surplus is imputed using the opportunity cost principle; i.e. the net operating surplus is estimated on the basis of what owner occupiers could have earned on alternative investments (if they had not bought the dwelling). Then, the dwelling costs (intermediate consumption and consumption of fixed capital) are added to the imputed net operating surplus to obtain the imputed rent.</p> |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|---|---|--|---------|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 16. Financial Services | | | | |
| Financial Services | <ul style="list-style-type: none"> Number of employees, deposits, credits, life insurance premiums, etc. from various financial institutions | Estimates of GVA are split into CE, Rent, Profit, etc. and are allocated by CSO at the enterprise level using the information like state-wise salaries, deposits, premiums and number of employees | Current price estimates are deflated by the implicit price deflator for financial services as derived at the national level. | |
| 17. Public administration and defence | | | | |
| Central Government | <ul style="list-style-type: none"> Budget document of central government | Estimates of GVA at current prices are allocated on the basis of number of central government employees across States | Current price estimates deflated by the CPI (General) | |
| State Governments & Local Bodies | <ul style="list-style-type: none"> Budget documents from state governments and annual accounts of local bodies | Estimates of GVA at current prices compiled using production approach | Current price estimates deflated by the CPI (General) | |
| Autonomous Institutions | <ul style="list-style-type: none"> Annual Accounts of sampled Central Autonomous Institutions and State Autonomous Institutions | Estimates of GVA are compiled using production approach for the sample autonomous institutions for the base year and these benchmark estimates have been projected at the national level with the help of total grants given to all autonomous institutions. These are allocated to the States on the basis of indicators like location of these institutions and state wise public sector LI proportions as per NSS 68 th Round. Estimates of GVA are compiled using production approach for the State autonomous institutions and allocated to | Current price estimates deflated by the CPI (General) | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|---|--|--|---|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | the respective states. | | |
| 18. Other Services | | | | |
| Public Sector (General Government and Public Corporations, i.e., DEs & NDEs) | | | | |
| General Government: Administrative Departments and Public Corporations in Education, Health and Recreation | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Budget documents of state governments ◆ Annual reports of NDEs ◆ State-wise number of employees & value of assets: Public Enterprises Survey of DPE ◆ CPI from MOSPI | Estimates of GVA at current prices are estimated by the production approach. In the case of Central NDEs, GVA is allocated to States. CE is distributed on the basis of the number of employees in each State in proportion to State-wise employment in that NDE, while OS (OS = GVA - CE) is distributed in proportion to the State-wise gross block (Value of Assets) of that NDE. | Current price estimates are deflated using CPI for Education and Health in the case of GVA of Education & Health Services and CPI (Miscellaneous) in the case of GVA of Recreation | In the case of single-state NDEs, the entire GVA is allocated to that State/UT. |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|--|--|--|---------|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| <p>General Government: Autonomous Institutions in Education & health</p> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ Annual Financial Accounts of sampled Central Autonomous Institutions and State Autonomous Institutions ◆ CPI from MOSPI | <p>Estimates of GVA are compiled using production approach for the sample autonomous institutions for the base year and these benchmark estimates have been projected at the national level with the help of total grants given to all autonomous institutions. These are allocated to the States on the basis of indicators like location of these institutions and state wise public sector LI proportions as per NSS 68th Round.</p> <p>Estimates of GVA are compiled using production approach for the State autonomous institutions.</p> | <p>Current price estimates deflated by the CPI (General)</p> | |
| Private Corporations | | | | |
| <p>Coaching centres + Activities of the individuals providing tuition + Education excluding Coaching</p> | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ NSS 63rd Round ES, 2006-07 for Co-operatives ◆ CPI from MOSPI | <p>Estimates of GVA compiled using production approach and allocated for the base year on the basis of LI from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, previous year's estimate moved using state-wise inter-survey growth, between NSS 64th and NSS 71st Rounds, in the expenditure on education.</p> | <p>Current price estimates deflated using CPI(education)</p> | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|---|---|--|--|---------|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Human health activities+ care services | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ NSS 63rd Round ES, 2006-07 for Co-operatives ◆ CPI from MOSPI | <p>Estimates of GVA compiled using production approach and allocated for the base year on the basis of LI from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, previous year's estimate is moved using state-wise inter-survey growth, between NSS 64th and NSS 71st Rounds, in the expenditure on health.</p> | Current price estimates deflated using CPI(health) | |
| Remaining social & personal services | <ul style="list-style-type: none"> ◆ MCA21 database for the annual reports of Private Sector Companies ◆ NSS 63rd Round ES, 2006-07 for Co-operatives ◆ CPI from MOSPI | <p>Estimates of GVA compiled using production approach and allocated on the basis of LI from NSS 68th Round.</p> | Current price estimates deflated using CPI (Miscellaneous) | |
| <i>Private Unincorporated Enterprises</i> | | | | |
| Coaching centres + Activities of the individuals providing tuition + Education excluding Coaching | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 ◆ NSS 64th and 71th Rounds on Expenditure on Education, 2007-08 & 2014, respectively ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 ◆ CPI from MOSPI | <p>Base year GVA has been allocated on the basis of GVA from NSS 67th Round and LI from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, previous year's estimate moved using state-wise inter-survey growth, between NSS 64th and NSS 71st Rounds, in the expenditure on education.</p> | Current price estimates deflated using CPI(education) | |

| Item | Data: Source | Method of estimation | | Remarks |
|--|--|--|--|---------|
| | | At current prices | At constant (2011-12) prices | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| Human health activities+ care services | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 ◆ NSS 61st and 68th Rounds CES, 2004-05 & 2011-12, respectively ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 ◆ CPI from MOSPI | <p>Base year GVA has been allocated on the basis of GVA from NSS 67th Round and LI from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, previous year's estimate moved using state-wise inter-survey growth, between NSS 61th and NSS 68th Rounds, in the consumer expenditure on health.</p> | Current price estimates deflated using CPI(health) | |
| Remaining social & personal services | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 ◆ NSS 67th Round ES, 2010-11 ◆ NSS 61st and 68th Rounds CES, 2004-05 & 2011-12, respectively ◆ CPI from MOSPI | <p>Base year GVA has been allocated on the basis of GVA from NSS 67th Round and LI from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, previous year's estimate moved using inter-survey growth in consumer expenditure in non-food items(excluding education and health)</p> | Current price estimates deflated using CPI (misc. services) | |
| Private Households with employed persons | <ul style="list-style-type: none"> ◆ NSS 61st Round EUS, 2004-05 ◆ NSS 68th Round EUS, 2011-12 | <p>Base year GVA has been allocated on the basis of LI from NSS 68th Round.</p> <p>For subsequent years, previous year's estimate moved using inter-survey growth of LI (between NSS 61st Round and NSS 68th Round) and CPI (General).</p> | Previous year's estimate moved using inter-survey LI growth. | |

ACRONYMS/ ABBREVIATIONS

| | | | |
|--------|---|--------|---|
| AIDIS | All India Debt and Investment Survey | ILC | Indian Livestock Census |
| ASI | Annual Survey of Industries | ISS | Integrated Sample Survey |
| CBRI | Central Building Research Institute | KVIC | Khadi and Village Industries Commission |
| CCI | Cost of Construction Index | LI | Labour Input |
| CCS | Cost of Cultivation Studies | LUS | Land Use Survey |
| CE | Compensation of Employees | MCA | Ministry of Corporate Affairs, GOI |
| CEA | Central Electricity Authority | MLP | Major Livestock Products |
| CES | Consumer Expenditure Survey | MoPNG | Ministry of Petroleum & Natural Gas, GOI |
| CFC | Consumption of Fixed Capital | MOSPI | Ministry of Statistics and Programme Implementation, GOI |
| CPI | Consumer Price Index; (R) for Rural & (U) for Urban | MPCE | Monthly Per Capita Expenditure |
| DAC | Department of Agriculture, Cooperation & Farmers Welfare, GOI | NDE | Non-Departmental Enterprises; also referred to as Non-Departmental Commercial Undertakings (NDCUs) or Public Sector Undertakings (PSUs) |
| DADF | Department of Animal Husbandry, Dairying & Fisheries, GOI | | |
| DE | Departmental Enterprises; also referred to as Departmental Commercial Undertakings (DCUs) | NEEPCL | North Eastern Electric Power Corporation Limited |
| DES | Directorate of Economic & Statistics | NHAI | National Highway Authority of India |
| DES Ag | Cooperation & Farmers Welfare | NHB | National Horticulture Board |
| | | NHPC | National Hydroelectric Power Corporation |
| DMI | Directorate of Marketing Inspection, M/o Agriculture | NLC | Neyveli Lignite Corporation Limited |
| DPE | Department of Public Enterprises, GOI | NPCL | Nuclear Power Corporation of India Ltd. |
| DVC | Damodar Valley Corporation | NPISH | Non-Profit Institutions Serving Households |
| EPC | Engineering, Procurement and Construction | NRCM | National Research Centre on Meat, Hyderabad |
| ES | Enterprise Survey or NSS Survey of Unincorporated Enterprises | NSS | National Sample Survey |
| EUS | Employment-Unemployment Survey | NTPC | National Thermal Power Corporation Limited |
| FSI | Forest Survey of India | NVA | Net Value Added |
| GG | General Government | OS | Operating Surplus |
| GVA | Gross Value Added | PPP | Public Private Partnership |
| GVAPW | Gross Value Added per Worker | STPI | Software Technology Parks of India |
| GVO | Gross Value of Output | TTM | Trade and Transport Margin |
| IBM | Indian Bureau of Mines | VPH | Value per Hectare |
| ICAR | Indian Council of Agricultural Research | WPI | Wholesale Price Index |
| IIP | Index of Industrial Production | | |

Directorate of Economics and Statistics, Madhya Pradesh
Vindhyachal Bhawan, Bhopal- 462004
Website- <http://www.des.mp.gov.in>
email- des@mp.nic.in